



“जननी जगमभूमिश्च म्वगादपि गरीयसी ।”

## विनोद-बैचित्र

गणिडत सोमेश्वरदत्त शुक्ल वी० ए० रचित

—०—

प्रकाशक

इंडियन प्रेस, इलाहाबाद

संवत् १९७२

प्रथम धार ]

१९१५

[ मूल्य १ ]

# परिणित सोमेश्वरदत्त शुक्र धी० ए० रचित पुस्तकों की सूची ।

- १—Most Exalted Merits of Chastity
  - २—जर्मनी का इतिहास—इंडियन प्रेस, इलाहाबाद ।
  - ३—फ्रास का इतिहास „ „ „
  - ४—गूढ विषयों पर सरल विचार अभ्युदय प्रेस „
  - ५—सासारिक सुख „ „ „
  - ६—इंगलैंड का इतिहास—इंडियन प्रेस „
  - ७—आनन्दमय जीवन—अभ्युदय प्रेस „
  - ८—जर्मन जासूस „ „ „
  - ९—कैसर-रहस्य „ „ „
  - १०—तरल तरण इंडियन प्रेस „
  - ११—ग्रिनोद वेचित्र व „ „
  - १२—नवीन सम्पत्ति शास्त्र—अभ्युदय प्रेस „  
( शीघ्र छपेगा )
-

## भूमिका ।

हमने नवेम्बर १९०५ में “जीवात्मा का प्रस्तार”

ह नामक पहिला हिन्दी का लेख लिखा था ।

यद्यपि हम इससे पहिले १९०४ में और १९०५

के पूर्वार्ध में सरलत और अंगरेजी भाषाओं

में सब मिला कर ३ छोटी छोटी पुस्तकों

लिख चुके थे, तथापि उक्त समय तक हमों हिन्दी

में कुछ भी न लिया था । अपनी हिन्दी पुस्तकों को छोड़

कर आरम्भ से लेकर सन् १९१४ के अन्त तक हमने समय

समय पर जितने लेयर लिखे हैं प्राय उन सभी को हमने इस

“विनोद-चैचिन्य” में एकत्र कर दिया है । हमें आशा है कि

यह सग्रह उपयोगी होगा और हिन्दी-प्रेमी सज्जन इसे अपना-

कर हमें अनुगृहीत करेंगे ।

विषय विभाग को स्पष्ट करने के लिये हमने इस पुस्तक को चार भागों में बाँट दिया है और इनमें से प्रत्येक में समस्त लेयर अपने समय के क्रम से दिये गये हैं । नीचे फुटनोटों में क्रमशः

६ इनमें से जो निम्न दर्शक हमने हूँगलेड के विख्यात भ्रम्यकार जान रसिकन की पुस्तकों के आधार पर लिये हैं वे इनमें अलग “नवीन सम्पत्तिशास्त्र” के नाम से कुछ नये लेयरों के साथ शीघ्र छपेंगे ।

उनके लिखे जाने के समय, उनके प्रकाशित होने के बान  
इत्यादि का व्योरा लिख दिया गया है, जिससे प्रत्येक लेख के  
विषय में आवश्यक बाते जानी जा सकती हैं। इस पुस्तक के  
पहिले भाग का लेख नं० २, दूसरे के नं० १ और २, तथा चौथे  
के नं० १, ४, ८ और ११ को छोड़ कर शेष सब “सरस्वती”,  
“मरीदा”, “अभ्युदय” इत्यादि पत्रों में प्रकाशित हो चुके हैं।

पहिले भाग के दो अन्तिम लेख, दूसरे के दो प्रथम लेख,  
चौथे चौथे के नं० १ और ४ नये तौर से इसी सग्रह के लिये  
नये नये भावों और पिचारों के साथ लिखे गये हैं, इनमें हमारे  
लिये हुए मूल लेखों की छाया नाम मात्र ही को कहाँ कहाँ पर रह  
गयी है। इनके साथ ही हमने शेष सभी लेखों को पूर्णतया परि  
मार्जित करके नवीन रूप दिया है। इस प्रकार से हमने इस पुस्तक  
को सभी तरह से नयी करके इसे अपने वर्तमान समय के अनुकूल  
बनाया है। इसके सिवा भाग २ के लेख नं० ३ को छोड़ कर  
इस सग्रह के प्रायः सभी लेखों की रचना हमने स्वतन्त्रता के  
साथ की है।

सोमेश्वरदत्त शुक्ल ।

मीतापुर, अवध ।

सोमवार १३ मार्गशीर्ष शु० स० १९७१, }  
ता० ३० नवेम्बर १९८४ । }  
{

४० - ५० | न डेढिता

## विषय-सूची । १०८ व शब्दालय,

८, ( अङ्ग्रेजीता )

### प्रथम भाग ।

( तुलसीदास पर हमारे लेख )

पृष्ठ

१—तुलसीदास की उत्प्रेक्षाएँ एवं रूपक	३—१६
२—तुलसीदास की नीति	१७—५०
३—तुलसीदास चौर छोरत	५१—६८
<hr/>	

### द्वितीय भाग ।

( रामतीर्थ के निवन्धों पर हमारे लेख )

१—जीवात्मा का विस्तार	७१—७८
२—सफलता के रहस्य	७९—१०१
३—एक पवित्र छाया	१०२—१०४
<hr/>	

### तृतीय भाग ।

( गकिम बाबू के निवन्धों पर हमारे लेख )

१—सहस्र शिल्प	१०७—११२
२—अनुकरण	११३—१२०

## ३—प्राचीन समय की भलक—

(१) द्वौपदी (१)

१२१—१२६

(२) द्वौपदी (२)

१२७—१३४

## चतुर्थ भाग ।

( हमारे फुटकर लेख )

१—सफलता के लिये दो जहरी बातें	१५७—१५१
२—एक रहस्य	१५२—१५४
३—हास्यमयोक्तिमालिका	१५५—१५७
४—महाराजा सर प्रताप नारायणसिंह बहादुर के० सी० आई० ई०	१५८—१६५
५—जातीय शिक्षा	१६६—१७०
६—सीतापुर में लाजपति	१७१—१७६
७—हरिद्वार और हृषीकेश की यात्रा	१७७—१८४
८—श्रोकपुष्पाञ्जलि का आशय	१८५—१८७
९—पैण्डित हरिदत्तजी शास्त्री	१८८—१९५
१०—मधुरी पहाड़	१९६—२२०
११—सदाचार-नीति और नवीन दार्शनिक हृषि	२२१—२३६
१२—दक्षिणी अफ्रीका और वहाँ की शासन प्रथा	२३७—२४४

## १—तुलसीदास की उत्प्रेक्षाएँ एवं रूपक ।

वियो में तुलसीदास का नम्बर बहुत ऊँचा है । पांडित्य चाहे उनमें कम रहा हो, परन्तु कवित्य उनमें स्वाभाविक था । उनकी वार्णी बड़ी ही रसाल है । जब तक हिन्दी भाषा का प्रचार रहेगा, तब तक रामायण के रूप में तुलसीदास की यशा पताका उड़ती रहेगी । उपमा वैलक्षण्य, अर्थ गौरव, प्राकृतिक वर्णन, पद लालित्य आदि गुणों में हिन्दी काव्यों में रामायण ही विद्यान है । सूरसागर भी उत्तम काव्य है, परन्तु कहा कहा गया है वह असम्यद्द कथा के रूप रक्षा प्रत्येक पद अपना अर्थ अलग ही देता है । क्रम कह कर तुलसीदास ने यह प्रमाणित बड़े सब प्रकार की काव्य

•

## १—तुलसीदास की उत्प्रेक्षाएँ एवं रूपक ।

तुलसीदास  
की  
उत्प्रेक्षा

वियो में तुलसीदास का नम्यर बहुत ऊँचा है।

पादित्य चाहे उनमें कम रहा हो, परन्तु कपित्व उनमें स्वाभाविक था। उनकी वाणी बड़ी ही रसाल है। जब तक हिन्दी भाषा का प्रचार रहेगा, तब तक रामायण के रूप में

तुलसीदास की यश पताका उड़ती रहेगी। उपमा वैलक्षण्य, अर्थ-गैरव, प्राकृतिक वर्णन, पद लालित्य आदि गुणों में हिन्दी काव्यों में रामायण ही प्रियात है। सूरत्सागर भी उत्तम काव्य है, परन्तु उसमें जो कुछ कहा गया है वह असम्यद्द कथा के रूप में कहा गया है, उसका प्रत्येक पद अपना अर्थ अलग ही देता है। कथा-सम्बर्भ को यथाक्रम कह कर तुलसीदास ने यह प्रमाणित किया है कि वह बहुत बड़े कपि ये घोर सब प्रकार की “काव्य रचना कर सकते थे।

\* मद् १६०८। “सरम्यती” भाग ६, संख्या १२, पृष्ठ २५३—२५७। पूर्वनाम “तुलसीदास की अद्भुत उपमाएँ ।” स्वतन्त्र।

रामायण में एक प्रकार का अद्भुत माधुर्य और भाव है। कृत्रिम काव्य में पढ़नेवाले के हृदय पर प्रभाव पैदा करने की शक्ति बहुत कम होती है, परन्तु प्राकृतिक कविता में यह बात अधिकता से पायी जाती है। रामायण की कविता स्वाभाविक है। कोई आश्र्य नहीं कि इसी कारण से यह सरस और प्रभावशाली ग्रन्थ बड़े राजभवनों से लेकर झोपड़ों तक में सादर पढ़ा जाता है।

प्रतिदिन मूर्योदय होता है और धूप निकलती है, तथा हृष्णन्त, ग्रीष्म और वर्षा ऋतु सदा यथासमय आती हैं और चली जाती हैं, परन्तु इनमें कोई नयी बात हमको नहीं दिखायी देती है। हमारे लिये यह सब एक सामान्य घटना क्रम है। इनके विषय में किसी प्रकार की असामान्यता हमारे चित्त में नहीं प्रकट होती है। स्वाभाविक कवि इन्हें एक विलक्षण हृष्टि से देखता है और इन्हों साधारण चातों से नये कौतुकजनक उपदेश निकाल कर हमको आश्र्य में डाल देता है। सामान्य घात या घटना को असामान्य हृष्टि से और असामान्य विषय को सामान्य हृष्टि से देख कर अपने भावों को एक भनोरझुकरूप में प्रकाशित करना प्राकृतिक कगित-शक्ति का एक मुख्य लक्षण है।

वैसे तो उत्प्रेक्षा, ऋषक, उपमा इत्यादि के लिये कालिदास की बड़ी प्रशस्ता है, परन्तु तुलसीदास भी इस विषय में अत्यन्त निपुण थे। इनके कोई कोई भाव-वैचित्र्य बड़े ही अनोखे हैं। वर्षा ऋतु की अनेक घटनाओं से इस महाकवि ने उत्तमोत्तम

शिक्षापै सम्रह करके उन्हें हिन्दी-कविता में गुफित किया है। दार्शनिक सिद्धान्तों तक को मनोहर उपमाओं के भीतर रख कर इसने उन्हें सरल बना दिया है। हम तुलसीदास की उत्प्रेक्षा, उपमा, रूपक इत्यादि के कुछ नमूने देते हैं। इनको हमने साधारण रीति से छाँट लिया है। हूँढने से और भी विलक्षण गिरिचत्रताओं का पता लगेगा।

देखिए रामायणकार रूपक के निरूपण में कैसे सिद्धहस्त हैं। आपके लिये रामायण काव्यरूपी मानसरोवर तैयार किया गया है, जिसमें स्नान करके आप अपने अन्तर्मल को दूर कर सकते हैं। बाल, अयोध्या आदि काण्ड उस तड़ाग की सात सुन्दर सीढियाँ हैं, उसमें सीताराममय मुख्यादु जल भरा हुआ है। उपमारूपी तरङ्गे उत्प्राप्ति होकर मन्द मन्द शब्द कर रही हैं। देवहा, चौपाई, छन्द और मोरठा भाँति भाँति के कमल हैं, जिन्हें सुकृतरूपी भ्रमर चारों ओर संघेरे हुए हैं। ज्ञान और विराग ये दो हस उस सरोवर के दोनों तटों पर घेटे हैं। जप, तप आदि नाना भाँति के जलचर उसमें आनन्द कर रहे हैं। क्षमा और दया के उत्तम उत्तम वृक्ष उसके हृष्य को मनो-रम बना रहे हैं। रामचरित प्रेमी उस गिरिचत्र नड़ाग के रखक हैं और वे ही उसके अधिकारी हैं। गियरावर्तरूपी किलिचप वहाँ नाम को भी नहीं है, इसलिये बक और काक के तुल्य स्थार्थी मनुष्यों को उसमें आनन्द नहीं आता है, तथा वे उससे दूर ही रहते हैं। तुलसीदास कहते हैं —

“ सबुक भेक सेवर समाना ।  
 इदौं न विपय कथा रस नाना ॥  
 तेहि कारन आवत हियहारे ।  
 कामी काक बलाक विचारे ॥ ”

“ कामी काक बलाक विचारे । ” अहा ! कैसी सरस आर कर्ण-मधुर रचना है । कैसी ललित पदावली है । कैसा अच्छा अनुग्रास है । मद, माह, मत्सर और अभिमान रूपी निविड़ कानन उस सरोवर द्वे घेरे हुए है । उसमें कुसग, कुपन्थ आदि सर्प और व्याघ भ्रमण कर रहे है । सासारिक बयेडे पहाड़ हैं और उनसे निकल कर कुतर्करूपी नदी भयानक रूप से बह रही है, इसलिये श्रद्धारहित लोग उस पवित्र मानसरोवर के पास नहीं जा सकते है ।

रामचरित पाठ करने से आपको छहों ऋतुओं के दृश्यों के देखने का आनन्द मिलेगा । हिमालय कन्या पार्वतीजी का शिवजी के साथ विवाह जाडे के तुल्य है । श्रीरामचन्द्रजी की जन्म कथा शिशिर ऋतु के समान सुप्रदायक है, उनके विवाह का वर्णन वसन्त सा आङ्गादकर है । राम का वनवासगमन दुखदायक ग्रीष्म है और निशाचरों के साथ घेर युद्ध वर्षा है । रही शरद, वह राम-राज्य के अलैकिक सुख के रूप में आपको देखने को मिलेगी ।

जनकपुर की पुलवारी में सपियों समेत सीनाजी गैरीपूजन के लिये आयी है । इधर फूल तोड़ने के लिये श्रीरामचन्द्रजी

और लक्षण पहले ही से आ चुके हैं । सीता ने दोनों  
भाइयों को लताभवन से बाहर निकलते हुए देखा । उस समय  
प्रतीत हुआ कि —

“निकसे जनु जुग विमल विधु  
जलद पटल विलगाय ॥”

यहाँ पर तुलसीदास से हमारा एक उल्लहना है । गोसाई  
जी ! आपके प्यारे राम तो “श्यामसरोज दामसम सुन्दर” है,  
फिर उनके लिये स्वच्छ चमकते हुए “विमल विधु” की  
उत्प्रेक्षा कैसी ?

अब स्वयंघर में आइए । “उदय गिरि मच” पर “रघुवर  
बाल पतड़” के निकलते ही तारा सदृश राजाओं की चमक  
जाती रही । सज्जन तथा भक्तजनों के हृदय-कमल, जो अब  
तक बन्द थे, खिल उठे । कोक के तुल्य देवता और मुनियों के  
सुख की सीमा न रही और कुमुद के समान अभिमानी राजाओं  
का भिर तीचा हो गया । इसी समय सीताजी यश मढप में  
लायी गयी । किस कवि में यह शक्ति है कि वह राजकुमारी के  
अलोकिक सोन्दर्य का वर्णन कर सके, इसलिये तुलसीदास  
कहते हैं —

“जौ छवि सुधा पयोनिधि होई ।  
परम रूपमय कच्छप सोई ॥  
सोभा रङ्गु मन्दू सिगारु ।  
मथू पानिपंकज निज भारु ॥

एहि विधि उपजइ लच्छि जब सुन्दरता-सुख-मूल ।

तदपि सकोच समेत कवि कहाहिँ सीय समतूल ।”

गोसाईंजी, घापने बहुन ही सच कहा है, न कभी पेसा होगा और न सीताजी की उपमा दी जा सकेगी, इससे यह उचित है कि सीताजी निरपमेय ही रहें ।

इस प्रकार से शोभा और गुणा की खान सीताजी को प्राप्त करने की इच्छा से जब कोमल-कलेवर नृप किशोर श्रीरामचन्द्रजी प्रकारड पिनाक को तोड़ने के लिये उठे, तब प्रेमी और भक्तजनों के चित्तों में चिन्ता का वेग उमड़ आया । श्रीरामचन्द्रजी का अगाध बाहुबल समुद्र हो गया । शिवजी का धनुष जहाज के रूप में परिणाम हो गया और मय सब की चिन्ताओं के गोम के उसमें तैरने लगा । कुछ देर में वह टूट गया और सज्जनों का उद्घेगरूपी माल और असवाब न जाने कहा वह गया । फिर क्या था, देवता और भक्त लोग आनन्द मनाने लगे, परन्तु गोसाईंजी, जिसका माल और असवाब वह जाता है वह प्रसन्न कैसे हो सकता है? क्षमा कीजिए, ममम गये । यह उद्घेगरूपी माल था, इसका वह जाना ही अच्छा था ।

जब श्रीरामचन्द्रजी ने चन्द्रचूड के चाप को तिनके के समान तोड़ने के लिये उठाया, उस समय के वर्णन को कवि ने बड़ी उत्तमता के साथ एक उत्प्रेक्षा एवं उपमा ढारा किया है —

“दमकेउ दामिनि जिमि धन लयऊ ।

पुनि धनु नभमण्डलसम भयऊ ॥”

इस चौपाई में जल्दी से चाप के उठाने भोर उसके तत्कालीन आकार का निरूपण तुलसीदास ने बड़ी ही योग्यता के साथ किया है ।

धन्या के टूट जाने के बाद श्रीरामचन्द्रजी के गले में वरमाल ढाले जाने का शुभ समय आया । रघुकुल शिरोमणि का चन्द्रमुख यश मण्डप की छवि को दूनी कर रहा था । उधर माला पहिनाते समय सीता की पितिव दशा हुई । उनके कोमल करकमल रामराकेश के सामने उठने में सकोच करने लगे । वे क्यों न सकोच करें ? भला चन्द्रमा के सामने कमलों का प्रफुल्हिन होते हुए कभी किसी ने देखा है ? इसी के विषय में तुलसीदास यह उत्प्रेक्षा करते हैं —

“सोहत जनु जुग जलज सनाला ।

ससिहृं सभीत देत जयमाला ॥”

जिस चन्द्र ने सीता के पाणिपक्जों को सकुचित किया था उसी को देख कर पिश्वामित्र का हृदय-सागर आनन्द-कहोले लेने लगा । यह वैष्णव तो देखिए, यहाँ सकोच घौर यही आनन्द-कहोल । हम तो कहेंगे कि इस सकोच में भी आनन्दासव है ।

श्रीरामचन्द्रजी घोर सीता का विवाह हो जाने पर भरात अथेध्या को लेटी । उस समय सारे नगर में अभूतपूर्व आहाद छाया हुआ था । उस दशा की तुलना उत्प्रेक्षापा के डारा कवि ने धर्षा प्रतु के साथ बड़ी उत्कृष्टता से की है —

“धूपधूम नभ मेचक • श्यऊ ।  
 सावन घन घमंड जनु छयऊ ॥  
 सुरतह-सुमन माल सुर बरपहिँ ।  
 मनहुँ बलाक अवलि मन करपहिँ ॥

प्रगटहिँ दुरहिँ अटन पर भामिनि ।  
 चार चपल जनु दमकहिँ दामिनि ॥  
 दुदुभिधुलि घनगरजानि धोरा ।  
 जाचक चातक दादुर मोरा ॥  
 सुर सुगन्धि सुचि बरपहिँ बारी ।”

प्रिधि की गति बड़ी कुटिल है—वह सुखामृत में दु यकाल-  
 कूट मिलाया ही करती है। अयोध्या में आनन्द ही आनन्द था,  
 परन्तु कैकेयी ने उसमें विष धोलने का महापाप अपने सिर  
 लिया। कोपभवन में शोकार्त्त दशरथ पड़े हुए थे। इस दु य  
 की दशा में उन्हें दुर्वास्य कहते हुए कैकेयी अपना प्रयोजन  
 बनाने को उठी। उस समय, तुलसीदास कहते हैं, ऐसा प्रतीत  
 होता था कि मानो क्रोध की नदी पाप पहाड़ से निकल कर  
 बहने लगी है। कैकेयी का दुराग्रह उसकी धारा है और मन्थरा  
 के वचन उसके भंवर हैं। वह तरगिनी विना किसी विवेक के—

“ढाहत भूपरूप तरमूला ।  
 चली विपतिबारिधि अनुकूला ॥”

अहा । कैसा अच्छा रूपक और कैसी अच्छी कथिता है ।

कैकेयी के हृषि का यह फल हुआ कि श्रीरामचन्द्रजी, लक्ष्मण और सीता को बन जाना पड़ा । उस समय भ्रातृ-युगल के बीच मैं सीताजी ऐसी शोभा दे रही थीं —

(१) “व्रह्मजी विच माया जैसी ।”

(२) “जनु मधु मदन मध्य रति लसई ।”

(३) “जनु चुध पिधु विच रोहिनि मोही ।”

एक ही बात की तीन उत्प्रेक्षाएँ करके तुलसीदास ने अपने कवित्य की पराकाष्ठा दिखायी है ।

श्रीरामचन्द्रजी चिन्हरूट मैं जा बसे । शोकाकुल भरत ने सब समाज माथ लेकर उन्हें वापस लाने के लिये अयोध्या से प्रसान किया । चलने चलने भरत के कोमल पैरों मैं ढाले पड़ गये, उनके प्रियय मैं गोसाई जी कहते हैं —

“भलका भलकत पाँयन कैसे ।

एकज फोम घोमकन जैसे ॥”

धन्य गोसाई जी ! क्या ही अनेकों उत्प्रेक्षा की है । विलकुल ही अनुचित । “कोस” एवं “घोस” शब्दों की मैत्री तो देखिए ।

महाकवि वाल्मीकि ने सुन्दरकाण मैं सकड़ों उपमाओं को एकत्र कर दिया है । तुलसीदास ने भी वही धात की है । यहाँ इन्होंने अपनी हृषान्त वर्गीन शक्ति का अवज्ञा परिचय दिया है । वरसात की एक छोटी से भी छोटी घटना का इन्होंने हृषान्त

दिया है। उनमें यह विशेषता है कि उन सभी से कुछ न कुछ उपदेश मिलता है। उनमें से कुछ हृष्टान्त ऐसे अद्भुत हैं कि उनको देख कर दङ्ग रह जाना पड़ता है। उदाहरण लीजिए—

“दामिनि दमकि रही धन माहीं ।  
खल की प्रीति जथा थिर नाहीं ॥  
बरपहिँ जलद भूमि नियराये ।  
जथा नवहिँ बुध विद्या पाये ॥  
बुन्द अधात सहहिँ गिरि कैसे ।  
खल के बचन सन्त सह जैसे ॥  
छुट्र नदी भरि चली तोराई ।  
जस थोरेहु धन खल इतराई ॥

‘                ‘                ‘  
अर्क जवास पात विन भयऊ ।  
जिमि सुराज खल उद्यम गयऊ ॥

महा चृष्टि चलि फूटि कियारी ।  
जिमि सुतन्त्र भये विगरहिँ नारी ॥

ऊसर बरपह तृन नहिँ जामा ।  
जिमि हरि जन-हिय उपज न कामा ॥

चक्रगाक मन दुख निसि पेखी ।  
जिमि दुरजन पर सम्पति देखी ॥”

लका में सीता का पता लगा कर हनूमानजी श्रीरामचन्द्रजी के पास घापस आये हैं । आकुलता के साथ श्रीरामचन्द्रजी उनसे पूछते हैं—“हे प्रिय, कहो सीताजी किस प्रकार से अपना समय काटती हैं ? घह अपने प्राणों की रक्षा कैसे करती हैं ?” इसके उत्तर में जो दोहा कपि शार्दूल के मुँह से तुलसीदास ने कहलाया है उसके रूपक में वितना गूढ भाव भरा हुआ है यह बात काव्य-रसिकों से ठिपी नहीं है । हनूमानजी कहते हैं—

‘नाम पाहरु दिवस निमि  
ध्यान तुम्हार कपाट ।  
लोचन निज पद-सन्त्रिका  
जाहिैं प्रान केहि बाट ॥’

सीता ने इस महादुःख के समय में भी प्राण ध्यां नहीं त्यागे इस गूढ प्रश्न की भीमासा इस दोहे में बड़ी चतुरता से की गयी है । सत्कवियों के सिवा चौर कोन ऐसी कविता कर सकता है ?

प्रचड लकाकाड उपस्थित है । राक्षसों के रक्त से लका की पृथ्यी लाल होगयी है । मेघनाद और कुम्भकर्ण सहशा धीर वीरगति को प्राप्त हो चुके हैं । रथ पर सधार अद्भुतारी रावण

रथरहित श्रीरामचन्द्रजी से लड़ने को तैयार है । इनको विना सवारी के देखते ही विभीषण ने भय घाकर रघुकुलचूडामणि से निवेदन किया —

“महाराजा, विना रथ के अपनी जीत कैसे हो सकेगी ?”  
यह सुनकर श्रीरामचन्द्रजी ने कहा —

“जेहि जय होइ सो स्यन्दन आना ॥  
सौरज धारज तेहि रथ चाका ।  
सत्य सील हृष्ट खजा पताका ॥  
बल बिरेक दम परहित धोरे ।  
छमा दया समना रजु जोरे ॥  
ईस भजन भारथी सुजाना ।  
विरति चर्म सतोप लृपाना ॥

सदा धरममय अस रथ जाके ।  
जीतन कहै न कतहुँ रिषु ताके ॥”

भगवान् के ये चाक्य सुन कर विभीषण की चिन्ता दूर होगयी ।

लकाविजय के बाद विशाल सेना के साथ श्रीरामचन्द्रजी ग्रौर जानकी के अयोध्या लौटने का समय आया । अयोध्या में जहाँ देविय वहाँ आनन्द ही आनन्द छाया है । विमान पर श्रीरामचन्द्रजी चन्द्रमा के समान दिखायी देते हैं ग्रौर उनकी

पुरी अयोध्या जन-समूह रूपी तरङ्गों से समुद्र के समान आन्दो-  
लित हो रही है । इस समय का एक अनूठा रूपक सुनिप —

“नारि कुमुदिनी अवध सर  
रघुपति विरह दिनेस ।  
अस्त भये बिकसित भई  
निरखि राम राकेस ॥”

यह बड़ा ही सुन्दर, बड़ा ही हृदयहारी और बड़ा ही सरस  
रूपक है ।

उत्तरकांड में तुलसीदास का ज्ञानदीप निरूपण अपनी सफटि-  
कोपम प्रभा की विचित्र छटा दिखा रहा है । एक बड़े ही गूढ  
विषय को रूपक रचना ढारा इस कपि ने बहुत सरल कर  
दिया है । आइए आप और हम भी इस ज्ञानदीप को जलाने  
का यज्ञ करें । इसके लिये घो की जहरत होगी । घी तैयार  
करने के लिये सात्विकी थङ्गा-रूपी गाय लाइए, उसके पालन  
और पोषण के लिये तप, व्रत, सयम, नियम आदि धास की  
आवश्यकता होगी । इस गाय के उक्त धास के खा चुकने पर  
प्रेम रूपी बछड़े को थोड़ी देर तक दूध पीने दीजिए और उसके  
कुछ समय बाद मन-रूपी अहीर से कहिए कि वह उसे निपृत्ति  
की रस्सी से बाँध कर विश्वासरूपी उत्तम वर्तेन में धर्मरूपी दूध  
दुह ले । उस दूध को निष्कामता की आग पर गर्म करके,  
सन्तोष और क्षमा की हवा से ठढ़ा करने के बाद, धैर्य  
की सद्दायता से जमाइए । प्रसन्नता रूपी हाथों से, विचार की

मथानी लेकर तथा शम और दम के आधार पर सत्यरूपी रस्सी  
द्वारा उसे मथ कर, विरागरूपी मन्महन निकालिए । इसके अनन्तर

“जोग अग्नि करि प्रगट तब  
कर्म सुभासुभ लाइ ।  
बुद्धि सिरावह ज्ञान धृत  
ममता भल जरि जाइ ॥  
तब विज्ञाननिरूपिनी  
बुद्धि विसद धृत पाइ ।  
चित्त दिया भरि धरह दृढ़  
समता दियटि बनाइ ॥”

इसके बाद जाग्रत, स्वप्न और सुषुप्ति इन तीनों अवस्थाओं  
के कपास को साफ करके तथा तुरीयरूपी रुद्ध निकाल कर उसकी  
बच्ची इस दीप में डालिए और अपने तेज से इस दीपक को  
जलाइए, तब अहकार, भ्रम, मोह आदि कीड़े अपने आप इसमें गिर  
कर जल मरेंगे । इसके सिवा और भी फल प्राप्त होंगे, जैसे —

“आत्म अनुभव-सुख सुप्रकासा ।  
तब भवमूल भेद भ्रम नासा ॥  
प्रबल अविद्या कर परिवारा ।  
मोह आदि तम मिटह अपारा ॥”

इसमें सन्देह नहीं कि इस ज्ञानदीप का जलानेधाला  
परमानन्द को प्राप्त कर सकता है ।

---

## २—तुलसीदास की नीति ।\*

ट पन से लेकर बुढ़ापे तक हमें अपने जीवन में  
 प्रतिनिन नयी, नयी बातों से सामना करना  
 पहला है—हमें नये नये काम करने, नये नये  
 सम्बन्ध योग्य, और नये नये वैचाच्य देखने  
 पड़ते हैं। इन समस्याओं को हाथ में लेकर  
 इनसे अपना और दूसरों का भी कल्याण करना अथवा इनके  
 विरुद्ध से दबकर हताश हो जाना हमारी प्रतिभा, बुद्धि, अध्यय-  
 साय और अनुभव की सच्ची परीक्षा है।

साधारण घटनाओं आर सम्बन्धों में प्राय कोई ऐसी नयी  
 बात नहीं होती है जो हमारी चतुरता को चिचिलित कर सके,  
 परन्तु जब नयी बातें नये रूप में यकायक हमारे सामने आती हैं,  
 उस समय उनको ठीक तौर स सभालना, अपना उत्साह  
 खिर रखना और हानिकर घटनाओं को अपने कौशल से लाभ-  
 कारी बना लेना हमारी दिया और योग्यता की कस्तूरी है।

\* आकृत्य १६९३। अमुदित। स्वतन्त्र।

ऐसी दशा में यदि हमारी विजय हुई, तो हमारा पराक्रम सदा के लिये दूना होता है, और यदि पराजय हुई, तो हिम्मत हारने का डर होने लगता है। इस समय धैर्य को छोड़ देना कायरता और अपने उत्साह को ठीक बैसा ही बनाये रखना चाहता है।

हमारे लिये यह सामान्य की बात है कि चाणक्य, शुक्र, विदुर, भर्तृहरि इत्यादि विद्वान् और अनुभव शोल नीतिकार हमारे जीवन के मार्ग को बहुत कुछ सरल बना गये हैं। ये अपने नीतिक उपदेशों के रूप में हमारे लिये जीवन की अनेक नयी समस्याओं को सुलझाने के निश्चित उपाय हजारों वर्ष पहले से बतला चुके हैं। इनमें से अधिकाश उपदेश आज बीसवीं शताब्दी में भी जैसे को तो से हमारे लिये उपयोगी है, और बहुत से कठिन समयों पर हमें साहसी, उत्साही और सुखी बना सकते हैं।

उपरोक्त विद्वानों के मर्म को भली भांति समझ कर तुलसीदास ने अपने सरस और सरल काव्य रामायण में चुने हुए उपदेशों को आकाश में चमकते हुए तारों के समान बोले दिया है और हम सभी के लिये एक बड़े मनोहर और सुनेध रूप में जीवन-यात्रा को सुगम और सुखपूर्ण बनाने के उपाय कहे हैं। प्राय सब ही हिन्दी जाननेवाले इस रामायण को बड़े चाव के साथ पढ़ते और इससे उपयोगी शिक्षा ग्रहण करते हैं।

तुलसीदास ने राजनीति, समाजनीति और साधारणनीति पर बहुत कुछ लिया है, इनको उदाहरण देकर समझाने के लिये रामायण की कथा से बढ़ कर और क्या हो सकता हे ? उत्तम उदाहरण के साथ बढ़िया नैतिक उपदेशों का प्रचिन्त्र सघष्टु इस रामायण ही में हे । यदि ऐसा रसाल और मनोरम काव्य पाकर भी उसके नीति सम्बन्धी चारों की शिक्षा से हम अपने जीवन को तेजस्वी और सफल न बना सकें, बरन उसके प्यान में छोटी छोटी जीवन समस्याओं में भी चूकना ग्राह्य करें, तो हमारे लिये इससे ज्यादा उपहासजनक बात और कोई नहीं हो सकती है । आइए, पहले पहल देखें कि इस हिन्दी नीतिकार ने राजनीति के विषय में हमें क्या क्या सिखलाया हे ।

### (१) राजनीति ।

कोई भी ऐसी पदवी नहीं है जिसमें उत्तरदायित्व न हो, जो दर्जा जितना ज्यादा बड़ा हे उसके साथ उतनी ही बड़ी जिम्मेदारी है । जो मनुष्य अपने उत्तरदायित्व का पूरे तार से न समझ कर तथा उसके अनुकूल अपने आचरण आर कामों को न ठीक रखकर मनमाने तोर से अपना जीवन विताते हे वे अपनी जिन्दा और अपने पद की हँसी करते हे । अपने पद के उत्तरदायित्व को समझ कर छलना अपने जीवन को सफल और पद को शोभित करना हे, इसके पिछले ऊँचा दर्जा पाकर

मान्य होजाना अपने जीवन को कलकित और पद को अप-  
मानित करना है । योग्य मनुष्य छाटे पद को भी अपनी  
प्रतिभा से ऊँचा बना देता है, परन्तु अयोग्य मनुष्य ऊँचे दर्जे  
को भी नीच बना देता है । आप समझ सकते हैं कि राजा का पद  
कितना बड़ा है और उसको पाकर मनुष्य को कितने ज्यादा  
स्वत्व और कितने अधिकार मिलते हैं, परन्तु इसके साथ ही  
उसके ऊपर बड़ी भारी जिम्मेदारी रहती है । यदि राजा यह  
समझता है कि मैं अपनी आत्मा, परमात्मा और सारी प्रजा  
के सामने इस राज्य के उचित शासन और न्याय के लिये  
उत्तरदाता हूँ, तो वह सचमुच और लोगों का कल्याण कर  
सकेगा और स्वयमेव आनन्द भोग सकेगा, वेसे राजा होना  
भला नहीं, उसके देखते हुए एक सामान्य मनुष्य होना भला  
है । देखिए राजा के कुछ आवश्यक गुणों के विषय में महाराजा  
श्रीरामचन्द्रजी क्या कह रहे हैं —

“रघुवसिन्ह कर सहज सुभाऊ ।  
मन कुपन्थ पर धरे न काळ ॥  
मोहि अतिसय प्रतीति जिय केरि ।  
जेहि सपनेहु पर नारि न हेरि ॥  
जिन्हके लहहिं न रिपु रन पीठी ।  
नहिं लावहिं परतिय मन दीठी ।  
मगन लहहिं न जिन्हके नाहीं ।  
ते नरन्वर थोरे जग माहीं ॥”

यहाँ पर नीति के आश्रय, कामदेव पर पिजय, युद्ध में चीरता और दान में उदारता की शिक्षा तुलसीदास ने थोड़े ही शब्दों में दे दी है। जिन राजाओं में ये गुण नहीं हैं वे अपने ऊचे पद की विहम्यना करा रहे हैं और उनके शासन की नाव जभी झूब जाय तभी कोई आश्रय नहीं है।

जब राम, लक्ष्मण और सीता को केवट की नाव पर सवार कराके सुमन्त अयोध्या को लेटे और सब समाचार मृतप्राय राजा दशरथ से कहने लगे, उस समय उन्होंने यह निवेदन किया कि राम ने घौर खाते कहते हुए मुझे यह भी आशा दी है — {३}

“कहब सँदेसु भरत के आये ।  
नीति न तजब राजपद पाये ॥  
पालहु प्रजहि कर्म मन खानी ।  
सेपहु मातु सकल सम जानी ॥  
घौर निवाहब भायप भाई ।  
करि पितु मातु सुजन सेवकाई ॥”

यह राजा के दूसरे कर्तव्यों को बतलाता है। उसे अपने माता, पिता, घौर भाई के साथ उचित बर्ताव करना चाहिए। अत्येक राजा सब से पहले मनुष्य है घौर फिर राजा, इस लिये उसको अपने मानुषिक धर्मों का पालन उसी उत्तमता के साथ करना चाहिए जैसे कि अपने राजकीय धर्मों का। राजा हौकर अपने प्रियजनों की उपेक्षा करना नीति के विवर है।

उसका मुख्य कर्तव्य “पालद्व प्रजाहि कर्म मन वानी” इस छोटे से वाक्य में कूट कर भर दिया गया है। ध्यान रखिए कि मनसा, वाचा और कर्मण सभी प्रकार से सच्चे हृदय के साथ प्रजा का पालन करना प्रत्येक राजा का पवित्र धर्म है। यदि वह इस कर्तव्य से गिरता है, तो वह निस्सन्देह पाप का भागी होगा। उसे सोते और जागते सदा प्रजा का हित करना चाहिए। राजा होकर यह कभी न भूलना चाहिए—

“राजुनोनि विनु धन विनु धर्म ।  
हरिहि समर्पे विनु सत कर्म ॥  
विद्या विनु विवेक उपज्ञाये ।  
स्वम फल पढ़े किये अह पाये ॥  
सग ते जती कुमत्र ते राजा ।  
मान ते शान पान ते लाजा ॥  
प्रीति प्रजय विनु मद ते गुनो ।  
नासहिँ वेगि नीति अस सुनी ॥”

इसमें सन्देह नहीं कि नीति के बिना राज्य और कुमत्र से राजा शीघ्र नाश को प्राप्त होते हैं।

राजा की सहायता के लिये अनुभव शील मन्त्रियों का होना अत्यावश्यक है, परन्तु यदि ये निर्भय नहीं हैं, तो इनका न होना ही अच्छा, कारण कि इस दशा में ये प्राय लाभ के बदले हानि ही करते हैं। तुलसीदास कहते हैं—

“सचिव वैद्य गुरु तीनि जे  
प्रिय दोलहिं भय आस ।  
राज धर्म तन तीनि कर  
होहि वेग ही नास ॥”

यदि डर कर राजा की हानि करनेवाले विचारों और कामों में भी ये उसके साथ हाँ मैं हाँ मिलाना आरम्भ कर दें और जिस बात से उसका मच्छा कल्पण होता हो उसका प्रकाश न करें, तो घट्टा की भी सहायता पाकर उसका राज्य नहीं ठहर सकता है ।

राजा को अपनी प्रजा और अपने दूसरे समीपी राजाओं के साथ सदा मित्रता रखनी चाहिए । जब प्रजापालन उसका प्रधान उद्देश्य होगा, तब उसके राज्य के सभी मनुष्य उसकी घत्सलता से आनन्दित होकर उसका आदर करेंगे और उससे प्रियोध करने का विचार अपने चित्त में कभी न लावेंगे । इसी प्रकार से अपने राज्य की शान्ति और सुख के लिये पड़ोस के राजाओं से भी मैत्री और सोहार्द रखना बहुत जरूरी है, परन्तु यदि किसी समय मेल न खिर रह सके और युद्ध की तेयारी करनी पड़े, तो यह कभी न भूलना चाहिए —

“नाथ वैर कीजिय ताही से ।  
बुधिज्ञल जीति सकिय जाही से ॥”

आँखें बन्द करके शब्दुता पैदा कर लेना और लडाई छेड़ देना निरंतर वेसमझी का काम है । अपना और वैरी का बल

और रणकौशल दोनों ही को तोल कर लड़ना चाहिए । एक-बार लडाई छेड़ देने पर फिर राजा को किसी समय भी, विना जीते हुए, अपना पैर पीछे न हटाना चाहिए, क्योंकि—

“सनमुख मरन बीर की सोभा ।”

अहा ! क्या ही धीरतापूर्ण और उच्चेजक वास्तव है ? प्रारम्भ ही से हमारे यहाँ के धीर सैनिकों का यह नियम रहा है कि लडाई में प्राण नज देना अच्छा है, परन्तु पीठ दिखा कर भागना नहीं अच्छा ।

धीर और बलवान् मनुष्य अपने मुँह से अपनी प्रशस्ता कभी नहीं करते हैं, क्योंकि उनको यह शोभा नहीं देता है । शूर-शिरोमणि अनुभवशील परशुरामजी को इस बात का स्मरण नहीं रहा था, तभी युवक लक्ष्मण की यह डाट उन्हें सुननी पड़ी थी —

“सूर समर करनी करहिँ  
कहि न जनावहिँ आपु ।  
विद्यमान रन पाय रिपु  
कायर करहिँ प्रलापु ॥”

इसमें सन्देह नहीं कि जिस पुहर में वास्तविक धीरता चर्तमान है वह विरले ही अपने मुँह से अपनी बडाई करेगा । समय पाकर उसका पराक्रम सहज ही में पूर्णतया प्रकाशित हो जायगा, इसलिये उसे क्या पड़ी है जो वह अपने बल का प्रलाप करता फिरे ।

कोई राजा कितना ही पराक्रमी हो और उसके पास किननी ही बड़ी सेना हो, तथापि उसको छोटे शत्रु से भी सदा सचेत रहना चाहिए । तुलसीदास कहते हैं —

“रिषु तेजसी अकेल अति  
लघु करि गतिय न ताहु ।  
अजहुँ देन दुख रवि ससिहिं  
सिर अवसेपित राहु ॥”

जब तक पूरे तैर से बैरी का नाश न हो जाय, तब तक राजा का असावधान रहना अनुचित है, एक न एक प्रबल उपाय करके उसे अवश्य चुर्झ कर देना चाहिए । शत्रु के पूरे तैर से नष्ट हो जाने ही मैं सदा कुशल हूँ, पर्योक्ति ईश्वर न करे पेसा हो, यदि कहाँ बैरी ने प्रबल होकर अपने ऊपर अधिकार कर लिया, तो फिर यही चित्त में आता है —

“अरिवस देव जियाघत जाही ।

मरनु नीक तेहि जीउन चाही ॥”

यह सच मुच अक्षर अक्षर ठीक है कि शत्रु के अग्रीन होकर रहने से मर जाना सदा अच्छा है ।

अपने हृदय को छोटा बनाना तुच्छ मनुष्यों का स्वभाव है । राजा को उदार चित्त होना चाहिए, इसी मैं उसकी शूरता भार शोभा है । जब कोई मनुष्य अपनी रक्षा के लिये उसके परो पर आकर गिरे, तब राजा को चाहिए कि वह उसके विषय में ज़रूरी बातों का पता लगा फर उसे आथ्रय दे, और यह सुरण रखें —

“सरनागत कहूँ जे तजहिै निज अनहित अनुमानि ॥

ते नर पामर पापमय तिनहिै विलोकति हानि ॥”

श्रीरामचन्द्रजी ने अपने वैरी रावण के भाई विभीषण को इसी कारण से अपनाया था । इस नीति का पालन बहुत सावधानता के साथ करना चाहिए, क्योंकि थोड़ा भी चूक जाने से यही मनुष्य भेदिया बन कर अपना सर्वनाश कर सकता है ।

## (२) समाजनीति ।

अच्छी सगति से मनुष्य का सदा भला होता है । बुरी सगति उसके आचरण को विगाड़ कर उसे सत्यानाश कर देती है । इस चरित्र के अपकर्ष से समाज की असाधारण हानि होती है, इसलिये तुलसीदास ने सत्सगति की बहुत बड़ी प्रशसा की है, उनकी रामायण आदि से लेकर अन्त तक इसकी महिमा से भरी हुई है । देखिए इस विषय पर इस कवि की क्या सम्मति है—

(१) “विनु सत्सग विनेक न होई ।

रामकृष्ण विनु सुलभ न सोई ॥

सनसगति मुद मगल-मूला ।

सोइ फल सिधि सब साधन फूला ॥

मठ सुधरहिै सनसगति पाई ।

पारस परसि कुधातु सोहाई ॥”

(२) “हानि कुसग सुसगति लाह ।

• • •

गगन चढ़इ रज पवन प्रसगा ।

कीचहि मिलइ नीच जल सगा ॥”

(३) “केहि न सुसग बडप्पन पावा । ”

(४) “तात स्वर्ग अपर्ग सुख  
धरिय तुला एक अग ।

तूल न ताहि सकल मिलि

जा सुख लय सतसग ॥”

(५) “सतसगति दुलभ ससारा । ”

इसके सिधा यह कदापि न भूलना चाहिए —

“को न कुसगति पाइ नसाई ।

रहइ न नीच मते गहआई ॥”

इसमें सन्देह नहीं कि कुसगति में पड़ कर बड़े सज्जरित्र मनुष्य भी बिगड़ गये हैं । इस दशा में उनकी विद्या और योग्यता कुछ भी सहायता नहीं कर पाती है । मनुष्य कुसगति में पड़ा नहीं कि उसका सर्वनाश हुआ । जब तक वह दुष्ट मनुष्यों से कोसों दूर है, तभी तक वह अपने जीवन को एविन, उदार, और सफल बना सकता है ।

जिन दुष्ट लोगों से हमें एकदम दूर रहना चाहिए वे ये हैं —

(१)

“जे विनु काज दाहिनेहु बाये ॥

परहित हानि लाभ जिन केरे ।  
 उजरे हरप विषाद बसेरे ॥  
 हरिहर जस राकेस राहु से ।  
 पर अकाज भट सहसबाहु से ॥  
 जे परदोप लखहिँ सह साखी ।  
 परहित धृत जिनके मन माखी ॥  
 तेज कुसानु रोप महिपेसा ।  
 अघ अचगुन धन धनी धनेसा ॥  
 उदयकेतु सम हित सब ही के ।  
 कुभकरन सम सोवत नीके ॥  
 पर अकाज लगि तनु परिहरहों ।  
 जिमि हिम उपल कृषीदल गरहों ॥”

(२) “खलन हृदय अति नाप विसेखी ।  
 जरहिँ सदा पर सम्पति देखी ॥  
 जहँ कहुँ निल्दा सुनहिँ पराई ।  
 हर्षहिँ मनहुँ परि लिधि पाई ॥  
 काम कौध मद लोभ परायन ।  
 निर्दय कपटी कुटिल मलायन ॥  
 धैर अकारन सब काहूँ सो ।  
 जो कर हित अनहित नाहूँ सो ॥  
 झूठहि लेना झूठहि देना ।  
 झूठहि भोजन झूठ चपेना ॥

वेालहिँ मधुर बचन जिमि मेरा ।  
 चाहिँ महा अहि हृदय कठोरा ॥  
 पर द्रोही परदार रत पर धन पर अपवाद ।  
 ते नर पामर पापमय देह धरे मनुजाद ॥

लोभइ भोदन लोभइ डासन ।  
 सिसनेदर पर जम्पुर त्रासन ॥  
 काह की जो सुनहिँ बडाई ।  
 स्वास लेहिँ जनु जूडी आई ॥  
 जब काह की देखहिँ बिपती ।  
 सुखी होहिँ मानहुँ जग नृपती ॥  
 स्वारथ रन परिवार विरोधी ॥  
 लभट काम लोभ अति कोधी ।  
 मातु पिता गुरु बिप्र न मानहिँ ॥  
 आपु गये अरु धालहिँ आनहिँ ।

अवगुन सिन्धु मन्द मति कामी ।  
 वेद बिदूपक पर धन स्वामी ॥"

जिन मनुष्यों में उपरोक्त अवगुण हों उन सबसे हमें कुछ भी सरोकार न रखना चाहिए । इनसे बचे रहने ही के लिये इनके दोषों को तुलसीदास ने जानचूफ कर विस्तार के साथ कहा है । यदि हम ऊपर लिखे हुए विवरण को भी पढ़ कर अपने जीवन को बुरे मनुष्यों के प्रभाव से न बचा सकें, तो यह

हमारी निरी असावधानता है, जो हमारे चरित्र दूषण, दुर्भाग्य और सर्वनाश का प्रबल कारण होगी । कुसगति के बुरे फलों और दुष्ट मनुष्यों के अवगुणों से डर कर ही तुलसीदास हमें यह उपदेश देते हैं —

“जेहिते० नीच बडाई पाषा ।  
सो प्रथमहि० हठि ताहि नसावा ॥  
धूम अनल सम्मव सुनु भाई ।  
तेहि बुझाव घन पदवी पाई ॥  
रज मग परी निरादर रहई ।  
सब कर पग प्रहार निन सहइ ॥  
मरुत उडाई प्रथम तेहि भरई ।  
नृप किरीट पुनि नयनन्ह परई ॥

बुध नहिँ करहिँ अधम कर सगा ॥  
कवि कोविद गावहिँ अस नीती ।  
खल सन कलह न भल नहिँ प्रीती ॥  
उदासीन जित रहिय गोसाई० ।  
खल परिहरिय स्वान की नाई० ॥”

धास्तव में हमारा कल्याण तभी होगा, जब हम कुत्ते की तरह बुरे मनुष्यों को अपने पास से एक दम अलग रखेंगे । गोसाई० जी, आप अनुभवी पुरुष थे, आपने ठीक ही कहा है —  
“खल सन कलह न भल नहिँ प्रीती ।”

चोर दुष्टों से उदासीन रहने की बहुत उचित सम्मति दी है। हमारे लिये यह सभी प्रकार से जल्दी है कि हम सज्जनों से अवश्यमेव प्रीति करे, इनके साथ सौहार्द बढ़ावें और इन्हें अपना सब्जा हितयी बनावे, इनसे अलग रह कर हमारा जीवन निवाहना कठिन हो जायगा और हमें अन्धों के समान इधर उधर अपना मार्ग टटोलना पड़ेगा। हम भी यह कहते हैं कि वेरे मनुष्यों के साथ अनावश्यक भगड़ा न बढ़ाया जाय, परन्तु हमें यह सदा सरण रखना चाहिए कि उनके दुराचार और दोषों की गान्धि तक हमारे पास न आने पाये।

दुष्ट मनुष्यों से बच कर चलने का उपदेश देकर ही तुलसी-दास को सन्तोष नहीं हुआ है। उन्होंने हमार रास्ते को सीधा बनाने के लिये सज्जनों का भी निरूपण कर दिया है, जिससे हम देखते ही उन्हें पहिचान जावें और उनकी प्रशसनीय प्रवृत्ति, विवेक-पूर्ण विचार और आदर्श आचरण का उचित स्वीकार करके अपने जीवन को उत्तम बना सकें। अच्छी सगति की प्रशसा को पढ़ कर भी यदि किसी के चित्त में यह सन्देह रह जाये कि हम क्यों अच्छु पुरुषों का साथ करें, तो उसे यह कभी न भूलना चाहिए — ।

“भलो भलाइहि पै लहइ लहइ निचाई नीच ।

सुधा सराहिय अमरता गरल सराहिय मीच ॥”

और भी —

“बडे सनेह लघुन पर करही ।

गिरि निज सिरन सदा तून धरही ॥

जलधि अगाध मोलि धह फेनू ।

सन्तत धरनि धरत सिर रेनू ॥”

अच्छे मनुष्यों का अच्छा ही प्रभाव सदा हमारे ऊपर पड़ेगा । इनके साथ मैं सोहार्द घटते देर नहीं लगती है, कारण कि ये बड़े होकर भी छोटीं से स्नेह करते हैं । जो मनुष्य वास्तव में सज्जन हैं उनमें ये गुण होते हैं —

“पिप्य अलम्पट सीलगुनाकर ।

परदुय दुख सुख सुख देखे पर ॥

सम अभूतरिषु विमद विरागी ।

लोभामरण हरय भय त्यागी ॥

कोमलचित दीनन्ह पर दाया ।

मन बच क्रम मम भगति अमाया ॥

सबहिँ मानप्रद आपु अमानी ॥”

मारण गयिए कि इसी प्रकार के मनुष्यों की सगति करना हमारे जीवन को सञ्चरित्र, तेजस्वी और उत्तम बनायेगा ।

महाराजा श्रीरामचन्द्रजी आदर्श पुत्र ये और सदा अपनी तीनों माताओं की सेवा अपने हृदय से करते थे । यह उनके सम्बन्ध में सगेपन और सौतेलेपन के भभट्टों से एक दम अलग थे । इनके लिये जैसी कौशल्या थीं वैसी ही सुमित्रा और कैकेयी भी थीं । जब रानी कैकेयी ने इनको वन-

जाने की कठोर आशा दिलवायी है, तब देखिए इन्होंने कैसे प्यारे शब्द कहे हैं —

“सुनु जननी सोह सुत बड़ भागी ।  
जो पितु मातु वचन अनुरागी ॥

भरत प्रानप्रिय पावहि राजू ।  
विधि सब विधि मोहि सनमुख आजू ॥  
जो न जाहु बन ऐसेहु काजा ।  
प्रथम गनिय मोहि मूढ समाजा ॥

योरिहि बात पितहि दुख भागी ।  
होति प्रतीति न मोहि महतारी ॥”

अहा ! थीरामचन्द्रजी ने अपनी उसी सातेली माँ कैकेयी से ये अत्यन्त मधुर वचन कहे हैं जिसकी कुटिलता ने उन्हें युवराज से यनवासी बना दिया । प्रत्येक पुत्र को अपनी माता प्यार पिता की आशा सदा सच्चे हृदय से माननी चाहिए, कारण कि—

‘अनुचित उचित पिचार तजि  
जे पालहि पितु तैन ।  
तै भाजन सुख सुजस के  
घसहि अमरपति ऐन ॥’

इसी नीति का पाठन करके थीरामचन्द्रजी ने राज्य प्यार उसके सुख को तिनके के भी धराधर न समझा प्यार अपने

पिता तथा सौतेली माँ की आङ्गा को मानकर तुरन्त बन का रास्ता लिया । धन्य हैं ऐसे आङ्गाकारी पुत्र ! इसी प्रकार के आदर्श पुत्र अपनी जननी और जन्मभूमि का उद्धार करते हैं ।

जो बर्तोव भाई के साथ भाई को करना चाहिए उसके थोरामचन्द्रजी, लक्ष्मण और भरत सब्दे आदर्श हैं । लक्ष्मण का चरित्र आदि से लेकर अन्त तक बहुत प्रशसनीय रहा इसमें रक्ती भर भी सन्देह नहीं है, परन्तु भरत के समान आत्मत्यागी और उदार-हृदय भाई भी मनुष्य को बिरला ही मिलेगा । यहाँ पर भरत और लक्ष्मण की तुलना करके हम किसी को कम या ज्यादा नहीं कहते हैं । ये दोनों ही अपने अपने ढङ्ग से हमारे लिये उत्तम उदाहरण हैं । लक्ष्मण के चरित्र से हमें यह शिक्षा मिलती है कि यदि भाई पर घोर दुःख पड़े, तो भी उसका साथ कभी न छोड़ना चाहिए । इसीसे इन्होंने माता, पिता, और पती सभी को त्याग दिया, परन्तु इन्होंने बन में, पहाड़ों पर और युद्धों में अपने भाई का साथ दिया और सदा उसे अपना पूज्य देवता माना । इधर भरत को देखिए, अपने बडे भाई के गौरव को समझने के कारण इन्होंने राज्य को पाकर उसकी कुछ भी परवा न की और श्रीरामचन्द्रजी में अपनी श्रद्धा वैसी ही स्थिर रखी ।

भरत यह कभी न चाहते थे कि मैं राजा बनूँ और मेरा बड़ा भाई बनवासी हो । यह सब करतूत के बल उनकी माता की थी । वह अपने हृदय से चाहते थे कि श्रीरामचन्द्रजी ही

राजा हूँ प्योर मे सदा उनकी सेवा करूँ । इस भय से कि कदाचित् सब मनुष्य यह समझें कि मेरी ही इच्छा से रानी केकेयी ने विष का बीज देया है, उन्होंने इस अभिशाप का प्रतिवाद करते हुए अपनी सौतेली माता रानी कौशल्या से यह कहा—

“जे अघ मातु पिता गुरु मारे ।

गाइगोड महि-सुर-पुर जारे ॥

जे अघ तिय बालक-बध कीन्ह ।

मीन महीपति माहुर दीन्ह ॥

जे पातक उपपातक अहही ।

करम-वचन मन-भव कवि कहही ॥

ते पातक मोहि होहु विधाता ।

जो एहु होइ मोर मत माता ॥”

भरतजी ! तुम्हारी जो कुछ प्रशसा की जाय यह थोड़ी है ! इनने प्रबल शब्दों की आवश्यकता न थी, कारण कि तुम्हारी सुशीलता प्योर उदारता को देख कर कोई पुरुष यह कभी न सोच सकता था कि तुमने स्वभ में भी यह चाहा होगा कि तुम्हें राज्य प्योर तुम्हारे प्यारे भाई को वनवास मिले । धन्य हो भरत ! तुम ग्रातु-रक्ष हो प्योर ग्रातुत्व के पवित्र आदर्श हो !

केवल कलक को हटा कर ही भरत को सन्तोष न हुआ, इन्होंने इस प्रकार से अपना सच्चा मत प्रकट किया —

“हित हमार सियपति सेवकाई ।

सो हरिलीन्ह मातु कुटिलाई ॥

मैं अनुमानि दीख मन माहीँ ।  
 आन उपाय मोर हित नाहीँ ॥  
 सोक समाज राज केहि लेये ।  
 लघन राम सिय पद विनु देखे ॥

मोहि राज हठि देहहु जवहीँ ।  
 रसा रसातल जाहि तबहीँ ॥  
 मोहि समान को पापनिवासू ।  
 जेहि लगि सीय राम बनवासू ॥”

इस प्रकार से अपने को धिकार कर भरत अन्त में श्रीराम चन्द्रजी से घन में जाकर भिले और इन्होंने उनसे वापस आँ के लिये बहुन कुछ अनुरोध किया, परन्तु जब उन्होंने अपना ग्रणन छोड़ा, तब भरत ने लौट कर उनकी चरण-पादुकाओं को राज-सिंहासन पर रखा और स्थर्यं एक साधारण मन्त्री बनकर चौदह वर्ष तक राज्य का शासन किया। इसमें सन्देह नहीं कि भरत ने आत्मस्थाग और भ्रातु-सेवा दोनों ही को अपने सबसे ऊँचे शिखर पर पहुँचा दिया।

पढ़ी के साथ में पति को जैसा बर्ताव करना चाहिए उसे श्रीरामचन्द्रजी ने पूरे तौर से दिखा दिया है। पहले इनकी यह इच्छा थी कि अपनी सास की सेवा के लिये सोता अयोध्या ही में रहे। यह विचार कर इन्होंने उनसे कहा:—

“जे न मित्र दुख होहिं दुखारी ।  
 तिन्हिं विलोकत पातक भारी ॥  
 निज दुख गिरिसम रज कर जाना ।  
 मित्र के दुष रज मेह समाना ॥  
 जिन्हके अस मति सदज न आई ।  
 ते सठ हठि कत करत मिताई ॥”

अपने मित्रों के साथ में उचित बर्नाच करने के लिये ये शब्द सभी को सरण रखने चाहिए । कहाँ ऐसा न हो कि हम कपड़ी मनुष्यों को अपना सज्जा मित्र समझ ले , इसलिये उनकी पहचान हमको बता दी गयी है—

“कुपथ निवारि सुपन्थ चलावा ।  
 गुन प्रगटह अवगुनन्हि दुरावा ॥  
 देत लेत मन सक न धरई ।  
 बल अनुमान सदा हित करई ॥  
 गति काल कर सतगुन नेहा ।”

यह मैं हमें सदा सचेत रहना चाहिए । रानी कम थी, और अनुभव परिमित था । यदि यह गारी रनिवास में न होती, तो आर श्रीरामचन्द्रजी, भरत अभिशाप से, वैधव्य से, और प्रजा आग की एक कनो

इसके सिवा इन्होंने अपने प्यारे पति से भी विनय की, तथा श्रीरामचन्द्रजीने यह देख कर कि “हठि राखे राखाहि नहिं प्राना” आनन्द के साथ यह आशा सीताजी को दी —

“परिहरि सोच चलहु बन साथा ॥  
नहिं विपाद कर अवसर आजू ।  
वेगि करहु बन गमन समाज् ॥”

अपनी माता की सेवा के लिये सीता को घर पर छोड़ जाना श्रीरामचन्द्रजी का कर्तव्य था, परन्तु पतिव्रता खी का यह धर्म है कि वह अपने पति को ईश्वर से भी अधिक माने । इसी धर्म पर दृढ़ रह कर सीता ने किसी न किसी प्रकार से अपने पति को साथ ले जाने के लिये मना लिया । यह पति-सेवा का ज्वलन्त दृष्टान्त और सभी ख्यायों के लिये अनुपम आदर्श है ।

अपने मित्र सुग्रीव का उपकार करने के लिये श्रीरामचन्द्रजी ने विना किसी सकोच के उसके भाई, परन्तु शत्रु, बालि को अपने ही बाण से मार डाला । पूरी मित्रता के हो जाने पर अपने मित्र का सुख अपना सुख, उसका दुःख अपना दुःख, उसका मित्र अपना मित्र, और उसका शत्रु अपना शत्रु हो जाता है । इस नीति के अनुकूल इन्होंने बालि पर अपना धनुष उठाया, नहीं तो उसके मारने से इन्हें या लाभ होता । श्रीरामचन्द्रजी कहते हैं—

“जे न मिन्द दुख होहि दुखारी ।  
 तिन्हहि विलोकन पातक भारी ॥  
 जिज दुख गिरिसम रज कर जाना ।  
 मिथ्र के दुष रज मेह समाना ॥  
 जिन्हके अस मति सहज न आई ।  
 ते सठ हठि कत करत मिताई ॥”

अपने मित्रों के साथ में उचित बर्नाव करने के लिये ये शब्द सभी को सारण रखने चाहिए । कहाँ ऐसा न हो कि हम कपड़ी मनुष्यों को अपना सज्जा मिन्द समझ ले, इसलिये उनकी पहचान हमको बना दी गयी है—

“कुपथ निवारि सुपन्थ चलावा ।  
 गुन प्रगटह अवगुनन्हि दुराघा ॥  
 देत लेत मन सक न धरई ।  
 बल अनुमान सदा हित करई ॥  
 विपति काल कर सतगुन नेहा ।”

नौकरों के प्रिष्य में हमें सदा सचेन रहना चाहिए । रानी कैकेयी की अवस्था कम थी और अनुभव परिमित था । यदि मन्यरा के समान नीच थोर दुष्ट दासी रनिवास में न होती, तो सम्भव था कि राजा दशरथ का मरण और श्रीरामचन्द्रजी, लक्ष्मण और सीता का घनवास न होता—तो भरत अभिशाप से, सीता दुख से, राज्य दुर्भाग्य से, रानियाँ धैधव्य से, और प्रजा विपति से बच जाती, परन्तु जो काम आग की एक कलो

करती है ठीक वही काम इस राक्षसी मन्थरा ने किया । रानी कैकेयी में स्वाभाविक सुशीलता वर्तमान थी, इसलिये जब इस दासी ने इनको बहकाया, तब पहले पहल इन्होंने उससे यह कहा —

“जेठ स्वामि सेवक लघु भाई ।  
यह दिनकर कुल रीति सदाई ॥

कौसल्या सम सब महतारी ।  
रामहिँ सहज सुभाय पियारी ॥  
मोपर करहिँ सनेह विसेखी ।  
मैं करि प्रीति परिच्छा देखी ॥  
जो विधि जनम देइ करि छेहू ।  
होहिँ राम सिय पूत पतोहू ॥  
प्रान तें अधिक राम प्रिय मोरे ।  
तिन्हके तिलक छोभु कस तोरे ॥”

इसी सौम्य रानी को मन्थरा ने नीच बना दिया और बाद को इसके मुँह से ये बचन राजा दशरथ से कहलाए —

“सुनहु प्रानप्रिय भावति जीका ।  
देहु एक बर भरतहिँ ठीका ॥  
माँगउ दूसर बर कर जारी ।  
पुरवहु नाथ मनोरथ मोरी ॥  
तापस वेष विसेपि उदासी ।  
चौदह वरिस राम बनबासी ॥”

उन्हों “प्रान ते अधिक राम प्रिय मेरे” के लिये यह कूर इच्छा कि “चौदह बरिस राम बनबासी” हो। यह मन्त्यरा की भयङ्गर कुमन्त्रणा का फल था। अपने को घेर विपक्षियों से बचाने के लिये हम को दुष्ट तोकरो के फेर में कभी न पड़ना चाहिए और उनको तुरन्त निकाल देना चाहिए।

### (३) साधारण नीति ।

जो मनुष्य पूरे तैर से सत्य का पालन नहीं करता है वह केवल पाप ही नहीं करता, बरन अपने जीवन को भी निष्ठ-नीय, अपयशी और निष्फल बनाता है। जिसके पास सत्यरूपी मणि नहीं है उसका जीवन चास्तप में अन्धकार से भरा हुआ है, वह नेत्रों के होते हुए भी ठीक रास्ते पर न चल सकेगा। सच्चाई के साथ सोचने से हमारा मन, सच्चाई के साथ बोलने से हमारी वाणी आर सच्चाई के साथ सब काम करने से हमारा सारा जीवन पवित्र हो जाता है। झूठ बोलना अपने को नीच बनाना है—इतना ही नहीं, जीवन को सत्यानाश करना है। कुछ मनुष्य यह कहने लगते हैं कि ससार में रह कर बिना झूठ बोले काम ही नहीं चलता है, परन्तु हम बहुत प्रबल शान्दों में कहते हैं कि यह प्रलाप अत्यन्त नीच, अत्यन्त लज्जास्पद और अत्यन्त निस्सार है। यह बात ये मनुष्य सोचते हैं जो प्रायः असत्य बोला करते हैं, क्योंकि उनकी आंखों पर झुठाई का चश्मा चढ़ जाता है। ऐसे मनुष्य सिवा असत्य के भोर कुछ नहीं देख

पाते हैं, इस कारण से वे यह समझने लगते हैं कि विना झूठ बोले काम ही नहीं चल सकता है । हाँ, यह ठीक है कि यदि दो एक बार असत्य से काम लिया जाय, तो उसके कारण से हजार बार झूठ बोलना पड़ेगा और फिर धीरे धीरे सारा जीवन इसी के काले रग में रंग जायगा, परन्तु हम यह कहते हैं कि पहले से एक बार झूठ बोल कर इस पाप की नीव ही क्यों डाली जाय ? सदा सच बोलिए और झुठाई को अपने पास न आने दीजिए, तो निश्चय रखिए कि किसी समय भी आपको असत्य न बोलना पड़ेगा, और सत्य ही आपको सदा सफल, यशस्वी और विजयी बनायेगा ।

सत्य ही के कारण राजा दशरथ ने अपने प्यारे पुत्र श्रीराम-चन्द्रजी को बनधास की आशा दी और अनन्तर अपने प्राण तक छोड़ दिये, परन्तु उन्होंने जो बचन एक बार दिया था उसको लैटालने का विचार स्वप्न तक में न किया । वह कहते हैं —

“रघुकुल रीति सदा चलि आई ।  
प्रान जाइ वह बचन न जाई ॥  
नहिँ असत्य सम पानकपुजा ।  
गिरि सम होहिँ कि कोटिक गुंजा ॥  
सत्य मूल सब सुकृत सोहाई ।  
वेद पुरान विदित मुनि गाई ॥”

राजा दशरथ का सत्यपालन चास्तव में अलौकिक था । यही उनके हृषि-प्रतिष्ठ बने रहने का प्रधान कारण हुआ ।

वे समझे यूँने किसी बात को मुँह से न लिकालना चाहिए, जिसमें अन्त में किसी प्रकार का भी असमजस न हो । सत्य वादी भनुप्य को पिन्चारशील और पिंचेकपूर्ण होना चाहिए, इस दशा में उसे न तो अपनी बात को घदलना और न विपत्ति में गिरना पड़ेगा । यह सदा स्मरण रखना चाहिए कि पहले से सोच-विचार कर ही किसी बात को कहना या करना उचित है, परन्तु उसके उपरान्त जो कुछ हुआ सो हुआ और फिर उसके लोट पैट करने का विचार पापमात्र है ।

‘ हम आज कल ससार को सन्धि से प्राय शून्य पाते हैं, इस लिये हमने जान वूँफ कर इस बात पर यहाँ ल्यादा जोर दिया है । सत्य को छोड़ देने ही से हमें हासि, लज्जा, घृणा, अपयश और निष्फलता का पात्र बनना पड़ता है । असत्य के कारण इन दिनों में ससार उलठी गति से चल रहा है, और यदि हम इसमें सुधार न करेंगे, तो हम दिनों दिन नीचे ही गिरते जायेंगे और किसी तरह से भी उच्चति न कर सकेंगे । हम मानसिक सत्यता, धार्मिक सत्यता, कायिक सत्यता, हार्दिक सत्यता, धार्मिक सत्यता और चारित्रिक सत्यता—सभी प्रकार की सत्यताओं—के पक्षपाती हैं । हमें चाहिए कि सभी खियो और पुख्यो, बालिकाओं और बालकों के हृदयों पर यह स्थायी रूप से लिख दे । —

‘तन तिय तनय धाम धन धरनी ।  
सत्यसिध्धु कहें तुम सम बरनी ॥’

और उनको सदा यह सर्वग रखने का उपदेश दे ॥ —

“शिवि दधीच हरिचन्द्र नरेसा ।

सहे धरम हित कठिन कलेसा ॥

रन्जितेव बलि भूप सुजाना ।

धर्म धरेत सहि सकट नाना ॥

धरम न दूसर सत्य समाना ।

आगम निगम पुरान वसाना ॥”

यह कभी न भूलिए कि सत्यवादी मनुष्य नरक को भी स्वर्ग बना लेगा और असत्यवादी के लिये स्वर्ग भी नरक हो जायगा ।

हमको सदा दूसरों का उपकार करना चाहिए । तुलसी-दास कहते हैं —

“परहित सरिस धरम नहि॑ भाई॑ ।”

और इसके सिवा वह यह भी लिखते हैं —

(१) “न्मुति कह परम धरम उपकारा ।”

(२) “परहित लागि तजहि॑ जे देही ।

सन्तत सन्त प्रससहि॑ तेही ॥”

दूसरों के वास्तविक उपकार के लिये अपना यथाचित् समय, धन और पुरुषार्थ व्यय करने के बाद देखिए कि चित्त को कितना बड़ा सन्तोष होता है । जिस मनुष्य ने परोपकार न किया उसका जीना वृथा है । हम उसी को धर्मशील कहेंगे जो दूसरों के हित में तत्पर रहता है । देखिए उसके विषय में क्या कहा गया है —

“जिमि सरिता सागर महे जाहोँ ।  
जद्यपि ताहि कामना नाहीँ ॥  
तिमि सुख सम्पति विनहिं बुलाये ।  
धर्मसील पह जाहिं सुभाये ॥”

अधिक क्रोध करना नीति के प्रतिकूल है । कोई मनुष्य अपने सुख और शान्ति को खो देता है, उसके साथ ही वह दूसरे की शान्ति और सुख को भी छीन लेता है—वह स्वयं अपने क्रोध की आग में जलता और दूसरों को भी उसमें जलाता है, इसी कारण से—

“लपन कहेउ हँसि सुनहु मुनि क्रोध पाप कर मूल ।  
जेहि बस जन अनुचित करहिं चरहिं बिस्य प्रतिकूल ॥”

यदि सच पूछिए, तो क्रोध मनुष्य को पश्चु से भी अधिक नीच बना देता है ।

किसी के यहाँ बिना बोलाये जाना अनुचित है । इस बात में अपनी हँसी होती है और अपना समय भी नष्ट होता है । जब पार्वती ने निमाशु के न आने पर भी दक्षप्रजापति के यहाँ यहाँ में जाने के लिये बहुत हठ किया, तब शिवजी ने कहा—

“जो रिन तोले जाहु भवानी ।  
रहइ न सीलु सनेहु न कानी ॥  
जद्यपि मित्र प्रभु पितु गुरु गेहा ।  
जाइय विनु बोलेहु न सँदेहा ॥”

तदपि विरोध मान जहं कोई ।  
तहों गये कल्यान न होई ॥”

यहाँ पर तुलसीदास ने हमें यह शिक्षा दी है कि विना बुलाये किसी के यहाँ जाने से शील और स्नेह और गोरव नहाँ रहता है, और यथापि गुरु, पिता, मित्र और स्वामी के घर हम वैसे भी जा सकते हैं, तथापि जहाँ कोई अपने से बैर मानना हो वहाँ हमें कभी न जाना चाहिए, क्योंकि उसका फल बुरा होगा ।

हम नीचे तुलसीदास की कुछ फुटकर नीति लिख रहे हैं । इसे सरण रख कर हम सदा बहुत कुछ लाभ उठा सकते हैं । गोसाई जी कहते हैं —

- (१) “अरथ तजहिँ बुध सरखस्त जाता ।”
- (२) “जहाँ सुमति तहैं सम्यति नाना ।  
जहाँ कुमति तहैं विपति निदाना ॥”
- (३) “बचन परम हित सुनत कठोरे ।  
कहहिँ सुनहिँ ते नर प्रभु थोरे ॥”
- (४) “अति नीचहु सन प्रीति  
करिय आनि निज परम हित ॥”
- (५) “अति सघरपन करै जो कोई ।  
प्रगट अनल चम्दन ते होई ॥”
- (६) “समरत्थहि नहिँ दोष गोसाई ।  
रवि पावक सुरसरि की नाई (।)”

- (७) “सहज सुहृद गुरु म्बामि निय  
जो न करै सिर मानि ।  
सो पछिनाइ अधाइ उर  
अवसि होइ हित हानि ॥”
- (८) “सम्मावित कहै अपजस लाहू ।  
मरन कोटि सम दारुन दाहू ॥”
- (९) “सेवक सठ नृप रूपन कुनारी ।  
कपटी मित्र सूल सम चारी ॥”
- (१०) “अनुजबधू भगिनी सुतनारी ।  
मुमु सठ ये कन्या सम चारी ॥  
इन्हे ‘कुहणि विलोकहि जोई ।  
ताहि बधे कहु पाप न होई ॥”
- (११) “भानु पीठि सेइय उर आगी ।  
स्वामिहि सर्वमाय छल न्यागी ॥”
- (१२) “उमा सत की यहइ घडाई ।  
मद करत जो करै भलाई ॥”
- (१३) “पर उपदेस कुसल बहुतेरे ।  
जे आचरहिँ ते नर न घनेरे ॥”
- (१४) “सठसन यिनय कुटिल सन प्रीती ।  
सहज रूपन सन सुन्दर नीती ॥  
ममतारत सन धान कहानी ।  
अति लोभी सन दिगति बस्तानी ॥”

क्रोधिहिैं सम कामिहिैं हरि कथा ।

ऊसर बीज बये फल जथा ॥”

(१५) “काटेहि पे कदली फरै

कोटि जतन करि सोच ।

विनय न मान खगैस सुन्हु

डाटेहिैं पै नव नीच ॥”

(१६) “फुलहि फरहि न वेत

जदपि सुधा वरघहिैं जल्द ।

मूरख हृदय न चेत

जो गुरु मिलहिैं विरचि सम ॥”

(१७) “जल पय सरिस विकाइ

देयहु प्रीति कि रीति भलि ।

बिलग होइ रस जाइ

कपट खटाई परत ही ॥”

(१८) “नहि कोइ अस जनमेहु जग माहीैँ ।

प्रभुता पाइ जाहि मद नाहीैँ ॥”

(१९) “बातुल भूत विवस मनवारे ।

ये नहिं वोलहिं बचन सभारे ॥”

(२०) “जेहि के जेहि पर सत्य सनेहू ।

नो तेहि मिलइ न काढु सन्देहू ॥”

(२१) “रुपित बारि विनु जो तन त्यागा ।

मुये करइ का सुधा तडागा ॥”

का घरपा जब रुपी सुखाने ।  
समय चूकि पुनि का पठिताने ॥”

- (२०) “टेढ़ जानि सका सब काहू ।  
बक चन्द्रमहिँ ग्रसे न राहू ॥”
- (२१) “नहिँ विष प्रेलि अमिय फल फरही ।”
- (२२) “झूठउ सत्य जाहि विनु जाने ।  
जिमि भुजग विनु रजु पहिचाने ॥”
- (२३) “कादर मन कर एक अधारा ।  
दैव दैव आलसो पुकारा ॥”

ये सब नीति के जीने भार जागते हुए रहते हैं। इनको गपने उपयोग में लाकर हम अनेक समयों में सफलता पात्रकते हैं।

जब मनुष्य के प्राण निकल जाते हैं, तब तो वह मर ही जाता है, परन्तु कुउ मनुष्य ऐसे ह जो प्राणों के होते भी नहीं हुए हैं। इनमें से अनेक पाप के कीड़े हैं और वास्तव में इनका हाना भोर न होना बराबर है। स्मरण रचित —

“कौल कामवस रूपन विमृढा ।  
अतिदरिद्र अजसी अतिवृढा ॥  
सदा रोगवस सन्तत क्रोधी ।  
रामविमुख घुति सन्तविरोधी ॥  
तनपोपक निश्चक अपपाती ।  
अनजीघत सम वैदह प्रानी ॥”

गोसाईजी, आपने ध्युत ही ठीक कहा है। ये सचमुच “अनजीवत् सम” हैं।

हम तो इनको “अनजीवते” से भी ज्यादा बुरा कहेंगे। इनमें से अनेक मनुष्य अपनी दुष्टना के प्रभाव से दूसरों तक को सत्यानाश कर देते हैं। हमको चाहिए कि हम जब तक जीवित हैं, तब तक “सचमुच जीवित” रहें, तथा अपना कल्याण करने के साथ ही दूसरों को भी अपने समान बुद्धि-मान्, योग्य, परिश्रमी, सुशील और तेजस्वी बनावें।

---

## ३. तुलसीदास और स्त्रीरत्न ।\*

प्रकृति की कोमलता, प्रसन्नता, सहनशीलता, स्त्री धीरता, सुन्दरता, परिव्रता और शान्ति का निपक्षर्प है। प्रकृति में जो कुछ उदार, परिष्कृत और मनोहर है वह सब खो जाति में वर्तमान है। इनको स्वभाव से ही पवित्र और सच्चरित्र होना चाहिए। यदि कहाँ कहाँ पर उच्छृंखल खियाँ हमारे देखने में आती हों, तो वे पापी पिताओं, दुराचारी पतियाँ और दुष्ट पुत्रों के नीच आदर्शों के परिणाम मान्य हैं। कोई भी दोष क्यों न हो, वह प्राकृतिक रीति से खो का नहीं, बरन इसके अनुचित शिक्षण का है। यदि हम स्वयं सदा अच्छी चाल चलें और इनके सामने उत्तम ही आदर्श रखें, तो निश्चय रखिए कि किसी प्रकार का भी वुरा प्रभाव उन्हें अपने स्वाभाविक गुण से बचित् नहीं कर सकता है और उस समय ये लक्ष्मी घन कर हमको सुखी, घर को आनन्दमय,

\* आमदेश १६१४। “कान्यकुञ्ज” भाग ६, अंक ११, पृष्ठ २—११। स्वतन्त्र।

जाति को उन्नत घैर देश को उज्ज्वल बनावेंगी । ब्रह्मा ने सर्व रुपी अमूल्य रत्न की रचना करके मनुष्य के जीवन को सर घैर ससार को पवित्र बना दिया है ।

यदि सच पूछिए, तो तुलसीदास को अपने हृदय से सर्व जाति का कृतज्ञ होना चाहिए था, क्योंकि यह एक बार स्वर इन्होंने लिखा था —

“कटे एक रघुनाथ सँग बाधि जटा निर केस ।

हम तो चाक्षा प्रेम रस पती के उपदेस ॥”

इस प्रकार के मनुष्य के मुँह से ख्रियो की प्रशसा ही अधिक शोभा देती, परन्तु वैराग्य लेने के बाद जब इन्होंने रामायण लिखी तब न जाने क्यों यह उन पर कटाक्ष करने से न चूके । “पन्नी के उपदेस” से “प्रेमरस” के चक्षनेवाले तुलसीदास कहते हैं—

(१) “काम क्लोध लोभादि मद

प्रबल मोह की धारि ।

तिन महें अति दाढ़न दुखद

मायारूपी नारि ॥”

(२) “अवगुन मूल सूल प्रद

प्रमदा सब दुख यानि ।”

(३) “ढोल गँवार सद पसु नारी ।

ये सब ताड़न के अधिकारी ॥”

(४) “नारि सुभाड सत्य कपि कहहीं

अवगुन आठ सदा उर रहहीं ॥”

साहस अनृत चपलता माया ।

भय अविदेक असौच अदाया ॥”

गोसाईं जी ! हमें ग्राशा न थी कि आप लहनाओं पर ऐसी अनुदार सम्मति देंगे, कारण कि अपनी पक्षी ही की लूपा से आप इस ससार में अपने को अमर बना गये हैं । आपने स्वयमेव पापंती, कौशल्या, सुमित्रा पैर सीता की प्रशसा की है । हम इनके सिंगा आपको अरुन्धती, अनुसूया, गार्गी, मैत्रेयी, सामित्री, शकुन्तला, दमयन्ती, कादम्बरी, अहिल्या इत्यादि के सेकड़ों उदाहरण देकर यह विश्वला सकते हैं कि आपका एक घोर से खो-जाति पर हाथ साफ करने का प्रयास अनुचित है । हा, हम यह मानते हैं कि आपके बनलाये हुए कुछ दोष कभी कभी कुछ खियों में पाये जाते हैं, परन्तु केवल इसी बल पर सारी जाति की निन्दा करना अस्वगत है । यदि लोकिक “प्रेमरस” , को बुद्धापे तक चक्षों के बाद किसी अनुभवशील मनुष्य ने परिव्रह दृश्य खियों पर इतनी सकुचित सम्मति आपके समान दी होती, तो हम उसे थोड़ा बहुत प्रामाणिक मान सकते थे, परन्तु आपने तो युगावस्था ही में पक्षी से सम्बन्ध तोड़ दिया और विरक्त पुरुष हो गये । आप मैं घोर हम में मतभेद होना स्वाभाविक है, कारण कि हम इस लोक में रत घोर आप इस से गिरत है । आप भले ही खियों को अपनी हृषि से देखिए, परन्तु हमें उनको उस स्वरूप में देखना है जो वास्तव में उन्हें प्रवृत्ति ने दिया है ।

विना उचित शिक्षा के लियो के सब्बे गुण दरे रहते हैं,  
 इसलिये छोटे ही पन से हमें उनका लिखाना और पढ़ाना  
 चाहिए । उनको जितनी ऊँची और जितनी ज्यादा शिक्षा दी  
 जायगी उतनी ही उत्तमता के साथ उनकी बुद्धि और गुणों  
 का विकास होगा । इस समय में उनके चरित्र और प्रतिवेश \*  
 पर हमें पूरा ध्यान देना चाहिए, कारण कि अभी चूक जाने से  
 सदा के लिये उनका स्वभाव बिगड़ सकता है और बाद को  
 फिर हमारे बनाये कुछ न बन सकेगा । जो माता और पिता  
 अपनी पुत्रियों को पढ़ाते समय और वैसे भी सदा उनकी अच्छी  
 सगति, उनकी वास्तविक पवित्रता, उनके सब्बे सदाचारण, उनके  
 सामाजिक और धार्मिक विचार, और उन सब प्रभावों को,  
 जो सब समय उन पर अपना असर डालते रहते हैं, उचित  
 रूप से ठीक नहीं रखते हैं उन्हीं की शिक्षा बाद का विष होकर  
 उनको सत्यानाश कर देती है । हमको चाहिए कि हम हर एक  
 कन्या को यह जरूर अच्छी तरह से समझा दें —

“नारि धरम पति देव न दूजा ।”

और —

“सासु ससुर युव सेवा करहू ।  
 पति रुख लखि आयसु अनुसरहू ॥”

\* Environment ( प्रतिवेश = वे सब प्राणी, पदार्थ और प्रभाव  
 जिनके धीरे में रह कर मनुष्य अपना समृद्ध जीवन व्यतीत करता है )

यही हमारी पवित्र भारतीय खिंगा का आदर्श है। यदि शिक्षा ने उनका चित्त इसी मुख्य उपदेश से फेर दिया, तो लिखना और पढ़ना उनके लिये कौड़ी मोल का भी नहीं है। प्रत्येक शिक्षित खो के लिये उचित है कि वह अपनी योग्यता से इस पति-सेवा के आदर्श को और भी ज्यादा ऊँचा, पवित्र और उज्ज्वल बना दे।

हमारे यहाँ सदा से पुत्र बधू का बड़ा आदर होता चला आया है, तभी यह नियम रखा गया है —

“बधू लरिकिनी पर घर आई ।

राखेहु नयन पलक की नाई ॥”

राजा दशरथ ने यह आशा अपनी रानियों को दी थी कि सीता इत्यादि को उसी सत्कार के साथ रखना जैसे पलक आंख को रखती है—आँखों के सुख और चचार के लिये पलक सभी समय सोते पार जागते तेयार रहती हैं। देखिए रानी कौशल्या अपनी बहू का कितना ज्यादा प्यार करती थीं —

“मेरे पुनि पुत्रबधू प्रिय पाई ।

रूप रासि गुन सोल सुहाई ॥

नयन पुतरि इय प्रीनि घढाई ।

रायहुँ प्रान जानविहिं लाई ॥

कल्पयेलि जिमि बहु विधि लाली ।

सींचि सनेह-सलिल प्रतिपाली ॥”

सास को अपनी पतोह के साथ सदा इसी प्रकार का स्नेहमय घर्ताच करना चाहिए और उधर घधू को चाहिए कि उसको अपनी माँ से भी ज्यादा समझे, तभी हमारे घरों में सुख और शान्ति विराजेगी ।

मनुष्य को केवल एक विजाह करना चाहिए । यदि वह अपनी पत्नी के जीते हुए दूसरा व्याह करता है, तो वह जरूर अनुचित काम करता है । जिस प्रकार से पत्नी के लिये पतिव्रता देना आवश्यक है, वेसे ही पति को भी एक समय में एकमात्र पत्नी को अपने प्रेम की देवी बनाना चाहिए, तथापि यदि दुर्भाग्य-वश एक पुरुष के दो या तीन स्त्रियाँ हो जावें, तो उन सब को आपस में मेल से रहना चाहिए, नहों तो घर कलह और दुःख से भर जायगा । राजा दशरथ की तीनों रानियाँ पहले बड़े सौहार्द के साथ रहती थीं । देखिए रानी कौशल्या अपनी छोटी सौत की निकुर आङ्गा को मानने के लिये अपने प्यारे पुत्र राम से किस प्रकार से अनुरोध करती हैं —

“तात जाँ बलि कीन्हेउ नीका ।  
पितु आयसु सब धरम क टीका ॥

•

जीं केवल पितु आयसु ताता ।  
तै जनि जाहु जानि घडि माता ॥  
जीं पितु मातु कहेउ बन जाना ।  
तै कानन सत अवध समाना ॥

पितु बनदेव मातु बनदेवी ।

खग मृग चरन सरोच्छ सेवी ॥”

अहा ! रानी कौशल्या का आत्मत्याग सचमुच प्रशसनीय है । वह कहती हैं—हे ‘विटा, यदि केवल पिता ने बन जाने की आशा दी है, तो मेरी माँ हूँ, मेरी आशा से तुम कदापि वहाँ को न जाओ, परन्तु यदि पिता ने और उनके साथ ही तुम्हारी सोतेली माँ—मेरी सौत—ने भी यह आशा दी है, तो तुम्हारे लिये बन ही अवध के समान है और तुम आनन्द-पूर्वक वहाँ को जाओ, मैं तुम्हें कभी न रोकूँगी ।”

इसी समय में लक्ष्मण अपनी माँ के पास श्रीरामचन्द्रजी के साथ बन जाने की आशा माँगने के लिये पहुँचे । यदि रानी सुमित्रा को रानी कौशल्या से सच्चा प्रेम न होता, तो इन्हें क्या परवा थी कि सोत के लड़के के साथ यह अपने प्रिय पुत्र को जाने की आशा देनाँ, परन्तु यह भी आत्मत्याग में कुछ कम न थों, और इन्होने धेर्य रख कर लक्ष्मण से यह कहा —

“तात तुम्हारि मातु बैदेही ।

पिता राम सब भाति सनेही ॥

अवध तहाँ जहूँ राम निवास् ।

नहै दिवस जहूँ भानु प्रकास् ॥

जो पे राम सीध बन जाहूँ ।

अवध तुम्हार काज कहु नाहीँ ॥

अस जिय जानि सग बन जाहू ।  
लेहु तात जग जीवन लाहू ॥

तुम कहै बन सब भाँति सुपासू ।  
सँग पितु मातु राम सिय जासू ॥  
जेहि न राम बन लहहिँ कलेसू ॥  
सुन सोइ करेहु इहह उपदेसू ॥”

सिवा रानी सुमित्रा के घोर कौन माता इतनी उदारता  
दिखायेगी । इनकी जो कुछ प्रशंसा की जाय वह थोड़ी है ।

राजा को अपनी छोटी रानी सबसे ज्यादा प्यारी होती है ।  
राजा दशरथ कैकेयी को वैसे ही बहुत चाहते थे । एक घार  
इन्होंने लडाई में उनकी बड़ी सहायता की थी, तबसे वह इनको  
घोर भी ज्यादा मानने लगे थे । वह इनके लिये यहाँ तक  
तैयार रहते थे —

“कहु केहि रकहिँ करौं नरेसू ।  
कहु केहि नृपहिँ निकारौं देसू ॥  
सकौं तोर अरि अमरहिँ मारी ।  
कहा कीट बपुरे नर नारी ॥  
जानसि मोर सुभाड बरोरू ।  
तव मुख भम हग चन्द्र चकोरू ॥  
प्रिया प्रान बस सरबस मोरे ।  
परिजन प्रजा सकल बस तोरे ॥”

अपने पति की इतनी प्रिय हाँकर भी रानी कैकेयी अपनी सातों के साथ बड़ा मेल रखती थीं और उनके पुत्रों को अपने ही पुत्र के समान मानती थीं । यह स्वभाव से ही स्नेह और सुशीलता से भरी थीं, इसलिये जब पहले पहल मन्त्ररा ने इनको बहकाना शुरू किया, तब इन्होंने उससे डाट कर कहा —

“पुनि अस कबूँ कहेसि घर फोरी ।

तव धरि जीम फढावड़ तोरी ॥”

इनना ही कह कर रानी कैकेयी को शाति न हुई । इन्होंने अपना सच्चा अभिप्राय इन शब्दों में व्यक्त किया,—

“जेठ स्वामि सेवक लघु भाई ।

यह दिनकर कुल रीति सदाई ॥

फौसल्या सम मध महतारी ।

रामहिैं लहज सुभाय पियारी ॥

मो पर करहिैं सनेह विसेखी ।

में करि प्रीति परिच्छा देखी ॥

ग्रान ते अधिक राम सिय भोरे ।

तिनके तिलक छोभु कस तोरे ॥”

रानी कैकेयी । हम तुमको भी धन्य कहेंगे । यदि तुम इतनी उदार चित्त न होतीं, तो तुम्हारे गर्भ से भरत के समान उत्तम पुत्र का जन्म कभी न होता । तुम मैं सुन्दरता, वीरता, उदा-

रता, सुशीलता, और प्रेम सभी कुछ था, परन्तु केवल अनुभव न था । इसी कारण से मन्यरा के फेर में पड़ कर तुमने अपने नाम को सदा के लिये कलंड्कुत कर दिया । तुम्हारा जीवन आदर्श और उपदेश \* के रूप में हमारी खियाँ के लिये बड़े काम का है ।

जब तक पत्नी और पति के हृदयों में पूरा ऐस्य नहीं होता है, तब तक विवाह के बाद उन दोनों का जीवन अत्यन्त नीरस बना रहता है । आपस में एक को दूसरे के लिये सच्ची प्रीति के होते ही हृदयों के स्वयंग में देर नहीं लगती है । इस दशा में खी और पुरुष के बीच में कोई अन्तर नहीं रह जाता—दोनों हृदयों का स्पन्दन तक एक ही साथ होता है । ये दो शरीरों के होते हुए भी एक प्राण हो जाते हैं । यदि सच पूछिए, तो दो शरीर भी एक ही हो जाते हैं, मनुष्य अपनी पत्नी का दाहिना अङ्ग और खी उसकी “वामाङ्गी” हो जाती है । दोनों के प्राणों, हृदयों और शरीरों का एक ही जाना ही हमारे विवाहित जीवन की पूरी सफलता और पूरी शोभा है ।

श्रीरामचन्द्रजी और सीता का घरिष्ठ हमारे लिये एक अनूठा आदर्श है । इन दोनों के हृदयों में एक का दूसरे के लिये स्वाभाविक स्नेह वर्तमान था, इसी कारण से राजा जनक की

\* (Warning) जो यह सिलावे कि मनुष्य को किन बातों स बचे रहना चाहिए ।

फुलघारी में सीता को देखने के बाद ही उन्हें लक्षण से यह कहना पड़ा—

“ जासु बिलोकि अहैरिक सोभा ।  
सहज पुनोत मोर मन छोभा ॥  
सो सब कारन जान विधाता ।  
फरकहिँ सुभग अग सुनु भाता ॥”

यहाँ भावी पति का हृदय इस प्रकार से उल्लिखित हो रहा था, वहाँ—

“सकुचि सीय तब नयन उधारे ।  
सनमुख दोउ रघुवस निहारे ॥

परबस सयिन लखी जब सीता ।  
भई गहरु सब कहहिँ सर्मीता ॥”

ये न पेसा हो, जब देनों का हृदय एक था, तब देखते ही देखन यह प्राकृतिक प्रेम तरणे लेने लगा । स्वयंधर के समय जब बड़े घीर ग्रैर बली राजा चन्द्रचूड़ के चाप को उठा तक न सके—उसका तौड़ना दूर रहा, तब सीता को बड़ी व्याकुलता हुई, क्योंकि जो काम बलवान् भनुए न कर सके थे उसे किशोर अद्यत्यावाले थोरामचन्द्रजी कर सकेंगे यह किसके मन में आ सकता था, परन्तु प्रेम में अतुल बल है ऐर उसी पर भरोसा करके सीता ने यह निश्चय कर लिया —

“तन मन बचन मोर पन सोचा ।  
 रघुपति पद सरोज चितु राँचा ॥  
 तो भगवान सकल उरवासी ।  
 करिहहि मोहि रघुपति की दासी ॥  
 जेहिके जेहि पर सत्य सनेह ।  
 सो तेहि मिलइ न कछु सन्देह ॥”

इसमें रत्ती भर भी सन्देह नहीं है कि सब्बी प्रीति के होने पर अपनी इच्छा पूरी होती है। श्रीरामचन्द्रजी और सीता दोनों के हृदय प्रेम से एक होगये थे, उनके लिये धन्वा क्या पहाड़ तक का तोड़ गिराना कुछ भी कठिन काम न था। उसी समय इन्होंने धनुष को तोड़ कर सीता की चिन्ता को दूर कर दिया और राजा जनक ने आनन्द-पूर्वक श्रीरामचन्द्रजी के साथ उनका विवाह किया।

इनकी विवाहित अवस्था का कमल अच्छी तरह से खिलने भी न पाया था कि इन पर दुर्घट का समुद्र उमड़ पड़ा और ये एक क्षण में राजकुमारी और राजकुमार से साधारण वनवासी होगये। यह विपत्ति इनके हृदयों को तिळ भर भी न हिला सकी और ये आनन्द के साथ वन जाने के लिये तैयार हो गये। घर पर रहने के लिये श्रीरामचन्द्रजी ने सीता को बहुत कुछ समझाया, परन्तु यह इस बात को कब मान सकती थीं, क्योंकि इनके प्राण उन्होंके शरीर में रहते थे और उनसे अलग होकर सीता का जीना तक कठिन हो जाता। उस समय

इन्होंने प्यारे, परन्तु प्रबल, शब्दों में अपने पति से यह कहा—

“मातु पिता भगिनी प्रिय भाई ।  
 प्रिय परिवार सुहृद समुदाई ॥  
 सासु ससुर गुरु सुजन सुहाई ।  
 सुठि सुन्दर सुसील सुखदाई ॥  
 जहँ लगि नाथ नेह अह नाते ।  
 प्रिय विनु तियहि तरनि ते ताते ॥  
 तन धन धाम धरनि पुरराजू ।  
 पति विहीन सब सोक समाजू ॥  
 भोग रोग सम भूषन भारू ।  
 जमजातना सरिस ससारू ॥  
 ग्राननाथ तुम विनु जग माही ।  
 मो कहूँ सुखद कतडुँ कोउ नाही ॥  
 जिय विनु देह नदी विनु धारी ।  
 तइसिअ नाथ पुरुष विनु नारी ॥

धन दुख नाथ कहेउ चहुतेरे ।  
 भय विपाद परिताप धनेरे ॥  
 प्रभुप्रियोग लचलेस समाना ।  
 सब मिलि होही न रूपा निधाना ॥

अस जिय जानि सुजान सिरोमनि ।

लेण्य सग मोहि छाडिय जनि ॥”

ये सरल और प्रभाव-शाली वचन सोने के अक्षरों में लिख कर सदा लियो के सामने रख्ये रहने के योग्य हैं। ये भारतवर्ष की ललनामा के पवित्र आदर्श के बीज हैं। इनको स्मरण रख कर हमारी लियाँ अपने चरित्र को ऊचा और उज्ज्वल बना सकती हैं।

यह समझ कर कि कदाचित् थ्रीरामचन्द्रजी यह सोचते हैं कि वन में पक्षी को साथ लेकर फिरमा क्लेश मात्र हो जायगा, सीता ने इन शब्दों से उनकी सारी चिन्तामा को दूर कर दिया—

“सबहि भाँति पिय सेवा करिहौं ।

मारग जनित सकल सम हरिहौं ॥

पाँव पक्षारि बैठि तरु छाहीै ।

करिहैँ बाड मुदित मन माहीै ॥

स्नामकन सहित स्याम तनु देखे ।

कहै दुख समउ प्रानपति पेघे ॥

सम महि तृन तरु पलघ डासी ।

प्राय पलोटिहि सब निसि दासी ॥

बार बार मृदु मूरति जोही ।

लागिहि ताति बयारि न मोही ॥”

सीता का प्रयोजन यह है कि वेभ होना दूर रहा, मैं किसी प्रकार के कष्ट को तुम्हारे पास तक न आने दूँगी और सदा

तुम्हारी सेवा करती रहूँगी । सीता ने इस ससार में जन्म लेकर खींजाति को सचमुच प्रश्नसनीय बना दिया है । इस पहली श्लोर पति के स्वर्गीय ब्रेम में एक अनूठा आनन्द भैरव निराली पवित्रता वर्तमान है, जो हृदय पर विना प्रभाव डाले नहीं सकती है । अन्त में सीता की सच्ची प्रीति ने पति को अपने घर में कर लिया और तब—

“रुहेउ लुपाल भानु कुल-नाथा ।  
परिहरि सोच चलहु बन साथा ॥  
नहिँ विषाद फर अवसर आजू ।  
येगि करहु बन गवन समाजू ॥”

इनके बाद ये दोनों मय लक्ष्मण के घन को गये । इनके आपस में मन्दी सहानुभूति वर्तमान थी, इसलिये इनकी रिपति का पर्वत कट कर ढुकड़े ढुकड़े हो गया ।

हमारे यहाँ की लियों को अपना सच्चा आदर्श कभी न भूलना चाहिए । घद यह है—

“मानु पिता भ्राना हितकारी ।  
मितप्रद सब सुनु राजकुमारी ॥  
अमितदानि भर्ता येदेही ।  
आपम सो नारि जो सेव न तेही ॥”

तृद्ध रोगपति जड धनहीना ।  
धध बधिर फोधी अतिदीना ॥

ऐसेहु पति कर किये अपमाना ।  
 नारि पाव जम्पुर दुख नाना ॥  
 एकइ धरम एक घ्रत नेमा ।  
 काय बचन मन पतिपद प्रेमा ॥”

इसी धर्म का पालन करके अरुन्धती और अनुसूया, सीता और साधित्री, शकुन्तला और दमयन्ती ने अपनी शिक्षा को सफल, अपने जीवन को पवित्र, अपने पति को सुखी और अपने घर को स्वग बनाया था । इसी आदर्श को सामने रख कर हमारी खियाँ आज भी बहुत कुछ कर सकती हैं, परन्तु इसकी उपेक्षा करके, हमें भय है, वे अपने साथ ही देश की भी अवनति करेंगी ।

खियों को चाहिए कि शिक्षित होने पर वे अपने पुराने आदर्श पति-सेवा को और भी अधिक वैज्ञानिक और मनोहर बना दे । इससे हट कर स्वतन्त्र हो जाना न तो उन्हें शोभा देता है और न उन्हें कोई लाभ पहुँचावेगा । चाहे अपह दोनों या पढ़ी, इस आदर्श का मानना सभी खियों की सब्दी उत्सुकि करेगा । इनको प्रकृति ने वह शक्ति दी है जिससे ये नीच मनुष्य को ऊँचा, अपवित्र को पवित्र, और निम्ननीय को प्रशसनीय बना सकती हैं, परन्तु इसका विकास तभी हो सकता है, जब ये अपने आदर्श को न बिगड़ने दे और उसे दिनोंदिन अधिकतर उज्ज्वल बनाती रहें । सीता और अरुन्धती की जन्म भूमि में स्काट् लोगों की रानी मेरी और कुछ औपैदा के आदर्शों

से कभी न काम चलेगा । हमारी खियों को जब लाभ होगा, तब अपने ही देश की उत्तम ललनामो के घरिंद्रों का अनुभरण करने से, वैसे सिधा नीचे गिरने के ग्रैर कुछ भी इनके हाथ नहीं आ सकता है । ग्रैर देशों में भी आदर्श खियों हो गयी हैं, उनकी अच्छी बाते जरूर सीखी जायें, इसमें रत्ती भर भी हानि नहीं है, परन्तु अपने उदाहरणों को छोड़ कर अविषेक के साथ दूसरों के पीछे दौड़ना निरी वे समझी है ।

जाति में भेद होने से स्वभावों में भेद होना जरूरी है ग्रैर इस दशा में आदर्शों में भी अवश्यमें बड़ा अन्तर हो जायगा । इसी कारण से आदर्शों का बदल डालना प्राय हानिकर होता है, प्योंकि दूसरों के उदाहरण जैसे के तेसे हमारे अनुकूल नहीं हो सकते हैं । आदर्श प्रिपर्यय ग्रैर आदर्श सुधार में बड़ा भेद है—पहला अनुचित ग्रैर प्रिवेक-शून्य है, तथा दूसरा उचित ग्रैर शिक्षा जन्य । शिक्षित खियों के लिये अपने आदर्शों में उचित सुधार करना ग्रैर उन्हें भारतीय ढंग से बीसरों शताब्दी के अनुरूप बनाना सब प्रकार से योग्य है परन्तु आर्यों बन्द करक योरोप ग्रैर अमेरिका की चटकीली ग्रैर चमकीली तितुलियों के पीछे दौड़ना, अपने विचार, आचरण ग्रैर वेष को बिगाड़ देना, तथा इन्हों बातों को अपनी शिक्षा का फल समझना किसी समय में भी समझ का काम नहीं है । जब हमारी खियों भारतीय खियों ही बनी रह कर उन्नति करे, तभी वह हमारी उन्नति होगी । जो खिया अविवाहित रह कर पवित्रता के साथ


अपना जीवन विताना चाहें वे ज्ञानन्द-पूर्वक उसे धर्म, देश पैर परोपकार के कामों में लगाये, परन्तु विवाहित होने पर उन्हें अपना पुराना आदर्श कभी न भूलना चाहिए। यारी भारत-ललनाथो, स्मरण रखना कि अहन्यती, सीता, सावित्री, और दमयन्ती के समान उत्तम छियो से इस देश को भर देना तुम्हारे ही हाथ में है। यह काम तुम नवीन शिक्षा और प्राचीन आदर्श, उचित सुधार और पिवेक-पूर्ण संशोधन से सहज ही में कर सकती हो। समय बीतने के पहले ही जगे, सचेत हो जाओ और भारतवर्ष की उन्नति के उपायों में हमारी सहायता करो।



## १—जीवात्मा का विस्तार ।



हाँ पर हम एक परिलेख दे रहे हैं जिसमें चार वृत्त हैं। उनमें से सबसे छोटे वृत्त का केन्द्र “क” है, उससे बड़े वृत्त का केन्द्र “ख” है और ऐसे ही शेष दो वृत्तों के केन्द्र क्रमशः “ग” और “घ” हैं। “अ हूँ” सब वृत्तों की स्पर्श-रेखा है।




हम एक ऐसा भी बहुत बड़ा वृत्त खोच सकते हैं जिसकी परिधि का काम स्थाश्वर रेखा “अ हूँ” देवे। इस परिलेख का प्रत्येक

---

नवम्य १६०५। अमुद्रित। पुनर्लिपित और दुब्बल विस्तृत।

वृत्त जीवात्मा की भिन्न भिन्न दशाओं का वोधक है। बहुत ही सर्विर्ण दशा में हमारा जीवात्मा सब से छेटे वृत्त के समान होता है, तथा उन्नति करते हुए और अन्य वृत्तों की समना को पाते हुए यह अन्त में उस विस्तृत दशा को पहुँच जाता है जिसका निरूपक “अ ई” स्पर्श-रेखा की परिधिधाला वृत्त है। सीधी रेखा की परिधि से यह प्रयोजन है कि इस अवस्था में मनुष्य इतना उदारचरित होता है कि उसके दोनों हाथ विलकुल सीधे फैल जाते हैं और वह सारे ससार को अपना ही कुटुम्ब जान कर उसे अपने गले लगाने के तैयार रहता है— वह किसी को भी अपनी कुहनियों से नहीं हटाता और मारता है। कम उन्नत दशाओं में मनुष्यों के दोनों हाथ विलकुल सीधे नहीं, बरन गोलाकार या छेटे वृत्तों के समान होते हैं, प्रयोजन यह है कि इनको अपनी ही सुभती है, इसलिये ये उन्हें, जो इनके अनुकूल या इनके पक्ष में नहीं है, कुहनियों से मार कर हटा देने में तत्पर रहते हैं।

प्रकृति का नियम है कि वह सभी समय अपने उन्हीं कामों को दोहराया करती है। न जाने के बार सत्ययुग, ब्रेता, द्वापर और कलियुग, तथा उनमें श्रीरामचन्द्रजी और श्रीकृष्ण चन्द्रजी के अवतार हो चुके हैं। हर साल गर्मी, घरसात और सर्दी ये तीन मुख्य ऋतु होती हैं, ऐसे ही प्रति दिन भी ये तीनों वीतती हैं—प्रात काल शीत, मध्याह्न ग्रीष्म और सायंकाल वर्षी की शोभा दिखाता है। जिस प्रकार से जीवात्मा औरासी



# विनोद-वैचित्र्य

## द्वितीय भाग ।

रामतीर्थ के निबन्धों पर हमारे लेस ।



लक्ष योनियों में भ्रम कर सज के बाद मनुष्य-शरीर पाता है, वैसे ही गर्भदारण से पता लगा है कि गर्भाशय के नो मट्टीनों में यह प्राय सभी मुख्य मुख्य जीव जन्मुयों के रूप धारणा करके अन्त में अपने माता पोर पिना के समान शरीर पाता पोर उत्पन्न होता है । ठीक इसी प्राकृतिक नियम के अनुकूल हमारा जीवात्मा मनुष्य शरीर पाकर भी अपनी सकीर्णता या उदारता के क्रम से कई एक भिन्न भिन्न वाटियों में अपना जीवन अतीत करता है । जिस प्रकार से जड़ आर चेतन, एवं उनमें प्रथम में खनिज आर उद्दिज्ज, तथा दूसरे में पशु मनुष्य, पौर परमात्मा ये भेद हैं, वैसे ही हम लोगों में भी अनेक विभाग वर्तमान हैं —

१—खनिज मनुष्य=वृत्त “क”=असनी मनुष्य ।

२—उद्दिज्ज-मनुष्य=वृत्त “ख”=गृहस्थ मनुष्य ।

३—पशु मनुष्य=वृत्त “ग”=जाति भक्त मनुष्य ।

४—मनुष्य मनुष्य=वृत्त “घ”=देश भक्त मनुष्य ।

५—परमेश्वर-मनुष्य=वृत्त “अ ई” (परिधिवाला)=  
पूर्ण द्वानी मनुष्य ।

### १—व्यसनी मनुष्य ।

इस पुरुष की समता खनिज पदार्थों से की गयी है, क्योंकि उनसे उसी मनुष्य को लाभ हो सकता है जिसके पास वे वर्तमान हैं । हीरा या लाल, सोना या घंडी उसी मनुष्य का

उपकार करते हैं जो उनका स्वामी है, और लोग उनसे कुछ भी लाभ नहीं उठा सकते हैं । ठीक यही दशा व्यसनी मनुष्य की है, यह सिवा अपने शरीर के सुख के किसी दूसरे की परवा नहीं करना है । यह अत्यन्त सकिर्ण जीवात्मा सदा यही समझता है कि मैं केवल उनना ही हूँ जितना कि अपने इस शरीर—सिर और पैरो—के बीच मैं हूँ । इसके सिवा और जितने पुरुष हैं उनसे मेरा कोई सरोकार नहीं है, चाहे उन्हें सुख हो या दुःख हो । अपने शरीर को पालने के लिये और मनुष्यों या पशुओं को कष्ट देने और उनके प्राणों नक को हर लेने में इसे रक्ती भर सकोच नहीं होता है । एक और विख्यात रोमन नगर जल रहा था, दूसरी ओर वहाँ का महाराजा नीरो अपने महल के तिमजिले पर चढ़कर अपनी वशी को बजाता और “जलने के आनन्द” को देखता रहा । इस प्रकार के मनुष्य खनिज नहीं तो और क्या है ?

## २—गृहस्थ मनुष्य ।

यह जीवात्मा, कुछ विस्तृत होने पर, अपने शरीर के सिवा अपनी माता और पिता, पत्नी और पुत्र को भी अपना ही समझता है । इसे जितनी ममता अपनी देह के लिये होती है उतनी ही अपने कुदुम्य के लिये भी होती है । इसके लिये कुदुम्य का सुख अपना सुख, उसका दुःख अपना दुःख, उसकी उम्रति अपनी उम्रति और उसकी अवनति अपनी ही अवनति है ।

ऐसे मनुष्य की उपमा पोधे से दी गयी है, कारण कि ये भी अपने सिवा कुछ और लोगों को लाभ पहुँचाते हैं। गृहस्थ-मनुष्य अपनी ओर अपने कुटुम्ब की रक्षा और पालन के लिये अपना पसीना गिराता, बैचैन रहता, और परिश्रम करता है। इसे अपने स्नेहियों के लिये दूसरों को हाति पहुँचाने में सशय नहीं होता है, कारण कि जिन्हें यह अपनी आत्मा मानता है केवल वे ही इसके आत्मीय हैं। शेष सासार से तथा इससे कोई विशेष सम्बन्ध नहीं रहता है।

### ३—जातिभक्त मनुष्य ।

कुछ और उन्नत होने के उपरान्त यह जीवात्मा केवल अपने शरीर और कुटुम्ब ही को नहीं, बरन अपनी जाति के सब मनुष्यों को अपना ही समझता है। यदि इसकी जाति के सिवा और जातियां भी देश में हुई तो यह उनसे बहुत कम सम्पर्क रखता है। कभी कभी यह उन्हें नीचा तक दिया कर अपनी जाति को उन्नत बनाने का यज्ञ करता है। यह पशु के समान अधिकतर मनुष्यों को लाभ पहुँचाता है।

### ४—देशभक्त मनुष्य ।

इसके लिये सारा देश ही अपनी देह है, मनुष्य का पास्तविक भाव यही होना चाहिए, इसी कारण से इसकी तुलना मनुष्य-रूपी मनुष्य से की गयी है। इसमें केवल इतनी

समीर्णता वर्तमान रहती है कि यह दूसरे देशों के हिताहित में विशेष प्रयोजन नहीं रखता और सदा अपने ही देश की उन्नति की धून में लगा रहता है। अपने देश की कुछ भी हानि होते हुए देखकर इसे यह जान पड़ता है कि मानो मेरे ही हृदय पर चोट लगी है। यह सदा यही प्रयत्न करता है कि मेरा ही देश सारी प्रतिष्ठा, व्यापार, शिव्य, पित्या और गौरव का एक मात्र केन्द्र होकर सलार के सभी देशों का सिरनाज बने। इसी उद्देश्य को हृदय पर लिख कर यह अपने रक्त तक को बहाने में नहीं सकुचता है।

ग्राय विवेक शून्य देशभक्त कलह और विष्णुवें के कारण होते हैं। ये लाभ के बदले हानि ही विशेष रूप से करते हैं, इस कारण से इनकी निष्ठा होती है। विचारशील देशहितैषी मनुष्य अपने देश को सब प्रकार से लाभ पहुँचाते, विगदों और विष्णुवें को दबाते, देश को उत्तम रूप से उन्नति के मार्ग पर चलाते, और उसके सच्चे सेवक बन कर अपने जीवन की उपयोगिता को प्रमाणित करते हैं। सारण रखिए कि मनुष्य होकर यही पहली फोटि है जिसमें वह अपना सच्चा कर्तव्य पालन करता है और मनुष्य कहे जाने के योग्य होना है। दूसरी दशाओं में वह गरिज, पोधा और पशु मात्र है। सच्चा और विचारशील देशभक्त बनना ही अपने जीवन को मनुष्यत्व से पूर्ण करना और उसे सफल बनाना है।

## ५—ज्ञानी मनुष्य ।

सबसे अधिक उन्नत और विस्तृत दशा को पहुँच कर जीवात्मा बाल्त्र में परमात्मा के तुल्य हो जाता है। इसके लिये सारा सार अपना ही शरीर है। यह किसी से बैर भाव नहीं रखता है, सभी इसके मित्र हैं और यह सबका मित्र है। किसी भी देश से इसका विरोध नहीं होता है। यह सभी देशों—सारे सार और सारी प्रकृति—को अपना देश, अपना शरीर, और अपना जीव मानता है। यदि यह किसी भी वृक्ष, पशु या मनुष्य को कष्ट होते हुए देखता है, तो इससे नहीं रहा जाता है और यह तुरन्त ही उसका कलेश दूर करने के लिये यत्न करता है। यह सभी को सुखी देखने की इच्छा रखता और स्वयमेव प्रसन्न रहता है। ऐसा मनुष्य सब कुउ कर सकता है। इसके सामर्थ्य के बाहर कोई भी काम नहीं है।

अमेरिका की सयुक्त राज्यों का अध्यक्ष अब्राहम लिड्नन एक बार घोड़े पर सवार होकर देश की शासन सभा को जा रहा था। रास्ते में इसने कीचड़ में फैसे हुए एक सुवर को देखा, जो यत्न करने पर भी उससे बाहर नहीं निकल पाना था। घोड़ों द्वार तक यह इस हृक्षय को देखता रहा, परन्तु जब हुजार यक्ष करने पर भी वह अपने को उस दु ऊ से न छुड़ा सका, तब इससे न रहा गया। इसने तुरन्त ही घोड़े से उत्तर कर उस सुवर को कीचड़ से बाहर निकाला और उसके बाद फिर

सबार होकर यह शासन-सभा को गया। वे मनुष्य धन्य हों जो सभी के दुखों के साथ व्यावहारिक सहानुभूति करने को तैयार रहते हैं। सारे ससार को अपनी ही आत्मा माननेवाले मनुष्य केवल अपने ही देश की नहाँ, बरन सब देशों की उम्मति के साधक होते हैं।

इ गलेंड, जर्मनी, अमेरिका और जापान को इस उम्मति अवस्था में देख कर हमें कुछ भी आश्र्यन करना चाहिए। उनकी वर्तमान ममृद्धि के कारण केवल ये ही परमात्मा तुल्य मनुष्य हैं। जिस देश में इनकी सख्त्या जितनी अधिक होती है वह उतना ही प्रतापी और तेजस्वी होता है। जब हमारे देश में इस प्रकार के हजारों मनुष्य थे, तब हम् सारे सेसार को अपने चपत्कार से चमत्कृत करते थे, परन्तु इस समय यह इनकी सख्त्या घटुत कम होगयी है, इसी कारण से हमारी दशा दिनो-दिन शोचनीय होती जाती है। हमें चाहिए कि हम स्वयं उठारचरित बन कर तथा दूसरों को भी ऐसा ही बना कर अपने देश में इस प्रकार के मनुष्यों की सख्त्या को बढ़ावे और इनकी सहायता से फिर शोध ही अपनी जन्मभूमि को तेजस्वी और गौरव पूर्ण बना दे।

## २—सफलता के रहस्य ।

**पहला रहस्य—काम में लीन हो जाना ।**

मनुष्य को अपना जीवन सफल बनाने के लिये उप-  
सम "योगी कामों में तत्पर रहना चाहिए । समय को  
बृथा नष्ट न होने देना बुद्धिमानी का काम है ।  
उद्योग करना अनायास ही सफलता को मनुष्यकी ओर खाँच  
लाता है । अस्तित्व के वर्तमान होड़ में जो देश या जो मनुष्य  
यक्ष श्रील न रहेगा उसके लिये कोई भी आशा नहीं है । यह  
निस्सदेह किसी न किसी दिन दूसरी प्रभाव शाली जातियों या  
मनुष्यों के द्वारा पैरों के नीचे कुचला जाकर नाश को प्राप्त हो  
जायगा । इस भयद्वारा विपत्ति से बचने के लिये मनुष्य को  
चाहिए कि यह उचित रूप से काम में लग बर केबल अपने ही  
को नहीं, बरन अपने देश को भी उक्षत और प्रतापी बनाये ।

किसी काम में सफल होने के लिये प्रत्येक मनुष्य को उसमें  
लीन हो जाना चाहिए—उसमें अपने चित्त को इस ढाँग से पूर्ण-  
तया निपट कर देना चाहिए कि अपनी सत्ता का कुछ भी ध्यान

८ दिसम्बर १६०५ । अमुद्रित । पुनर्लिंगित पृष्ठ विस्तृत । प्रायः  
स्पतन्त्र ।

न रहे । यदि सच्च पूछिए, तो यह तल्लीनता ही वास्तविक विश्राम है । यही हमारे आराम करने का समय है । सच्चे हृदय से काम में दूब जानेवाला मनुष्य औरो की हृषि में भले ही परिश्रम से व्याकुल जान पड़े, परन्तु वह वास्तव में कुछ नहीं कर रहा है, कारण कि काम में लीन होकर वह अपनी आत्मा ही को भूल गया है । जिस प्रकार से देखनेवालों को, सचमुच किसी रंग के न होते हुए भी, इन्द्रधनुष में सात रंग प्रतीत होते हैं, ठीक वैसे ही अपने काम में लीन मनुष्य विश्राम कर रहा है—वह अपने काम के रगों से न्यारा ही है । पूर्ण रूप से सफल होने के लिये प्रत्येक मनुष्य को अपने कामों में इस तरह से लगना चाहिए कि उसका यह भाव कि “यह काम मैं कर रहा हूँ” बिलकुल जाता रहे । अहभाव को मिटा देना—काम की आत्मा और अपनी आत्मा के भेद को दूर कर देना—ही हमें सफल घना सकता हे ।

जब तक कोई मनुष्य अपने काम में अपने को बिलकुल भूल जाता हे, तब तक उसका मनोयोग उसके काम को परिव्रकरता और उसे उत्कृष्ट बनाता है । बहुधा लीन हो जानेवाला मनुष्य ही आशातीत सफलता पाता है । वह अपने ही किये हुए काम को देख कर कभी कभी आश्वर्य से कह उठता है कि मैं अपनी साधारण योग्यता से इस काम को किस प्रकार से ऐसे उत्तम रूप में कर सका, परन्तु वास्तव में यह उसके काम में दूब जाने—उसके “अहकार” का सर्वथा मिटा देने—का फल हे

कि वह अपनी आशा और योग्यता से भी घट कर सफलता पा सका । थोड़ी देर तक किसी काम में अपने को भूल कर ज्योंही आपके चित्त में यह ध्यान आयेगा कि “अहा ! देखो मैं इस काम को कैसी उत्तमता से कर रहा हूँ”, ज्योंही, निश्चय रखिए, काम बिगड़ने लगेगा और पहिलेवाली सफलता काफ़्र हो जायगी ।

मनुष्य की उपयोगिता और प्रभाव-शालिता उसके काम में लीन होने की शक्ति पर निर्भर हे । जब कोई पुरुष अपने अध्यवसाय में लग कर अपनी सत्ता को भूल जाता है और उसकी आत्मा अपने काम के साथ एक लय में हो जाती है, तभी सुचतुर प्रकृति देगी, मनुष्य-शरीर रुपी वीणा को लेकर ग्रेस उसके हृदयरुपी तार पर अपना हाथ फेर कर, नाना प्रकार के मधुर स्वरों का आलाप आरम्भ करती है तभी लोग कहते हे कि अमुक मनुष्य उन्साहित हो गया है, तभी वह अपनी आशा और योग्यता से भी अग्रिक सफलता प्राप्त करता है, और तभी वह अपने साथियों का इस उन्नति की दैड में सेकहों भील पीछे छाड़कर स्वयमेव असाधारण दशा को पहुँचता और ससार की आँखों में चकाचौध पेदा करता है । सफलता के लिये हमें अपने “अहकार” को या ‘मे कर रहा हूँ’ इस भाव को कार्य की आग में भस्म कर देना चाहिए । यह भाव विना आत्मसंयम के या चित्तवृत्ति को एकाग्र रखने का स्वभाव दाले नहाँ दूर हो सकता है, इस कारण से लीन होने के

लिये हमें आत्मसंयमी बनना चाहिए, और अपने मन को अपने वश में रखना चाहिए ।

कभी सामान्य मनुष्य सहज ही में चमत्कार कर दिखाता है और कभी कभी योग्य मनुष्य साधारण से भी साधारण काम को उत्तमता के साथ नहीं कर पाता है। किसी समय हम कठिन काम को चुटकी घजाते ही समाप्त कर देते हैं और कभी सहज काम को भी करते हुए दौत खड़े हो जाते हैं। जब एक ही मनुष्य अपनी उसी योग्यता से अनेक कामों में अनेक प्रकार के फल पाता है, तब यह प्रश्न अवश्यमेव उठता है कि वह कोन सा कारण हे जो हमें इस ढग से प्रोत्साहित या निःत्साहित करता है। अनुसन्धान करने से यह स्पष्ट जान पड़ेगा कि हमारी चित्तवृत्ति की अनुकूलता या प्रतिकूलता ही इस प्रिय व्रता की जड़ है। जब मनुष्य में अहकार की मात्रा ज्यादा होती है, तब बहुत कुछ परिश्रम करने पर भी चित्त उखड़ा रहता है और जैसा चाहिए वेसा काम नहीं होता है, तथा जब हम काम में लीन हो जाते हैं, तब प्रकृति भी हमारा साथ देकर हमारे हृदय को उत्साह-पूर्ण, यत्न को आशा-पूर्ण और काम को सफलता-पूर्ण बनाती है। जिसने अपने काम में भली भाँति सलझ होना सीधे लिया हे वह सदा उत्तमता पूर्वक काम करेगा और उसे दूसरों की अपेक्षा अधिक सफलता मिलेगी।

ज्योंही काम करते समय नाम पैदा करने का या अपनी प्रशस्ता का रची भर भी विचार आयेगा, लिद्वय जानिए त्योंही

सारा मनोयोग तहस नहस होजायगा । विना आत्म-समयम के न तो आप अपने चित्त को रोक सकते और न उसे एकाग्र कर सकते हैं । हमें सब प्रकार से मन को अपने अधिकार में रखकर कामों में अपने को भूल जाना चाहिए । नाम पाने की इच्छा जितनी ही ज्यादा होगी उतना ही ज्यादा, काम बिगड़ जायगा । काम का प्रारम्भ कर देने पर सब समय उसके भले या घुरे परिणाम के भय के पत्थर को अपने हृदय पर रखने रहने की ज़रूरत नहीं है । ऐसा करने से भी वह धराव हो जाता है । किसी काम को बरते समय अपने चित्त को पूरे तोर से निश्चिन्त, एकाग्र और तटलीन रखना चाहिए, तथा अपने हृदय को सर्वथा आल्हादित, आशायुक और उत्साहित बनाना चाहिए । ऐसी दशा में वह काम निस्सन्देह उत्तमता पूर्वक होगा और उसमें पूरी पूरी सफलता मिलेगी । मनोयोग के समय अपने शरीर को गतिशाला \* और चित्त को स्थितिशाला<sup>†</sup> के नियमों के अनुकूल रखना चाहिए ।

### दूसरा रहस्य—निष्काम परिश्रम ।

एक समय तालाब ने एक बहती हुई स्वच्छ नदी से कहा— “तू बड़ी मूर्ख हे । तू व्यर्थ ही अपना सब पानी बहा कर समुद्र में कैंक रही है । तू कितना ही पानी उसे देगी, तथापि वह सारी का सारी ही बना रहेगा और तेरा उपकार भी न मानेगा, कारण

कि उसके लिये तेरा दिया हुआ थोड़ा सा जल कोई चीज़ नहीं है । तुझे अपना जल अपने पास ही रखना चाहिए ।” यहाँ पर तालाब ने अपने ही समान स्वार्थी घनने की शिक्षा नदी को भी दी है, परन्तु वह कब इस उपदेश को मान सकती थी । उसने तालाब को तुरन्त ही यह मुँह-तोड़ उत्तर दिया—“अरे तालाब, जा, और इस ओछी सलाह से तेरा ही भला हो । मैं इस प्रकार की नीचता और स्वार्थ की बातों में कभी नहीं पड़ती हूँ । तेरा स्वार्थ ही तेरे जल को गँदला कर देता है और कभी कभी तुझे सुखा देता है । गँदला हो जाने पर तेरा पानी नाना प्रकार के रोगों को फेलाता है और तब न जानें कितने प्राणों की हत्या तेरे सिर पर पड़ती है । उस समय दुर्गन्धि के कारण तेरे पास नक कोई नहीं आता है । रही मैं, मुझे इस खात से प्रयोजन नहीं कि मेरा पानी कहाँ जाता या उससे क्या लाभ होता है । मुझे निःस्वार्थ होकर पानी को बहाते रहने से काम है, इसीसे मैं सदा स्वच्छ, तेजस्वी और प्रबल रहती हूँ । मैं न जानें कब से ऐसे ही बहती हुई चली आती हूँ, और अनन्त काल नक ऐसे ही बहती रहूँगी । मेरे पास अतुल जल की ऐसी पूँजी है जो सदा बढ़ती रहती है, कारण कि मैं स्वार्थी नहीं हूँ और उसे बहाती रहती हूँ । मैं अपने काम में—जल को बहाते रहने में—निरन्तर लगी रहती हूँ और लगी रहूँगी, उसके फल से मुझे प्रयोजन नहीं है । बहते रहना मेरा कर्तव्य है और मैं उसे अपने हृदय से पाल रही हूँ । ‘मेरा अधिकार

काम करने ही पर है, उसके फलों पर कदापि नहीं । मुझे अपने काम के फलों से प्रयोजन नहीं है और न में चुपचाप बैठना चाहती हूँ ।”\* यह सुनकर तालाब बहुत लज्जित हुआ और फिर उसे कुछ भी बोलने का साहस न हुआ ।

फल की आशा न करना—निष्काम रहना—ही वास्तव में हमारी सफलता की मात्रा को बढ़ाता है । जब मन लगा कर काम किया जायगा, तब इसमें सन्देह नहीं कि उत्तम फल मिलेगा, परन्तु कामनासहित परिश्रम करने ही अपना मन उस काम में लीन न होकर अधिकतर फल की ओर झुक पड़ता है और जहाँ उसे पूर्णतया सलझ होना चाहिए वहाँ पर उसका अश बहुत कम रह जाता है, इससे काम के साथ ही सफलता भी नाश को प्राप्त हो जाती है । ज्योंही फल पाने का स्वार्थ मनुष्य के चित्त में प्रवेश करता है, उसी क्षण वह उसे उत्तमता के साथ नहीं कर पाता है, कारण कि तालाब के जल के समान उसका अध्यवसाय और उत्साह गंदला हो जाता है, और उसमें नि स्वार्थ के साथ निरन्तर बहती हुई नदी की सफाई और चमक कभी नहीं दिखायी देती है । काम के प्रेमी बन कर, उसमें अपने को रोकर, उसमें लीन होकर, और उसके फल से बहुत

\* “कमण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन ।

मा कर्मफलहेतुभू मां ते संगोम्बवकमणि ॥”

(भगवद्गीता)

अधिक लालायित न होकर हमें अपने प्रत्येक छोटे और बड़े यत्तम में प्रवृत्त होना चाहिए ।

सब समय परिणाम ही के विचार से अपने चित्त को आकुल रखना चुद्धिमानी नहीं है । यह कभी न मन में लाना चाहिए कि कोई पुरुष हमारे अध्यवसाय की प्रशसा या निन्दा कर रहा है । फल चाहे भला हो या बुरा, एकाग्र-चित्त होकर उपयोगी कामों में तत्पर रहना हमारा धर्म है । सच पूछिए तो मन लगा कर किया हुआ काम निश्चय के साथ उत्तम फल देगा । यह सदा ध्यान रखिए कि तुच्छ इच्छाएँ और व्यर्थ आशाएँ हमारी उज्ज्ञति और सफलता के प्रतिबन्धक मात्र हैं । लीन हो जाने से काम में सफलता मिलती है और मनुष्य को हार्दिक सन्तोष तथा अनिर्वचनीय आनन्द होता है, कोई भी पारितोषिक इस सन्तोष और आनन्द की समता नहीं कर सकता है । “पहले पहल परि श्रम करके हमें अभीष्ट फल पाने की पात्रता या योग्यता प्राप्त करनी चाहिए और तब उसके लिये अभिलाप करनी चाहिए ।”\* यदि हमसे पूछिए, तो हम यह कहेंगे कि योग्यता अवश्य सम्मादित कीजिए, परन्तु फल पाने की इच्छा कैसी ? जब आप मैं पात्रता वर्तमान है, तब उससे उत्पन्न फल स्वयमेव आपके पास दौड़ता हुआ आयेगा, आप चाहे उसकी इच्छा करे या न करे । इस दशा में यदि आप सफलता और उज्ज्ञति से दूर भागि पएगा, तो भी ये आपका पीछा न छोड़ेंगी । यदि आप मैं योग्यता

\* “First deserve and then desire”

का श्रीपक जल रहा है, तो फलरूपी पतने और कीड़े अपने आप उड़ उड़ कर आप पर गिरेंगे । जहाँ साफ़ और मीठा जल बह रहा है वहाँ हजारों मनुष्य अपने आप ही अपनी प्यास बुझाने के लिये दोड़े गे ।

अपने अहभाव—इस भाव को कि “मैं हूँ”, “मैं कर रहा हूँ” इत्यादि—को निष्काम-परिथ्रमरूपी शूली पर चढ़ा दीजिए, और देखिए कि फिर कैसी उत्तम सफलता मिलती है । भक्त शिरो-मणि प्रह्लाद को उनके साथी एक साधारण बालक भाष्र समझते थे, परन्तु जब उन्होंने अपने को भुला दिया, अपनी सच्चा को श्रीरामचन्द्रजी की विशद आत्मा में निमग्न कर दिया और परमामा के तेज में अपने शरीर को स्याहा कर दिया, तब हाथों उन्हें न कुचल सका, विष उन्हें न मार सका और तलवार उनका गला न काट सकी । वह निष्काम थे, और उनमें अहभाव का अभाव ही गया था, इसी कारण से उनमें यह अलौकिक घल आ गया और उन्होंने अपने तेज से सभी को आश्चर्य में डाल दिया ।

फल का स्याग ही हमें सफल चोर तेजस्वी बना सकता हे । इसी में वह शक्ति है जो हमें उत्तम और प्रतापी बना सकती है । जब आप कोई सफेद रंग की चीज देखते हैं, तब कभी आपने यह भी विचार किया हे कि कौन सा गुण उस घस्तु को यह रंग देता हे । आपको सुन कर आश्चर्य होगा कि निष्कामता और स्याग ही उसे सफेद बना रहा है । सूर्य की झिरणों

से सातों रग नाना प्रकार की वस्तुओं में सक्रान्त होते हैं । इनमें से जो पदार्थ जिस रग की किरण को अपने में नहीं खीँच लेता है और त्याग देता है उसका वही रग हो जाना है । इसी प्रकार से जो चीज सात रगों की किरण में से किसी को भी अपने में नहीं सक्रान्त करती है, वरन् सभी का त्याग कर देती है, उसी का वर्ण इसके प्रताप से चन्द्रमा की ज्योत्स्ना के समान श्वेत होता है । ऐसे ही जो चीजें कुछ भी नहीं त्यागती हैं, वरन् सभी किरण को अपने में खीँच लेती हैं, उन्हीं का सारा शरीर काला हो जाता है । यदि आपको अपने कामों में सफल, यज्ञों में उन्नत और ससार में तेजस्वी बनना है, तो त्याग और निष्कामता सीखिए, नहीं तो सभी कुछ ग्रास करने का उद्योग करते ही सिवा कालेपन के और कुछ भी हाथ न लगेगा ।

सदा स्मरण रखिए कि यदि आप किसी फल या पदार्थ के पीछे,—उसे पाने के लिये, दैडिएगा, तो वह आगे ही आगे भागता जायगा और आपको न पकड़ मिलेगा, परन्तु उसकी ओर पीठ केर दीजिए और नब देखिए वह स्वयमेव आपके पीछे दौड़ेगा । ग्रातःकाल के समय धूप में अपनी छाया को पकड़ने का यज्ञ कीजिए, वह कदापि न मिलेगी । जितना ही ज्यादा आप उसके पीछे दैडिएगा उतना ही वह आपके आगे भागती जायगी, परन्तु इक बार आप उसकी ओर पीठ फेर दीजिए, उसे त्याग दीजिए, और उससे विमुख हो जाइए, तब वही छाया अपने आप ही आपके पीछे दौड़ेगी और आपको पकड़ने का

यह करेगी । यदि उस समय आप भाग कर उससे पीछा छुड़ाइएगा, तो भी वह आपका पल्ला न छोड़ेगी । ठीक यही दशा प्रताप, गौरव, सौभाग्य और उत्कर्ष की है । पूरे मनोयोग के साथ परिश्रम कीजिए और इनकी ओर से निष्काम रहिए, तब ये सबके सब आपके पीछे दैखेंगे ।

### तीसरा रहस्य—प्रेम ।

इस छोटे से शब्द में अनुल बल भरा हुआ है । विना प्रेम के हमारे सब काम, हमारी सब आशाएँ, और हमारे सब यत, यहाँ तक कि हमारा सब जीवन, नीरस और तिरपयोगी हैं । यह प्रेम ही नक्षत्रों का नवीनता, वृक्षों का विविधता, पुष्पों का प्रकृत्या, सर्गीत का सरसता, खियों का सुन्दरता, और पुरुषों का प्रकृष्टता देता है । यही पृथ्वी, आकाश और पाताल में साम्राज्य कर रहा है । यही अपने तेज से सारे ससार को एक नियम में बाधे हुए है ।

किसी से प्रीति के साथ व्यवहार करते समय यह न समझना कि वह यार है तथा मैं यार हूँ, दूसरे की आत्मा में अपनी आत्मा को पेसा निमग्न कर देना कि कुछ भी भेद न रहे, अथवा सबके साथ में अपनी आत्मा को एक कर देना ही प्रेम है । जहाँ पर परिचता, विश्वास और अभेद है, वहाँ पर प्रेम है । रक्ती भर भी भेद के होते ही—धोड़े से भी अन्तर के आते ही—प्रेम हजारों को स दूर भाग जाता है । माता और पिता, भाई और

बहिन, बेटा और बेटी, नाती और पोता, स्वजातीय और सम्बन्धी, तथा अडोसी और पडोसी सभी से पेक्ष्य भाव रखना प्रेम को उद्घात बनाने के लिये पहला यज्ञ है। इसी प्रकार सफलता हृदय की उदारता बढ़ती है और अन्त में मनुष्य मिथ और शब्द, देश और विदेश किसी में भी भेद नहीं मानता है, उसके लिये सब उसी के हैं और वह सबका है। उसके लिये “यह अपना है, वह पराया है, यह केवल सकीर्ण हृदयवालों का विचार है, कारण कि उदार-चरित मनुष्यों के लिये सारा ससार ही उनका कुटुम्ब है।”\*

इस प्रकार के मनुष्यों के लिये सफलता पाना बायें हाथ का खेल है। इनका न तो कोई शब्द है, जो इनके कामों में अड़ चन लगावे, और न कोई दूसरा ही प्रतिबन्धक हो सकता है, क्योंकि प्रकृति तक इनका साथ देने का तेयार रहती है। प्रेम पूर्ण हृदय प्राय निष्काम मनोवृत्ति ही के साथ में रहता है। इस दशा में मनुष्य जो काम करेगा उसी में उसे पूरी सफलता मिलेगी। जिना प्रेम के द्वारा पवित्र हुए हमारा परिश्रम कल्पित रहता है। पूरी सफलता पाने के लिये हमें अपने हृदय को प्रेम से सरस तथा यतों को उससे पवित्र बना देना चाहिए।

\* “अय निज परो वेति गणना लघुचेतसाम् ।  
उदारचरितानन्तु वसुधैव कुटुम्बकम् ॥”

## चौथा रहस्य—प्रसन्नता ।

पिना चिन्ताचोर और दुखो से छुटे हुए हम प्राय किसी भी काम में सफल नहीं होते हैं। दुख और चिन्ता से बढ़ कर हमारे लिये कोई भी हानिकर घस्तु नहीं है। ये हमारी उम्रति के पूरे प्रतिशत्त्वक हैं। जब तक हम अपनी मनोवृत्ति को इन दोनों व्याधियों से न अलग रखेंगे, तब तक हमारे लिये कोई आशा नहीं है। जिस मनुष्य ने सदा प्रसन्न रहने का स्वभाव सीख लिया है उसके लिये सफलता सुलभ हो जाती है।

हमें चाहिए कि हम अपनी बुद्धि को सिर रखे और सुख या दुख से उसे प्रिचलित न होने दे। यह स्मरण रखिए कि पानी के समान ये भी अपना तल बराबर रखते हैं। जितनी ज्यादा ऊँचाई से आप पानी को गिराइएगा उतनी ही ऊँचाई तक वह फौदारे में फिर ऊपर को उठेगा, इसी प्रकार से आप सुख पाकर जितना ज्यादा आनन्द से प्रफुल्लित हो जाइएगा उतना ही ज्यादा आपको दुख पाकर शोक से दबना पड़ेगा। यदि आपने यह सोख लिया है कि चाहे कितना बड़ा दुख हो, परन्तु उसे पा कर हम शान्त और प्रसन्नचित्त रहेंगे, तो ससार में किसी में भी—परमात्मा तक मैं—यह शक्ति नहीं है कि वह आप का उत्साह तोड़ सके। दृढ़ चित्त मनुष्य से भगवान् तक हार गये हैं। “वही पुरुष सिरबुद्धि है जो दुखो से बहुत

व्याकुल न हो जावे, सुखो के लिये अपने मन को बहुत न चलावे,  
चौर जो आसकि, भय और क्रोध इन सबों से अपने को अलग  
रखें—अपने ऊपर इन तीनों का प्रभाव न जमने दे ।”\* इस  
प्रकार का ही मनुष्य सदा प्रसन्न चित्त रह सकता है और तभी  
चह सफल होकर उन्नति के मार्ग पर आगे बढ़ सकेगा ।

जब हम में ममता की मात्रा बहुत बढ़ जाती है, हम प्रत्येक  
बात में “यह मेरा है” और “यह तेरा है” इस भाव को अपरि-  
मित रूप से मानते हैं और अपनी मनोवृत्ति को तुच्छ विचारों से  
नीच बना देते हैं, तभी हम आकुलता, फ्लेश और दुःख का  
आयेट होते और अपने जीवन को नोरस, निस्सार और निरप-  
योगी बना देते हैं । हमें चाहिए कि हम अपनी मनोवृत्ति को  
ऊँचो, विचारों को विवेक पूर्ण और अभिलापों को पवित्र  
बनावें, तब हमें सदा प्रसन्न-चित्त बने रहने में विशेष अड्डन  
न होगी । ममता और तुच्छना के साथ सुख में या स्नेह में  
लिप्त होने पर ज्योही कोई प्राणी या पदार्थ किसी कारण से हम  
से अलग हो जाता है, ज्योही हमारे दुख और व्याकुलता की  
सीमा नहीं रहती है । इन दोषों से हमें सदा बचना चाहिए ।  
जब प्रसन्न चित्त रहने का स्वभाव पड़ जाता है, तब दुख

\* “दु देवनुद्विमना सुखेषु विगतस्तुह ।  
वीतरागभयक्रोध स्थितधीमुर्निरच्यते ॥”

पैर व्याकुलता पहिले तो भय से पास तक नहीं आते हैं, पैर चादि आये भी, तो उनमें बल नहीं रहता है। इस प्रकार से वे हम पर अपना प्रभाव नहीं डाल सकते हैं। “प्रसन्नता के समय अपने आप ही सब दुखों का नाश हो जाता है और प्रसन्न-चित्त मनुष्य की बुद्धि शोध ही फिर सिर हो जाती है।” \*

इस जगत्प्रपञ्च की रगभूमि में सब कामों को निस्सार पैर क्षणिक नहीं, बरन उन्हें सारथुक पैर स्थायी समझ कर सब कुछ कीजिए, परन्तु उनमें लिप्त होने से अपने को सदा बचाये रहिए। आसक्त होते ही आप पर सुख आग दुख अपना अधिकार कर लेंगे। सब कामों को करते हुए भी स्वयंसेव उनके दर्शक रहिए, अथवा जिस भाँति से नाटक में खेलते समय न अपने सुन्दर, दुख, भय, कोध इत्यादि के मनोभावों को घास्तव में ज्यों का त्यों दिया कर भी अपनी आत्मा को उनसे अलग रखता है, वैसे ही आप इस ससार के बड़े नाटक में खेलिए। जेसे नाटक में वास्तव में न कोई किसी का पिता, न कोई किसी की माता पैर न कोई किसी का पुत्र है, न कोई कहों से आया है पैर न कोई कहों जायगा, तथा न कोई उत्पन्न होता और न

\* “प्रगाढे सर्वदु धानां हानिरम्योपजायने ।

प्रसन्नचेतसो ध्यायु बुद्धि पर्यन्तिष्ठत ॥”

कोई मरता है, ठीक वही दशा इस ससार की भी समझिए और जीवन-मरण तथा सुख-दुःख की झूठी आग में अपनी प्रसन्नता की आहुति कभी न दीजिए । यहाँ पर यही अपना कर्तव्य है कि जीवन भर हम अपने निदिष्ट नाटकीय काम को उत्तमता-पूर्वक करें और उसकी उपयोगिता को भली भांति दिखा कर पूरी सफलता पावें । “किसी कारण से भी (इसमें) हमारी प्रतिष्ठा या अप्रतिष्ठा नहीं होती है । हमें अपने काम को उत्तमतया करना चाहिए, इसी में हमारा गौरव है ।”\*

प्रसन्नचित्त होकर काम करने में हमें सहायता की कर्मनहाँ रहती है । सुखी रहना मनुष्य के लिये प्राकृतिक है औ दुखी रहना इसके विरुद्ध, इसलिये ऊँची मनोवृत्ति के साथ प्रसन्न होकर काम करने से प्रकृति तक पूरे तोर से अपने साथ देती है । मन लगाकर काम करते समय अपनी आत्मा को भूल जाना चाहिए, तभी उत्तम फल मिलेगा, रहा यश औ लाभ, सो अपने आप ही आपके पीछे दौड़ेगा । आप अपने कर्तव्य भलीभांति कीजिए और प्रसन्न-चित्त रहिए । जो उसके आवश्यक फल हैं वे अपने आप ही होंगे, आप चाहे उनके लिये चिन्ता करें और चाहे उन्हें वसा ही छोड़ दें हमें अपने कर्तव्य के पालन से कभी न घबराना चाहिए ।

\* ‘Honour and disgrace from no condition arise,  
Act well your part therein honour lies’

## पाँचवों रहस्य—निर्भयता ।

मनुष्य को सदा निःडर रहना चाहिए । कोई भी विपत्ति या काम अपने सामने आवे उससे कदापि न भयभीत होना चाहिए । मनुष्य विपत्तियों को खोर कठिननाश्चों को अपने पैरों के नीचे कुचलने के लिये जन्म लेता है, न कि स्वयं उनसे कुचले जाने के लिये । ये उसकी बुद्धि खोर बल की फसाई है । जो मनुष्य इनसे दब जाता है वही कायर है खोर वही अपने जीवन को सत्यानाश कर देता है, इसके पिछले जा इनकी धज्जियाँ उड़ा के विजय खोर सफलता फो पाना है वही वीर है खोर वही अपने साथ ही अपने देश की भी उन्नति करना है । वह विपत्तियों से निकल कर तपे हुए सोने के समान दूना चमकदार होजाता है ।

कोई भी घात हो, कोई मामला हो, या कोई दुःख हो सदा अपने चित्त को निश्चाकु रखना चाहिए । शाकु के आते ही रस्सी सौंप खोर छोटी सी भाड़ी भी “ भूत ” घन जाती है । घास्तव में भय कोई पदार्थ नहीं है । अपनी मनोवृत्ति को ऊँची रखने से हमारे चित्त में शका को स्थान न मिलेगा, खोर तब भय का नाम तक हमारे पास नहीं आ सकता है ।

मनुष्य अपने आप ही अपनी दशा को शोचनीय बना लेता है । अपने को हृदय के साथ निर्भय बनाइए, फिर किस में शक्ति है जो आपका साहस तोड़ सके ? इन्हें का इन्द्रासन भले ही

डिग जावे, परन्तु आपका पुष्ट हृदय नहीं हिल सकता है । किसी भारी दुख को देख कर चित्त को कभी न छोटा कीजिए और दूने बल से उसके टुकड़े टुकड़े कर डालिए । ऐसे समयों में सदा स्मरण रग्निप कि ईश्वर ने निस्सन्देह हमारी विद्या, वुद्धि और बल का बहुत ही बड़ा सम्मान किया है, तभी तो उसने हमारी परीक्षा के लिये हमें इतनी बड़ी विपत्ति छोलने को दी है । उसको पेरों से कुचल कर और फिर दूने तेज से उठ कर हमें परमात्मा को भली भाँति दिखा देना चाहिए कि हम उस प्रतिभा और विश्वास के योग्य हैं । जिनका पात्र उसने हमें समझा है । क्या आप नहीं देखते हैं कि अपने यहाँ बड़ी कठिनाई का काम सदा बड़े वुद्धिमान् और अनुभवशील मनुष्य ही को सौंपा जाना है ? इस दशा में यदि ईश्वर ने हमें किसी विपत्ति, किसी कठिनता, या किसी परीक्षा के योग्य समझ कर हम को किसी बड़ी उलझन में या किसी बड़े दुख में डाला हे, उससे भय क्यों ? वह तो वास्तव में हमारी योग्यता की कसौटी है ।

### छठा रहस्य—आत्मविश्वास ।

“जिस मनुष्य में तेज है वही बलवान् है । वडे ढोलपाल से कुछ भी नहीं होता हे ।”\* इसी उक्ति से आत्म विश्वास की महिमा का पता लगता है । कहाँ पदाड़ के समान शरीरवाला

\* “तेजो यस्य विराजते स यलवान् स्यूलेपु क प्रत्यय ।”

(भृहरिशतकम्)

हाथी और कहाँ दुबला पतला सिंह, परन्तु यह अपने तेज और बल में पूरा विश्वास रखता है, इसलिये यह क्षण भर में तड़प कर उसके सिर पर दिखायी देता और उसे पछाड़ देता है । कई हाथी मिलकर भी एक सिंह का सामना करने की हिम्मत नहीं रखते हैं, कारण कि उनमें आत्मविश्वास का नाम तक नहीं होता है ।

हमारी आत्मा अनादि, अनन्त, अप्रमेय, अपरिमित, सर्व व्यापी और सर्वशक्तिमान् परमात्मा की सत्ता का एक सजीव और तेजस्वी अश है, इसलिये प्राय ये सभी गुण हममें थोड़े-बहुत होने चाहिए । परिमित ससार में परिमित शक्तियों को देख कर हमें अपना चास्तिक स्वरूप कभी न भूलना चाहिए । हम उसी आनन्दमूर्ति और बलशाली जगदीश्वर का अश हैं जो सारे ससार में अपना प्रकाश दिखा रहा है । कोई कारण नहीं कि हम अपने को परिमित, परिष्कृत और परिमिटिव मान वेंठें । ये उलटी सीधी बाते मान वैठना ही हमारे जीवन को नष्ट कर देता है । यह सदा स्मरण रखिए कि “जैसा आप अपने को समझिएगा ठीक वैसे ही आप निस्सन्देह हो जाइएगा ।”\* कोई भय का कारण न हो और आप अपने को भयभीत मान वैठिए, फिर क्या है उसो दम भय आ दबायेगा । यह हमारा प्रत्यक्ष अनुभव है कि कितना ही बड़ा सुप हो,

\* Just as you think, so you are bound to be

डिग जावे, परन्तु आपका पुष्ट हृदय नहीं हिल सकता है । किसी भारी दुख को देख कर चित्त को कभी न छोटा कीजिए और दूने बल से उसके टुकड़े टुकड़े कर डालिए । ऐसे समयों में सदा स्मरण रखिए कि ईश्वर ने निस्सन्देह हमारी विद्या, बुद्धि और बल का बहुत ही बड़ा सम्मान किया है, तभी तो उसने हमारी परीक्षा के लिये हमें इतनी बड़ी विपत्ति झेलने को दी है । उसको पैरों से कुचल कर और फिर दूने तेज से उठ कर हमें परमात्मा को भली भाँति दिया देना चाहिए कि हम उस प्रतिभा और विश्वास के योग्य हैं । जिनका पात्र उसने हमें समझा है । या आप नहीं देखते हैं कि अपने यहाँ बड़ी कठिनाई का काम सदा बड़े बुद्धिमान् और अनुभवशील मनुष्य ही को सौंपा जाता है ? इस दशा में यदि ईश्वर ने हमें किसी विपत्ति, किसी कठिनता, या किसी परीक्षा के योग्य समझ कर हम को किसी बड़ी उलझन में या किसी बड़े दुख में डाला हे, उससे भय कैसा ? वह तो चास्तव में हमारी योग्यता की कसौटी है ।

### छठा रहस्य—आत्मविश्वास ।

“जिस मनुष्य में तेज है वही बलधान् है । बड़े डीलपाल से कुछ भी नहीं होता है ।”\* इसी उक्ति से आत्म विश्वास की महिमा का पता लगता है । कहाँ पहाड़ के समान शरीरवाला

\* “तेजो यस्य विराजते य बलधान् स्थूलेषु क प्रत्यय ।”

(भर्तु हरिशतकनय)

हाथी और कहाँ दुबला पतला सिंह, परन्तु यह अपने तेज प्रेरणा  
बल में पूरा प्रिश्वास रखता है, इसलिये यह क्षण भर में तड़प  
कर उसके सिर पर दिखायो देता और उसे पठाड़ देता है ! कई  
हाथी मिलकर भी एक सिंह का सामना करने की हिम्मत नहीं  
रखते हैं, कारण कि उनमें आत्मप्रिश्वास का नाम तक नहीं  
होता है ।

हमारी आत्मा अनादि, अनन्त, अप्रमेय, अपरिमित, सर्व  
व्यापी और सर्वशक्तिमान् परमात्मा की सत्ता का एक सजीव  
और तेजस्वी अशा है, इसलिये प्राय ये सभी गुण हममें थोड़े-  
बहुत होने चाहिए । परिमित सूक्ष्मार में परिमित शक्तियों को  
देख कर हमें अपना वास्तविक स्वरूप कभी न भूलना चाहिए ।  
हम उसी आनन्दमूलि चार बलशाली जगदीश्वर का अशा हैं जो  
सारे सूक्ष्मार में अपना प्रकाश दिखा रहा है । कोई कारण  
नहीं कि हम अपने को परिमित, परिहृष्ट और परिमार्दित  
मान वैठें । ये उलटी सीधी बाते मान घेठना ही हमारे जीवन  
को नष्ट कर देता है । यह सदा स्मरण रखिए कि “जैसा आप  
अपने को समझिएगा ठीक वैसे ही आप निस्सन्देह हो  
जाइएगा ।”\* कोई भय का कारण न हो और आप अपने को  
भयभीत मान वैठिए, फिर क्या है उसी दम भय आ दवायेगा ।  
यह हमारा प्रत्यक्ष अनुभव है कि कितना ही बड़ा सुख हो,

\* Just as you think, so you are bound to be

परन्तु उस समय आप उस को दुखित मनुष्य की हाए से देखिप, और तब तुरन्त दुख ही दुख दीयेगा । इसी तरह से महाविपति में भी चित्त को शान्त रख कर उसे सुख-पूर्ण नेत्रों से देखने का यत्ता कीजिए । उसी समय उस धोर दुख के बादल धीरे धीरे फटने लगेंगे और चित्त में आनन्द का सचार आरम्भ हो जायगा । करोड़पति मनुष्य तक अपना जीवन प्राय रोकर विताते हैं और एक परिश्रमजीवी, जो दिन भर में ३५ कमा कर सायद्गाल में बाजरे की रोटी धोर नमक खाता है, अपनी रात को ऐसी चैन से काटता है जो राजाओं और महाराजाओं के भाग्य में भी घिरला ही लिखी होती है । यह सब आत्मविश्वास और मनोवृत्ति का प्रताप नहीं तो और क्या है ?

विचार करने से यह स्पष्ट रीति से ज्ञात होगा कि कोई चस्तुविशेष या दशाविशेष सुख या दुख की सामग्री कदापि नहीं है, बरन हम अपनी पवित्र या दूषित, और ऊँची या नीची मनोवृत्ति के अनुकूल अपने को सुखी या दुखी मानने लगते हैं । इसी बात को समझ कर हमें आत्मविश्वासी बनना चाहिए । हमें अपनी विद्या अपनी वुद्धि, अपने छल, अपने प्रताप, अपनी उपयोगिता और अपनी प्रतिभा में पूरा विश्वास रख कर सम्प्ल काम करना और जीवन बिनाना चाहिए । बिना आत्म-विश्वास के योग्यता होने पर भी किसी काम के करने का साहस न होगा और उस को आरम्भ करने पर

उनमें सफलता न मिलेगी, इसके सिवा सब समय ग्राकुलता, भय और कोध, तथा दुःख, विपर्ति और हृषेश के विचारं चित्त को दबाये रहेंगे और समस्त जीवन को तदस नहस कर देंगे ।

यही सोचते रहना कि “मैं दुखी हूँ” “मैं दरिद्री हूँ” “मैं अभागा हूँ” इत्यादि वास्तव में मनुष्य को सत्यानाश कर देता है । वह जो कुछ सोचेगा वही सचमुच हो जायगा । यदि कोई वुरे विचारों को, वुरे भावों को, तुरी मनोात्मति को और तुरी दशा के भय को अपने पास कर्मी न आने दे और सर्वदा अपनी तेजस्विता, धीरता, प्रताप, योग्यता और शक्ति में हृष्ट निश्चय रखें, तो वह वास्तव में अभागा होने पर भी सुखी रह सकता है । हृष्ट आत्म-निष्ठा और हृष्ट आत्म विश्वास में वह शक्ति है जो बड़े बड़े देवताओं तक को कँपा सकती, प्रकृति को जीन सकती और सारे ससार पर अधिकार कर सकती है । अहा ! धोढ़ी देर के लिये अपनी आत्मा के सद्बै स्वरूप का ध्यान कीजिए—वह अनादि है, वह अनन्त है, वह सदानन्दमय है, वह सर्व शक्तिमान् है, वह सर्वव्यापी है, वह स्वतन्त्र है, वह अपरिमित है और वह तेजस्वी है । अपने चित्त में इन पिचारों का हृष्ट समावेश करने का अभ्यास ढालिए और तब आप अपने वास्तविक रूप को टेक्कर अपनी दशा को अवश्यमेव उन्नत कर सकेंगे ।

जब हम इन्हीं विचारों को अपने चित्त में स्थान देते थे और अपने को भगवान् का अश मानते थे तब हमारा प्रताप, हमारा तेज, हमारा गौरव और हमारा मान कुछ और ही था ।

अब अपने आपको यह समझ कर कि “मैं पाप हूँ, मैं पापकर्मी हूँ, मैं पापात्मा हूँ, और मैं पाप से पेदा हुआ हूँ । हे पुण्डरी काक्ष, मुझे बचाइए और मेरे सब पापों को हरिए !”<sup>\*</sup> और इसी प्रकार से मानों यह सोचकर कि “मैं दास हूँ, मेरे बाप-दादे दास थे, दासत्व ही मेरी त्रुति है, और मैं दास ही रहना चाहता हूँ । हे भगवन्, मुझे स्वतन्त्र कीजिए ।” हम लोग अपनी वर्तमान हीन अवस्था को पहुँचे हैं और दिनों दिन गिर रहे हैं । कहिए वैष्णव का कोई ठिकाना है । एक और तो स्वयं पापी और दास बनना, और दूसरी और तुरन्त ही भगवान् में कहना कि मुझे पुण्यात्मा और स्वतन्त्र बनाइए । भगवान् हम सभी को अपने तेज का अश देकर हमें पहले ही से पुण्यात्मा और स्वतन्त्र बना द्युके हैं, परन्तु जब हम स्वयमेव निरन्तर बनने और मानने लगते हैं कि हम वैसे नहाँ हैं और इस कारण से वास्तव में वैसे न रह जावें, तब इसमें ईश्वर का ध्या दोप है । परमात्मा चाहता है कि हम भाग्यशाली और तेजस्वी, प्रतापी और स्वतन्त्र हों, परन्तु हम अपने दूषित और अपवित्र चिचारों से अपना जन्म विगाड़ देते हैं ।

अपनी आत्मनिष्ठा से हम सब कुछ कर सकते हैं और अपने जीवन को उत्तम, सफल और उन्नत बना सकते हैं । हमें तुच्छ

\* “पापोऽहं पापकर्माऽहं पापात्मा पापसम्भव ।

त्राहि मा पुण्डरीकाच्च मर्वपापहरो भव ॥”

तदुपरान्त देवदूतों ने उस महात्मा से कहा—“क्या आप चाहते हैं कि आपको इस्तेस्पर्शी मात्र से रोगी को नीरोग कर देने की शक्ति मिल जाय ?”

महात्मा—“नहीं, मेरी इच्छा है कि ईश्वर ही यह करे ।”

देवदूत—“क्या आपकी यह कामना है कि पापियों को शिष्य बना कर (आप) उनके भटके हुए चित्तों को सत्यथ पर लगावें ?”

महात्मा—“नहीं, यह कार्य देवदूतों को स्वयं करना चाहिए ।”

देवदूत—“क्या (निज) गुण-द्वारा मनुष्यों के चित्तों का आकर्षण करते हुए आपको सहिष्णुता का आदर्श धनना रखेगा ? इससे तो ईश्वर की भी प्रशस्ता होगी ।”

महात्मा—“नहीं, क्योंकि यदि मनुष्य मेरी ओर आकृष्ट हो जावेंगे, तो ईश्वर से उनका चित्त हट जायगा । ईश्वर अन्य प्रकारों से प्रशस्तनोय है ।”

देवदूत—(सम्प्रान्त होकर) “फिर आप क्या चाहते हैं ?”

महात्मा—(सहसा) “मुझे इच्छा ही किस वस्तु की हो सकती है । बस, ईश्वर की कृपा चाहिए । क्या उसकी कृपा होने पर मेरे पास सब कुछ नहीं हो जायगा ?”

देवदूत—“तुम्हें कोई वर माँगना चाहिए, अन्यथा तुमको अवश्यमें न कोई वर प्रदण करना पड़ेगा ।”

महात्मा—“अच्छा, मैं बिना स्वयं जाने हुए सब के साथ भलाई किया करूँ ।”

## ३—एक पवित्र छाया ।

पूर्ण वर्ष समय में एक सिद्ध मनुष्य हो गये हैं। वह ऐसे पुख्यशील थे कि उनकी साधुता के अबलोकनार्थ चकित देवदूत इस ससार में आये। जिस प्रकार से नक्षत्रों के द्वारा ज्योति और पुर्णों के द्वारा सुगन्धि का सञ्चार हो जाता है वैसे ही वह महात्मा यिना स्वर्य जाने इत्स्तत धर्मामृत की घर्षण करते हुए भ्रमण किया करते थे।

उनका पूर्ण दिवस दान देने तथा क्षमा करने में व्यतीत होता था। यद्यपि वह बहुत शब्दों का उच्चारण नहीं करते थे, तथापि उनके मन्द हास, कृपा, सहनशीलता और दीनवत्सलता के द्वारा उनका पूर्ण प्रादुर्भाव होता था।

देवदूतों ने ईश्वर से प्रार्थना की—“प्रभो, इस महात्मा को चमत्कार कर दिखाने की शक्ति दीजिए।”

ईश्वर ने उत्तर दिया—“ठीक है, उस महात्मा से भी तो पूछो कि उसकी क्या अभिलाष है।”

\* दिसम्बर १६०५। “श्रीराघवेन्द्र” भाग २, संख्या ८, पृष्ठ १६६—१७१। प्राय यथापूर्व। स्वामी रामतीर्थनी के इसी नाम के (A Holy Shadow) लेख का अनुवाद।

तदुपरान्त देवदूतों ने उस महात्मा से कहा—“क्या आप चाहते हैं कि आपको हस्तस्पर्श मात्र से रोगी को नीरोग कर देने की शक्ति मिल जाय ?”

महात्मा—“नहीं, मेरी इच्छा ही कि ईश्वर ही यह करे ।”

देवदूत—“क्या आपकी यह कामना है कि पापियों को शिष्य बना कर (आप) उनके भटके हुए चित्तों को सत्यथ पर लगावें ?”

महात्मा—“नहीं, यह कार्य देवदूतों को स्वयं करना चाहिए ।”

देवदूत—“क्या (निज) गुण द्वारा मनुष्यों के चित्तों का आकर्षण करते हुए आपको सहिष्णुता का आदर्श धनना रुधेगा ? इससे तो ईश्वर की भी प्रशस्ता होगी ।”

महात्मा—“नहीं, क्योंकि यदि मनुष्य मेरी ओर आकृष्ट हो जावेंगे, तो ईश्वर से उनका चित्त हट जायगा । ईश्वर अन्य प्रकारों से प्रशस्तीय है ।”

देवदूत—(सम्मान्त होकर) “फिर आप क्या चाहते हैं ?”

महात्मा—(सहसा) “मुझे इच्छा ही किस घस्तु की हो सकती है । बस, ईश्वर की रूपा चाहिए । क्या उसकी रूपा होने पर मेरे पास सब कुछ नहीं हो जायगा ?”

देवदूत—“तुम्हें कोई घर माँगना चाहिए, अन्यथा तुमको अवश्यमें कोई न कोई घर ग्रहण करना पड़ेगा ।”

महात्मा—“अच्छा, मैं बिना स्वयं जाने हुए सब के साथ भलाई किया करूँ ।”

*t*

1

$\frac{V}{V_0}$

*t*

*t*

$\Delta$

## १—सूक्ष्म शिल्प ।

छ मनुष्यों का कथन है कि ससार में सुख नहीं है, इस कारण से वन में वास करके निर्वाण और मुक्ति के लिये प्रयत्न करना चाहिए। अन्य दल का विश्वास है कि ससार सुख से परिपूर्ण है, इससे दुष्ट लोगों से अपने को बचा कर खाना, पीना और आनन्द करना उचित है। उत्तर पक्षवाले सुखाभिलापियों में अनेकानेक भत है। किसी की राय में धन में, किसी की सम्पत्ति में मन में, और किसी के लिये धर्म में सुख है। ऐसे ही अन्य लोगों के लिये ज्ञान, कर्म, अध्या अधर्म में आनन्द है, परन्तु ससार में इस भाँति का मनुष्य कहाँ न देख पड़ेगा जिसे सांन्दर्भ में सुख न मिले। सब ही सुन्दर रमणी की कामना करते हैं, सुन्दर नारी को देख कर प्रसन्न और सुन्दर बालक का प्यार करने को विमुग्ध होते हैं, और ससार में अनेक मनुष्य सुन्दर पुत्र-वधु पाने के लिये अपना माथा छपाते हैं। सुन्दर पुष्पसमूह शश्या पर रख्ये जाते हैं। धर्माक्त ललाट जो दृपया पैदा

---

६ मह १६०८। “अभ्युदय” की एक संस्कृता, मह १६०८। अशत स्वरूप ।

करता है उससे सुन्दर गृह निर्माण करके और उसे सुन्दर अप करणा से सजा कर लोग अपने को गृहणी बनाते हैं। घर-बार, बरतन, पीतल और कासा जिस प्रकार से सुन्दर बन जायें वही यज्ञ करने को सब कठिवद्ध रहते हैं। सुन्दर वृक्षों से उद्यान वो सुशोभित करने, सुन्दर मुख पर सुन्दर मुसफ़्राहट देखने, और सुन्दर सोने के आभूषण से सुन्दरी को सजाने की इच्छा सबही को रहती है। जन-समूह इसी सुन्दरता पर सर्वदा मोहित रहते हैं, इस कारण से इस स्थान पर इसका निरूपण करना अनुचित न होगा।

**सौन्दर्य-तृष्णा** जितनी ही बलवती हो यह उतनी ही प्रशसनीय और परिपेषणीय भी है। जितने प्रकार का मानुषिक सुख होता है उन सब में यह उत्कृष्ट है, कारण कि यह पवित्र, निर्मल एव पाप-स्पर्श-शून्य है। सौन्दर्य का उपभोग केवल मानसिक सुख है, स्पर्शेन्द्रियों के साथ इसका कुछ भी सरोकार नहीं है। यह बात सत्य है कि अनेक समयों पर सुन्दर वस्तु का सम्बन्ध इन्द्रिय परितृप्ति से रहता है परन्तु **सौन्दर्य-जनित** सुख इन्द्रिय तृप्ति से अघश्यमेव भिन्न है। जिनना सतोष सोने के पात्र में जल पीने से होता है उतनी ही तृप्ति मिट्टी के भद्दे बरतन में पान करने से होगी, परन्तु स्वर्णपात्र में पानी पीने के अतिरिक्त सुख का भी अनुभव होत है। यही **सौन्दर्य-जनित** मानसिक सुख है। अपने ही सोने के गिलास में जल पीने से थोड़ा बहुत अहङ्कार-जनित सुख भी मिला होता है, किन्तु अन्य मनुष्य के स्वर्णपात्र द्वारा जो तृष्णा

निवारणातिरिक्त सुख होता है उसे सौन्दर्य जनित मात्र कहना पड़ेगा । दूसरे अधिकता में यही सुख गुरुतर है । शोभा प्रिय और काव्य रसिक जन इस प्रभेद के अनेक उदाहरण सोच सकते हैं । तीसरे अन्यान्य सुख फिर फिर अनुभव करने पर अप्रीतिकर होने लगते ह, किन्तु सौन्दर्य-जनित सुख चिरनृतन भौत चिरप्रीतिकर रहता है, अतएव जो लोग मनुष्य जाति के इस सुख को बढ़ावें वे मनुष्य जाति के परोपकारियों में परिगणित होने चाहिए । आप भले ही उस एक भिक्षुक को, जो सड़क पर गीत गाते हुए भिक्षोपार्जन कर रहा है, अपना उपकारी कहने में सफोच फरे, किन्तु उन महाकवि महोपकारी वाल्मीकिजी को, जिन्होंने करोड़ों मनुष्यों के अक्षय सुख और चिर्तोत्तर्पि का उपाय विधान किया हे, सब से उच्च ध्रेणी में रखना सर्वथा उचित होगा ।

जैसे मनुष्य के अन्यान्य अभावों को पूर्ण करने के लिये एक एक प्रिया है वैसे ही सौन्दर्याकांक्षा की परिपूर्ति के लिये भी प्रिया है । सौन्दर्य को पेदा करने के अनेक उपाय हैं । उपाय-भेद के अनुकूल उस प्रिया के पृथक् पृथक् रूप हैं । हम लोग जिन अनेक वस्तुओं में सुन्दरता का अनुभव करते हैं उनमें से बहुतों में वर्णमात्र होता है तथा और कुछ भी नहीं होता है—जैसे ‘आकाश’, कुछ में वर्ण के साथ आकार होता है—जैसे ‘पुण्य’, और कुछ ऐसी चीजें हैं जिनमें वर्ण, आकार और गति ये लीना होते हैं—जैसे ‘सर्प’ । इसी प्रकार से कुछ वस्तुओं में

वर्ण, आकार, और गति के साथ शब्द भी होता है—जैसे 'कोकिल'। इन साधनों के साथ अर्थयुक्त वाक्य की भी गणना कर लेनी चाहिए। इससे यह स्पष्ट है कि सौन्दर्य सुजन के लिये वर्ण, आकार, गति, शब्द, एवं अर्थयुक्त वाक्य मुख्य सामग्री हैं।

जिस सौन्दर्य-जननी विद्या का अवलम्बन वर्ण मात्र है वही चित्र विद्या है, और जिसका अवलम्बन आकार है वह विद्या दी प्रकार की होती है, जिस विद्या का उद्देश्य जड़ का आकृति सौन्दर्य है उसे स्थापत्य, तथा चेतन और उद्दिद्दि की सुन्दरता के उद्देश्यवाली कला को भास्कर्य<sup>\*</sup> कहते हैं। जिस सौन्दर्य जननी विद्या की सिद्धि गति ढारा होती है उसे नृत्य कहते हैं। ऐसे ही जिसका अवलम्बन शब्द है उसे संगीत नाया जिसका उद्देश्य अर्थयुक्त वाक्य है उसे काव्य कहना होगा।

काव्य, सङ्गीत, नृत्य, स्थापत्य, भास्कर्य, एवं चित्र ये छ सौन्दर्य उत्पन्न करनेवाली विद्याएँ हैं। इन्हीं का नाम सूक्ष्म शितप<sup>॥</sup> है। ये छ सौन्दर्य-जनयित्री कलाएँ मनुष्य के जीवन को सुभूषित करती और सुखमय बनाती हैं। भाग्यहीन मनुष्य इन कलाओं से विरोध करते रहते हैं। वे सुख का अनुभव करना नहीं जानते हैं, इस कारण से उनका बड़ा अनादर होता है आर वे अपने को सुखी नहीं बना सकते हैं। भर्तुहरिजी ने भी ऐसे भाग्यरहित जनों की वेडी खबर ली है। उनका कथन है—

“जो मनुष्य साहित्य, संगीत और कलाओं को नहीं जानता है वह सचमुच विना सीँग और पूँछ का पश्चु है।” \*

ऐसे महात्मा (अल्यात्मा १) विना पूँछ और सीँग के पश्चु घन कर जिनना सुखी हो सकने हैं उसे सर्वसाधारण को ग्रिचा रना चाहिए, परन्तु वे मनुष्य, जिन्हें (१) साहित्य (२) सङ्कीर्त और (३) कला इन तीनों का ज्ञान नहीं है, एकदम दोष के भागी नहीं हैं। उनके अध्यान के कई कारण हैं। इन घातों में मनुष्य की सामाजिक रीति और अर्थ शून्यता घट्टत कुछ व्याधान करती है। पूर्व पुरुषों के भद्रासन को न त्याग कर वे टीड़ियों की भानि उसी गर्ते में पड़े रहना पसन्द करते हैं। इसलिये स्थानाभाव से वहाँ पर परिष्कृति यार माल्दर्य साधन असम्भव हैं। इसके सिवा दारिद्र्य अपना को हाथ और पेर नहीं फेलाने देता है। वास्तव में सोन्दर्य अर्थ-साध्य है।

अब चलिए सामाजिक गीतियों पर ध्यान दीजिए। नागरिक महिलाओं के अलड़ार, विवाहों के ऊटपट्ठांग यर्चे और अन्य प्रकार के अपश्य सबही को करने पड़ते हैं। सब पर तुर्स यह कि शूकर शाला के समान गृह में घास करना पड़ता है। यदि कोई कोई सज्जन उपरोक्त देवों को हटा कर सुसज्जित गृह में घास करना आरम्भ करते हैं, तो वे अपनी निकुण्ठ अनुकरण

\* “साहित्य संगीत-कला-विहीन

साहात्पशु पुच्छविपाणीहीन ।”

करने की शक्ति को बहुत व्यादा बढ़ा देते हैं । वहाँ पर उनका उद्देश्य सौन्दर्य का अनुराग न होकर व्यर्थ वस्तुओं में द्रव्य का अपश्यय मात्र हो जाता है । एक विद्वान् ने ठीक ही लिखा है कि अपने यहाँ के अनेक रईसों के बैठक घर मकान न मालूम होकर किसी अंगरेज सोदागर की दुकान प्रतीत होते हैं । यह अत्यन्त लज्जास्पद विषय है । लाखों रुपये अपश्यय करके बड़े सामान खरीदे, और स्वदेश के करोड़ों रुपये लुटा दिये, तब भी कला कोशल सुदूर पराहत, सीधे सादे अंगरेज दुकानदार बन चेटे और इसके साथ ही रही-सही 'रियासत' भी काफ़ूर हो गयी ।

हमारा भारतवर्ष किसी समय सूक्ष्म शिल्प के लिये बहुत विद्यात था । अब आज उसे इस विषय में भी इतना गिरा हुआ देख कर चिना अधुपात किये चित्त नहों मानता है । इन कलाओं की उन्नति रुपये पर निर्भर है, अतएव रईस लोगों को इस बात के लिये अवश्य सचेष्ट होना चाहिए, जिसमें सूक्ष्म शिल्प भारतवर्ष से कहाँ एकदम न नष्ट हो जावे । न जाने कि रईसों को अंगरेज दुकानदार प्रतीत होने में क्या स्वाद आता है । शिल्प की समृद्धि जातीय अभिवृद्धि के हेतु अत्यावश्यक है ।

---

## २—अनुकरण । ६

त्तु अनुकरण नुराने ढंग के अनुभवशील और वयोवृद्ध महानु  
 पु भाव बहुधा आजकल के नयी ज्योतिवाले  
 लड़कों को अनेकानेक दोपों का आगार बत-  
 लाया करते हैं। वास्तव में वे पेसा द्वेष से नहीं, बरन अपनी  
 सहदयता के कारण, तथा नवयुवकों के अवगुणों को हटाने की  
 चुंच से, और उन्हें भगिण्य में देशहितेपो बनाने के लिये कहा करते  
 हैं। अनुभव प्राप्त मनुष्यों की मार्कों की बातों को तिरस्कार क  
 साथ हँसी में उड़ा देना वेसमझी का काम है। उनके उपदेशों  
 को मुन कर यदि कोई दोष अपने में सचमुच हो, तो उन्हें हटाने  
 का प्रयत्न करना चाहिए। यही चतुरता है और यही सुधार का  
 चिह्न है। आप में गुण वर्तमान हों, तो और भी अच्छी बात  
 है, परन्तु दोष निर्वाचन अत्यावश्यक है, क्योंकि जानने ही पर  
 आप अपने को दोपों से मुक्त कर सकते हैं।

नयी ज्योतिवालों में अच्छे अच्छे गुणों के साथ अनेक दोष  
 भी हैं। उन सबमें अनुकरणानुराग सर्वादिसम्मत है। कभी  
 कभी इसी दोष की अधिकता के कारण हमारा उपदास

\* मेलेम्यर १६०८ । ता० ११—४—१६०८ का “शम्युन्य” ।

किया जाता है। अनुकरण मात्र कदापि दूषणीय नहीं है। सिंगा अनुकरण के पहिले पहिल शिक्षा का और कोई उपाय नहीं है। जैसे छाटा लड़का बड़ा की बात-चीत को सुन कर बोलना और बड़े होने पर अन्य लोगों को काम करते हुए देख कर कार्य करना सीखता है वैसे ही एक असभ्य और अशिक्षित जाति सभ्य और शिक्षित जाति का 'अनुकरण' करके स्वयं शिक्षा प्राप्त करती है। यदि इस समय हम लोग अंगरेजों का अनुकरण करें, तो यह सगत और युक्ति सिद्ध हो सकता है। यह सच है कि आदिम सभ्य जाति ने विना अनुकरण के अपने को स्वत शिक्षित योर सभ्य बना लिया था, प्राचीन भारत और मिसर देश की सभ्यता का विकास किसी के भी अनुकरण से नहीं हुआ था, किन्तु कहिए कि यह वर्तमान योरोप देश को सभ्यता किस का फल है? यह वास्तव में रोम और यूनान देश के अनुकरण का परिणाम है। ठीक भी है, यदि योरोप के देशों ने पहिले ही से अनुकरण न किया होता, तो आज ये थोष दशा को कैसे प्राप्त होते?

लोगों का विश्वास है कि अनुकरण में प्रथम श्रेणी का उत्कर्ष प्राप्त होना असम्भव है। उसे पहिले साहित्य के सम्बन्ध में देखिए। ससार के अनेक उत्तमोत्तम काव्य अनुकरण मात्र हैं। ड्राईडेन का अनुकरण पोप ने किया, अनन्तर जान्सन ने पोप का अनुकरण किया। चर्जिल का काव्य होमर के प्रसिद्ध काव्य-ग्रन्थ का अनुकरण है। रोम का समस्त साहित्य यूनान के साहित्य का अनुकरण है।

विदेशी उदाहरण जाने दीजिए, अपने यहाँ देखिए कि महाभारत अनेक अशों में वाल्मीकि रामायण का अनुकरण मात्र है । अन्यान्य पुस्तकों में अनुकृत और अनुकरण के समस्त नायकों में जितना भेद पाया जाता है प्राय उतना ही राम और युधिष्ठिर में भी है । रामायण के अमितबलधारी, वीर, जिते न्दिष्य और भ्रातृवत्सल लक्ष्मण महाभारत में अजुन के रूप में परिणत हो गये हैं । ऐसे ही भरत और शत्रुघ्न नकुल और सह-देव हो गये हैं । महाभारत में भीम की नुतन सृष्टि में कुम्भकर्णी की कुछ छाया वर्तमान है । रामायण में राघव, महाभारत में दुर्योधन, रामायण में पिरभीषण, यहाँ पिंडुर, ऐसे ही अभिमन्यु का सगाठन इन्द्रजित् की अस्तिमडजा लेकर किया गया है । यहाँ राम भाई और पत्नी के साथ बनवासी हुए, महाभारत में युधिष्ठिर भाइयों और पत्नी के साथ बनचारी हुए । अथ च दोनों ही राज्यच्युत ह । एक की पत्नी हर ली गयी थी, दूसरे की पत्नी सभा क बीच में अपमानित हुई ।

इन दोनों काव्यों की सार कथा यही है कि युवराज को राज्यच्युत होकर बनवास करना पड़ा, और अन्न में लड़ने भिड़ने के बाद समर में विजय पाने पर फिर अपने राज्य पर अधिकार मिला । छोटी छोटी घटनाओं में भी इन दोनों में साहृदय वर्तमान है । मिथिला का धनुर्मङ्ग पांचाल के मत्स्यविन्धि में परिवर्तित हो गया है, तथा दक्षशरथ रुत पाप और पांडु कृत पाप में प्रिलक्षण ऐक्य देख पड़ता है । यदि आप की इच्छा न

हो, तो चाहे महाभारत को रामायण का अनुकरण न कहिए। परन्तु वास्तव में अनुकरण और अनुकृति में इतना घनिष्ठ सम्बन्ध विरला ही देखने में आवेगा।

अब समाज के सम्बन्ध में इस विषय पर हृषि डालिए। यूनान की सभ्यता का हाल जान कर रोमवालों ने उनका अनुकरण करना प्रारम्भ कर दिया। किकेरो की वाग्मिता वर्जिल का महाकाव्य, होरेस का गीतिकाव्य, सेनेका की धर्म नीति आदि इसी यूनान के अनुकरण के फल हे। इटली और फ्रांस के साहित्य ग्रीस और रोम के अनुकरण हे। यहाँ तक कि येरोप की शासन-प्रणाली और व्यवस्था शास्त्र सब ही रोम के अनुकरण हे। येरोप की आधुनिक स्थापत्य और चित्र विद्या भी रोम और यूनान के मूल से विशिष्ट हे। पहले इन सब में अनुकरण ही था, परन्तु अब इन सब रीतियों ने अनुकरण की अवस्था को छोड़ कर एक उन्नत और पृथक् भाव धारण कर लिया हे। प्रारम्भ में अनुकरण अनुकरण मात्र हाता ही परन्तु उसमें प्रतिभा का समावेश हो जाने पर वह एक स्वाधान भाव धारण कर लेता हे। ऐसे ही अभ्यास को सिर रखने से वह उत्कर्ष को प्राप्त हो सकता हे। जिस समय बालक विद्यारम्भ करता हे, नव पहले वह गुरु के लिखे हुए अक्षरों का अनुकरण करता हे, अनन्तर वह स्वतंत्रता के साथ लिखता है और बाद को प्रतिभाशाली होने पर वह स्वयं उत्कर्ष का प्राप्त कर सकता हे।

इन सब बातों के साथ यह भली भाँति स्मरण रखिए कि प्रतिभाशून्य अनुकरण कर्दर्य है । जिन लोगों में आविष्कारिणी उद्धि नहीं है और जो सदा अनुकरण ही किया करते हैं उनमें स्वतंत्रता कदापि नहीं देख पड़ती है । योरोप-देशीय नाटकों से इस बात का अच्छा उदाहरण मिलेगा । योरोप के सब नाटक-कारों ने यूनान के नाटकों का अनुकरण किया । इ गल्ड और स्पेन अपने प्रतिभाशाली अनुकरण से पार्थक्य और वेचिष्य प्राप्त करने में समर्थ हुए, तथा अन्य देशों में वही परागीन और निन्दनीय अनुकरण साफ भलक रहा है ।

उही अनुकरण निन्दनीय, अवाञ्छनीय, और अग्राह्य है जो प्रतिभा से रहित है । “वास्तव में प्रतिभागान् का अनुकरण अनुकरण ही नहीं बना रहता है, वरन् वह उसे ऐसा अपना लेता और अपनी स्थिति के अनुकूल कर देता है \* कि उन दोनों के पूर्वापर रूपों में बड़ा भेद हो जाता है ।” अक्षम यक्ति के अनुकरण से अधिक घृणाकर अन्य कोई वस्तु नहीं है । आज-कल के प्रचलित अनुकरणों में से अधिकाश विवेक और प्रतिभा में शून्य है । इसी कारण से वे निष्टुष्ट और निन्दा के योग्य हैं । दूसरे जिनमी अधिक प्रशृंति इन दिनों अनुकरणों की ओर देख पड़ती है वह अनावश्यक है । इन्हीं कारणों से बहुधा यह दृष्टि गोचर होता है कि लोग अनुकरण करने में अच्छी बातों को

ग्रहण करने के बदले बुरी बातें सीखना आरम्भ कर देते हैं। यह वास्तव में बड़े दुष्प का विषय है। जितने लोग दाणों के अनुकरण में प्रवीण दिखायी देते हैं उन्हें गुणों के ग्रहण में नहीं जान पड़ते हैं। यदि विचार के साथ उत्तम उत्तम बातों पर रीतियों का अनुकरण किया जावे, तो क्या ही अच्छा होगा ।

प्रतिभाशाली अनुकरण होने पर भी दो दोषों की सम्भावना है। उनमें से प्रथम विचित्रित्य का अभाव है। ससार में विचित्रता को देख कर एक प्रकार का सुख होना है। यदि पृथ्वीतल पर सब पदार्थ एक ही प्रकार के होते, तो जगत् इतना सुखमय कदापि न होता। यदि इस लोक में सब शब्द कोकिला के स्वर के समान होते, तो बतलाइए वास्तविक कोकिला की मधुर कण्ठधनि का क्या प्रभाव पड़ता ? मनुष्य में यह प्रश्नति वर्तमान है कि उसे विचित्रता से सुप्र मिलना है। अनुकरण में इस सुप्र का नाश हो जाना है।

दूसरे प्रत्येक काम का यह नियम है कि उसे नये रूप में बारबार करने से उत्कर्ष मिल सकता है। अनुकरण करने में पहलेवाले कायौं के प्राय समान ही बादवाला काम होता है। इसमें किसी प्रकार की नूतन धैर्य के लिये उद्योग नहीं किया जाता है, सुतरा अपनों प्रतिभा की उद्धति कठिनता से होती है। यह बात शिल्प, साहित्य, विज्ञान, सामाजिक कार्य तथा मानसिक अभ्यास सब ही में सत्य है।

मनुष्य के देह धारण का यह मुख्य प्रयोजन है कि उसकी शारीरिक और मानसिक प्रृत्ति की सामकालिक तथा यथोचित स्फुर्ति और उन्नति होती रहे । इन वृत्तियों में से अनेक उसकी सहायक होती हैं तथा कई अनिष्टकर भी होती हैं । मनुष्य अनेक हैं और प्रत्येक मनुष्य के लिये सुख भी बहुत प्रकार का है । उन्होंने सुखों की प्राप्ति के लिये अनेक प्रकार के उपायों के करने की आवश्यकता होती है । भिन्न भिन्न प्रकृति के लोग अनेक भाँति के उपाय करते हैं, इसलिये ससार में प्रवृत्ति-वैचित्र्य, कार्य-वैचित्र्य और चरित्र वैचित्र्य देखने में आता है । अनुकरण-प्रवृत्ति का यह फल होता है कि अनुकरण करने-वाला अपने आदर्श की प्रवृत्ति, उसकी कार्य परिपादी और चरित्र के बाहर कठिनता से जा पाता है । जब समाज का समाज एक किसी कार्यक्षम मनुष्य का अनुकरण करने लगता है, तब विचित्रता का नाश जरूर हो जाता है । इस दशा में मनुष्य-चरित्र में सर्वाङ्गपूर्ण स्फुर्ति नहीं होते पाती है, सब प्रकार के कार्य नहीं हो सकते हैं, और मनुष्य को सब तरह का सुख नहीं मिलता है—मनुष्यत्व असम्पूर्ण रह जाता है, समाज असम्पूर्ण रह जाता है, और मनुष्य जीवन असम्पूर्ण रह जाता है ।

अन्त में यह सदा ध्यान रखने के योग्य है कि प्रतिभाशाली अनुकरण ही ग्राह्य है । इससे अच्छे फलों की आशा रहती है । अनुकरण की अवस्था के समाप्त होने पर स्वतन्त्रता भी अपने

आप आ जाती है । यदि आवश्यक समय के हो जाने पर भी अनुकरण प्रवृत्ति बलवंती बनी रहे, तथा स्वतन्त्रता न आये, और मनुष्य ने स्वयमेव अपने लिये उसे समुचित बना कर विच्छिन्नता न पेदा कर ली हो, तो यह नीच अनुकरण प्रवृत्ति सर्वनाश का कारण हो सकती है और अत्यन्त निष्ठनीय तथा सर्वथा त्याज्य है ।

---

## ३—प्राचीन समय की भालक ।

द्रौपदी । \*

(१)

हे पुराने या नये जिस किसी हिन्दू काथ में  
चाहे विष्णु वा शंखचतुर्भुवन वा अन्य देवता देखिए सब आदर्श नायिकाओं और खियो  
के चरित प्राय एक ही सौचे में ढले हुए पाये  
जायेंगे । अपने अपने पतियों में रत, लज्जा-  
युक्त, सहनशील, और कोमल इवभाववाली ललनाएँ ही  
आदर्श मानी गयी हैं । इसी गठन के अनुसार महाकवि  
घाल्मीकि ने विश्वविमोहिनी सीता के चरित को खींचा है ।  
शकुलला, दमयन्ती, रक्षावली आदि उभाँ जानकीजी की छाया-  
माश्र हैं । किसी दूसरी भानि की रियाँ हमकेर अपने यहाँ  
काव्यों में बहुत कम दिखायी पड़े गी । जहाँ देखिए वहाँ सीता  
ही के अनुकरणों की भरमार है । आज भी जो लोग कोई नाटक  
या उपन्यास लिखने वाले हैं वे भट से उसी जनककुमारी का  
चित्र उनार लेते हैं । इस बात के कई एक कारण हैं । एक तो

\* आष्टोवर १६०८ । ता० १६-१० १६०८ का “अभ्युदय” ।

सीताजी का चरित्र अत्यन्त मधुर है, दूसरे आर्यजाति के मनुष्यों में इसी भाँति के जीवन की बड़ी प्रशंसा की जाती है और तीसरे यह कि आर्यललनाथों में इसी प्रकार का चरित्र सबसे ऊँचा गिना जाता है ।

केवल द्रौपदी में कहाँ सीताजी की छाया का भी पता नहीं है । चतुर महाभारतकार ने इस द्रौपदी में एक नये प्रकार की नायिका का चरित्र समठित किया है । सीता सब सती लियों में बहुत बढ़कर मानी जाती है, और पाँच पतिवाली द्रोपदी को भी श्रीघेदव्यासजी ने सती कह कर लिखा है । ठीक भी यही है । कवि का वास्तविक अभिप्राय यह है कि पति चाहे एक हो और चाहे पाँच हों, खी के लिये पति की उपासना ही उसके सतीत्व की पहचान है । सीता और द्रौपदी दोनों ही पक्षी और रानी के रूप में अपने अपने काम में तत्पर हैं और धर्मनिष्ठ हैं । इन में केवल इतनी समता है कि ये दोनों ही रानियाँ और कुल वधू हैं, परन्तु सीता रानी होते हुए भी विशेषतया कुल वधू हैं और द्रौपदी कुल-वधू होते हुए भी विशेषतया रानी है । सीता में लियों के सब कोमल गुण दियायी पड़ते हैं और द्रौपदी में खी-जाति के समस्त कठिन गुण—प्रचडता और तेजस्विता—साफ चमक रहे हैं । सीता श्रीरामचन्द्रजी के योग्य पक्षी थीं और द्रौपदी भी मात्र के लिये सुयोग्य थीं ऐन्डाणी । सीता को हरते समय राक्षस-राज रावण को कुछ भी कुश नहाँ उठाना पड़ा था परन्तु यदि कहाँ द्रौपदी को हरने के लिये लकेश आये होते, तो वह कीचक की तरह

अपने प्राण दोने अधिवा जयद्वय की नाई धरती पर पटक दिये जाते ।

पहले पहल द्वोपदी के स्वयंवर में आइए । राजा द्रुपद की पत्नी का यह प्रगा था कि जो कोई दुर्बध लक्ष्य में निशाना मार सकेगा उसी के साथ द्वोपदी का विवाह होगा । कन्या द्रुपदसुता सभा मठप में लायी गयी । दुर्योधन, जरामन्ध, शिशु-पाल आदि बड़े बड़े शूरवीर राजा पाणिप्रहण की लालसा से इकट्ठा हुए । एक पक करके सब ही निशाना लगाने को उठे, परन्तु किसी को भी सफलता न मिली । अन्य राजाओं के बीच में अङ्ग देश के राजा कर्ण भी लक्ष्य बेघने के लिये तैयार हुए । अब यहाँ पर काव्य रचनेवाले की चतुरता देखिए । उसका प्रयोजन तो यह है कि पाण्डवों के साथ द्वोपदी का व्याह होगा । अब बड़ा सकट उपस्थित हुआ । यदि रुहों कर्ण ने निशाना मार लिया, तो फिर पांडवों के साथ विवाह कैसा ? यदि कोई छोटा-मोटा कपि होता, तो उसने कर्ण को भी लक्ष्य-बिधन में अशक्त कह दिया होता, परन्तु चास्तव में कर्ण ही की तैजस्विना और धीर्य अर्जुन के पराक्रम का मानदण्ड है । कर्ण के प्रतिपक्षी होने और उनको द्वारा देने ही से महाभारत के प्रधान नायक अर्जुन के गोरघ की इतनी अधिकता है । किसी अन्य भुद्र कवि ने कर्ण को इस स्वयंवर में उठाया ही न होता, परन्तु ऐसा करने से काव्य की सर्वाङ्ग-सम्पन्नता में अवदय दोष आ जाता । जहाँ पर सुवदमा सुन्दर कुमारी के

लालच से सब राजा निशाना मारने को उठे थे वहाँ केवल कर्ण ही क्यों न उठते ?

महाभारतकार ने बड़े कौशल से लक्ष्य वेधने के लिये बल-शाली कर्ण को उठाया और उसके महापराक्रम को भी पहिले ही के समान अविच्छिन्न रखा । उन्होंने उसी समय और उसी उपाय से एक और बड़े भारी अर्थ को सिद्ध कर लिया—द्रौपदी के चरित्र को भी साफ तौर से प्रकट कर दिया । यदि योर कोई कन्या होती, तो विशाल सभामण्डप में बड़े बड़े राजाओं, वीरों और व्रद्धियों को देख कर चुपचाप बैठी रहती, किन्तु कुमारी द्रौपदी, कर्ण को निशाना लगाने के लिये तेयार देख कर तथा अपने पिता राजा द्रुपद और भाई धृष्टद्युम्न की रक्ती भर भी चिन्ता न करके, साफ बोल उठी —“हम इस सूत के लड़के के साथ कदापि न विवाह करेंगी ।” यह सुनते ही कुद्द होकर कर्ण बैठ गये । देखिए यहाँ पर कवि ने कैसी चतुरता से राजकुमारी के दुर्दमनीय दर्प को प्रकाशित किया हे ।

इसके बाद जुआ में जीत ली गयी द्रौपदी के चरित्र को देखिए । तेजस्वी और अभिमानयुक्त भीम, अर्जुन आदि ने अपने को ज्ञेय में हारने के बाद चूं तक न किया और दुर्योधन की अधीनता स्वीकार कर ली । यहाँ पर पतिपरायण पनी के लिये अपने स्वामी की तरह अधीन हो जाना ही उचित था, परन्तु दुर्योधन की सभा में अपना बुलावा सुन कर द्रौपदी ने तुरन्त सदेसा लानेवाले से कहला भेजा —“वहाँ सभा में

जाकर युधिष्ठिर से पूछा कि क्या वह सच-मुच अपने को और हमको जुए में हार गये हैं । इस हाल को पूरे तोर से जान कर हमको यहाँ से ले जाना । धर्मराज किस तरह से हार गये हैं यह जान लेने के बाद हम तुम्हारे साथ चलेंगी ।' द्रौपदी का यह स्पष्ट अभिप्राय है कि हम यकायक अधीनता न स्वीकार करेंगी । द्रौपदी के चरित्र में धर्मचरण और दर्प स्पष्टतया भलक रहे हैं । यहाँ पर हम दर्प को गर्व के अर्थ में नहीं, बरन तजस्तिता के अर्थ में लेते हैं । यह दर्प द्रौपदी में पूरी मात्रा से विराजमान था और जैसा साधारणतया देखने में आता है उसके धर्म का विरोधी न होकर एक पक्षके सहायक का काम दे रहा था ।

सभा में आने पर द्रौपदी का दर्प और भी अधिक प्रकाश को प्राप्त हुआ । वह दु शासन से बोली — "यदि इन्द्र तक तेरी सहायता करने को तैयार हो, तो भी राज पुत्र लोग तुझे न क्षमा करेंगे ।" इसने अपने स्वामियों की ओर इशारा करके कहा — "प्रतीत हाता है कि शात्र धर्म एक बारही नष्ट हो गया ह ।" और भीष्म आदि बड़े लोगों की ओर देय कर कहा — "जान पड़ता है कि भीष्म, द्रोण और महात्मा पिंडुर का कुछ भी अधिकार इस सभा में नहीं है ।" यह सब होते हुए भी अबला का तेज बहुत देर नहीं रुक सकता है । जिस समय कर्ण ने द्रौपदी को देखा कह कर इगत किया और दु शासन ने उसका चीर लांचना ग्राम्भ किया, तब द्रौपदी की प्रभा क्षीण हो गयी । भय खाकर उसने असहाय अवस्था में अशरण-

शरण कृष्ण का स्मरण किया — “हा नाथ । हा रमानाथ । हा वजनाथ । मैं कौरव-सागर में छूब रही हूँ । मुझे जल्द आ कर उबारो ।” यहाँ पर कवि थ्रेष्ठ श्रीवेदव्यासजी ने अपनी योग्यता का चूडात परिचय दिया है ।

आगे चल कर द्वौपदी के चरित्र को देखिए । जब हर ले-जाने की इच्छा से काम्यक वन में जयद्रथ अकेली द्वौपदी के पास आया, तब पहले तो उसके अभिप्राय को न जान कर द्रुपदसुता ने उसकी अतिथि सेवा की, परन्तु त्योही जयद्रथ ने अपनी दुष्ट इच्छा को प्रकट किया, त्योही बाधिन के समान गर्ज कर द्वौपदी ने उसको अपनी तेजस्विता का परिचय दिया । जयद्रथ ने इस पर कुछ भी नहीं ध्यान दिया और बला त्कार से उसे पकड़ने का यज्ञ किया । एक बार तो इस पिशाच राजा को भीम घैर अर्जुन की वीरपती ने अपने भुज बल के प्रताप से धरातल पर गिरा दिया, किंतु उसके बाद जयद्रथ ने बलपूर्वक द्वौपदी को रथ पर बिठा लिया । उस समय रोना घैर विलाप करना वीरागना के लिये अनुचित था । सिर चित्त घैर निर्भय हो कर वह रथ पर बैठ गयी । जब थोड़ी ही देर के पीछे जयद्रथ ने पांडवों के विषय में प्रश्न किये, तब वह निश्चक होकर दर्प के साथ अपने स्वामियों का गुण वर्णन करने घैर उनका परिचय देने लगी । उसे इस बात का रक्ती भर भी भय न हुआ कि मैं जयद्रथ के ही रथ पर बैठी हूँ । यह प्रसग महाभारत में घारंघार पढ़ने के योग्य है ।

## द्वौपदी ।\*

( २ )

द्वौपदी के चरित्र के सम्बन्ध में एक बड़ा ही जटिल प्रश्न है । यह तत्त्व सचमुच उसके जीवन की मध्य ग्रन्थि है, ऊपरी ऊपर यह बहुत प्रकाशवान् जान पड़ता है । वह प्रश्न यह है कि एक ही स्त्री के पांच पति हुए और उसे कुलठा कहने का कोई रास्ता नहीं मिलता है । हमारे योरोप-देशीय विद्वान् लोग इसका बड़ा कौतुक पूर्ण उत्तर देते हैं । वे कहते हैं कि भारतजासी लोग जड़ली ये चौर पहले इनमें स्त्रियों के बहुत व्याह हुआ करते थे, इसी कारण से पांच पांडों की केवल एक ही पत्नी थी । योरोप के आचार्य लोग और देशों के बारे में चाहे चुप भी रहें, परन्तु वे इस देश के बारे में मजेदार और ऊटपटोंग बातें कहने से नहीं चूकते हैं ।

थीवकिमचन्द्रजी कहते हैं — “हमारा यह विश्वास है कि सस्कृत साहित्य के बारे में जो कुछ योरोप के पिद्वानों ने लिखा है उसके चौर उनके बनाये हुए येद, दर्शन, पुराण, काय्य आदि के अनुवाद, टीका और समालोचना के पाठ करने की अपेक्षा साहित्य सस्तार में बढ़ कर महापातक नहीं हो सकता है । मूर्यना उपस्थित करने के लिये इससे सहज दूसरा उपाय नहीं है ।” ऐसे ही एक दूसरे साहब ने एक पुराने मकान में

\* आक्टोबर १६०८ । ता० ३०—१०—१६०८ का “अन्युदय” ।

नगी छों की मूर्ति को देय कर यह सिद्धान्त निकाला था कि पहले आर्य-जाति की सब खियाँ नगी ही रहती थीं। यह साहब लोगों के विचित्र सिद्धान्तों के विषय में हमें प्रसगवश ही कुछ कह देना पड़ा है। विशेष कहने के लिये यह सामन उचित नहीं है।

अब हम फिर वही द्वौपदी के पांच पतिवाला जटिल प्रश्न अपने हाथ में लेते हैं। इतना विचार कर लेना आवश्यक है कि चतुर कवि एक ऐतिहासिक घटना को विचित्र बनाने के लिये अपनी ओर से भी थोड़ी बहुत कल्पना करता है, परन्तु महा भारत की मुख्य कथा इतिहास ही है, इसमें ऊपरी कल्पना की आशका कैसी? यह सत्य है, किन्तु जब कवि ही इतिहासकार है और इतिहासकार ही कवि है, तब काय और इतिहास का मेल सब प्रकार से सम्भव है। सत्य कथा में भी कवि कुछ नमक मिर्च जरूर मिला देता है इसमें कुछ भी सन्देह नहीं है। इस तर्त्तव को ध्यान में रखते हुए द्वौपदी विषयक समस्या को समझना उचित होगा।

द्वौपदी को छोड़ कर आर्य लोगों के ग्रन्थों में कोई दूसरा बहु-विवाह का उदाहरण नहीं मिलता है। इस दशा में केवल एक उदाहरण से यह सिद्धान्त निकालना कि पुरानी प्रार्थजाति में बहु-विवाह प्रचलित था स्पष्ट रूप से असगत है। यह ठीक वैसे ही है कि यदि किसी देश में एक छ अंगुलीधाला या जन्मान्त्र मनुष्य पेदा हुआ हो और उससे इस बात के सिद्ध करने का

प्रयास किया जावे कि उस देश में सब लोग छ अंगुलीवाले अथवा जन्म ही से अन्धे हें । महाभारत में इस पाँच पति-धाली विचित्र घात को पहले जन्म के पापों का फल बतला कर काव्य-रचयिता ने इसकी अनुचित दशा का थोड़ा बहुत समाधान किया है । जो प्रथा समाज में निष्ठनीय मानी जाती हो थोर कहाँ भी प्रचलित न हो उसका पाण्डवों के तुल्य सत्कुल में पाया जाना निस्सनदेह आश्वर्य की बात है, इसलिये प्रतीत होता है कि इस समस्या में कोई न कोई गृद अभिप्राय अवश्य बर्तमान है ।

कई एक ऐसी बात है जो इस पाँच पतिवाली समस्या में किसी गहरे आशय को उिपा हुआ प्रमाणित करती है । द्रोपदी के पाँच स्वामियों से पाँच औरस लड़के हुए । किसी के दो या तीन औरस पुत्र क्यों नहीं हुए ? किसी के औरस कन्या भी क्यों नहीं हुई ? उन पाँचों में से कोई निस्सन्तान ही क्यों नहीं हुआ ? उन पाँचों लड़कों में से कोई राज्याधिकारी क्यों नहीं हुआ ? उनमें से सब ही क्यों मार ढाले गये ? वे सब एक ही बार अश्वतथामा के हाथ क्यों मारे गये ? दूसरे पक्ष में अभिमन्यु, घटोत्कच और वसुवाहन क्यों जीवित रहे ? यह प्रश्न हो सकता है कि यदि द्रोपदी के पाँच पतिवाली घात में कोई उिपा हुआ रहस्य है यार द्रोपदी वास्तव में केवल युधिष्ठिर की पत्नी थी, तो क्या योर चार पाण्डवों के व्याह नहीं हुए थे ? इसका उत्तर सचमुच कुछ फठिन जान पड़ता है ।

हम लोग यह जानते हैं कि भीम और अर्जुन के और विवाह हुए थे, परन्तु महाभारत से यह नहीं ज्ञात होता है कि नकुल और सहदेव के भी और व्याह हुए थे । केवल महा भारत में न मिलने से हम यह सिद्धान्त नहीं मान सकते हैं कि इन दोनों के दूसरे विवाह हुए ही न थे, क्योंकि महा भारत में युधिष्ठिर, अर्जुन और भीम मात्र प्रधान नायक हैं, और शेष दो नकुल तथा सहदेव उनकी छाया की तरह रहते हुए सब काम करते हैं । यदि उनके विवाह हुए भी हों, और कथा सम्बन्ध में इस विषय को प्रयोजन-रहित जान कर काथ-रचयिता ने इसे छोड़ दिया हो, तो क्या आश्चर्य है ? इससे यह बात प्रमाणित की जा सकती है कि द्वोपदीं वास्तव में युधिष्ठिर की पत्नी थी और अन्य चार पाण्डवों के और और भी विवाह हुए थे ।

अब यदि हम इस पांच पनिवाली जटिल समस्या को महा भारतकार की भावना मात्र समझे, तो यह प्रश्न हो सकता है कि गूढ़ अभिप्राय से कपि ने क्यों ऐसी विस्मयकारी कल्पना की ? यदि कोई बड़ा गहरा सिद्धान्त इसकी ओट में न होता, तो थ्रीवेदव्यासजी ने ऐसा कुटिल, मार्ग ही न स्वीकार किया होता । यदि साहब लोगों की तरह आप भी न कहने लगिए कि “छि ! यह तो बहु विवाह का खासा नमूना है,” तो आप आप हम इस गूढ़ आशय को समझने का यक्ष करे ।

पहले पहल किसी भी कवि ने निर्लिंपता का आदर्श बनाने का यज्ञ नहीं किया था । श्रीवेदव्यासजी ने वहे परिश्रम के साथ भगवान् श्रीकृष्ण को इस निर्लिंपता रूपी शक्ति से समाप्त करके अपनी चतुरना का परिचय दिया है । केवल एक ही नहीं, उन्होंने और भी दो चार ऐसे चरित्र समर्पित किये हैं कि जिनमें इसी निर्लिंप की भावा स्पष्ट भलक रही है ।

निर्लिंपता और वेराग्य का जो कुछ मर्म हमारे विचार में आया है उसे हम नीचे लिखे हुए गीता के श्लोक के अर्थ से स्पष्ट रीति से प्रकट करते हैं —

‘आसक्ति यौर विद्वेष से रहित तथा अपने वश में वर्तमान सकल इन्द्रियों के ढारा (इन्द्रियों क) सब विषयों का उपभोग करके सभी अत्मा शान्ति को प्राप्त होता है ।’\*

इसके अनुकूल निर्लिंप के हेतु इन्द्रिय विषयक उपभोग को रोक देने की आधिकता नहीं है, परन्तु उसे रोकने ही से आसक्ति से छुटकारा मिलता है, क्योंकि जब आत्मा किसी विषय में आसक्त है, तब उसके वर्जन के अतिरिक्त कोई दूसरा उपाय नहीं है । वास्तव में जो लोग इन्द्रियों के विषयों का उपभोग करते हुए भी अनुराग शून्य है आर जिन लोगों ने सचमुच

\* “रागदेववियुक्तैस्तु विषयानिन्द्रियैश्वरन् ।

आत्मवश्यैविधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति ॥”

सकल इन्द्रियों को वश में कर लिया है वे ही निर्लिप्त हैं । ऐसे लोगों की आत्मा के साथ भोग्य विषयों का विशेष सम्बन्ध नहीं रहता है और वे ही पाप और दुःख के परे हो जाने हैं ।

इस प्रकार से निर्लेप या अनासन को स्पष्ट करने के लिये हिन्दू शास्त्रकार एक और कौशल का सहारा लेते हैं । वे निर्लिप्त मनुष्य को बहुतायत से इन्द्रिय भोग्य विषयों के द्वारा धेर देते हैं । इसी कारण से पुराण-चरित्रियना ने भगवान् श्रीकृष्ण को असत्य ललनाओं के द्वारा परिवेष्टित किया है, इसी से तान्त्रिक लोगों की अनुष्ठान पद्धति में अधिकतर इन्द्रिय-भोग्य पदार्थ इकट्ठा किये जाते हैं । वास्तविक प्रयोजन यही है कि अनेक भोग्य वस्तुओं से घिर कर भी जो उनमें आसक्त न हो वही निर्लिप्त है । विशेषतया इसी कारण से द्रौपदी के भी पाँच स्वामी हैं । लियों में द्रोपदी को निलिप्तता की साक्षात् मूर्ति समझिए । इसी रूप में श्रीधेदव्यास ने द्रौपदी के चरित को सगठित किया है । इसी कारण से यह वेद्या की तरह पाँच पुरुषों से ससर्ग रख कर भी सती कही जाती है । द्रौपदी के लिये पाँचा पति केवल एक पति हैं, वे उपासना की एक ही वस्तु हैं और धर्म चरण के लिये एक मात्र साधन हैं । जैसे सब्दे धर्मात्मा के लिये असत्य देवता एक मात्र पूजनीय लक्ष्य हैं, और शानी के लिये ग्रह ही एक मात्र उपास्य है, ठीक वैसे ही निर्लिप्त द्रोपदी के लिये पाँचा पति केवल एक धर्मचरण व्याल हैं । द्रौपदी गृहधर्म में निष्काम, निश्चल और निर्लिप्त होकर अपने काम में प्रवृत्त


है । यह धर्म ऐसा वैसा नहीं है, वास्तव में इसका पालन करना बड़ा कठिन काम है । इसी बात को महाभारतकार ने महाप्राथानिक पर्व में स्पष्ट किया है । वहाँ पर उन्होंने यह साफ बतला दिया है कि इस भाति का निर्लिपि धर्म कितना दुष्कर है । स्वर्गारोहण के लिये चलते समय द्रोपदी ने अर्जुन पर कुछ अधिक प्रेम प्रकट किया । केवल इसी पाप—इसी छोटी सी भूल के ही जाने—से अब तक अत्यन्त निर्लिपि द्रोपदी को सब से पहले अपने शरीर से हाय धोना पड़ा ।

अब देखिए कि द्रोपदी के पाच पतियों से एक ही एक गैरस लड़के के होने का क्या कारण था । हिन्दू शास्त्रों के अनुसार पुत्र पैदा करना प्रत्येक गृहस्य का धर्म है । पुत्र पैदा होने ही से याह सफल होता है । ऐसा न होने से धर्म अधूरा रह जाता है । केवल एक ही लड़के के होने से धर्म का प्रयोजन सिद्ध हो जाता है । एक से अधिक लड़के का पैदा होना धर्म के लिये आवश्यक नहीं है, वह फिर केवल इन्द्रिय तृप्ति का फल मात्र है । गृहस्य धर्म को पूरा करने के लिये प्रत्येक पति से एक एक गैरस पुत्र पाकर एक प्रकार से निर्लिपि द्रोपदी का सम्बन्ध अपने पतियों से टूट गया । पतियों के धर्म को पूर्ण करने के लिये उसने ऐसा किया गैर बाद को फिर दूसरा गर्भ नहीं धारण किया । इस विषय में कवि की कल्पना का यही प्रयोजन है ।

इस समस्या का ऊपर कहा हुआ समाधान बड़ी सूखमता के साथ समझने के योग्य है । हिन्दुओं की पवित्र बुद्धि इस

विषय को शुद्ध हृषि से देख कर इस समाधान की गम्भीरता का अनुभव कर सकेगी । महाभारत ही में श्रीवेदव्यास ने इस पाँच पतिवाली बात को द्रौपदी के पहले जन्म में किये हुए अहृषि पापों का फल बतलाया है । जो कुछ द्रौपदी की अहृषि घटना हुई थी उससे बढ़ कर खी के लिये महापाप और कुछ नहीं हो सकता था, परन्तु एक बात के मत्थे आ पड़ने से उसका निर्वाह करना ही उचित है । पाँच पतियों के साथ अपना जन्म काटने के लिये द्रौपदी को उसके महापापों ने बाध्य किया, तब यह काम द्रौपदी ही के समान निर्लिप्त ललना का था कि सच्चे घोर पूर धर्म के साथ उसने अपना जीवन व्यतीत किया । तात्पर्य यह है कि चित्त शुद्धि हो जाने से महापातक में पड़ने पर भी किसी को पाप नहीं हूँ सकता है । द्रौपदी का चित्त शुद्ध हो गया था, इस कारण से इतने बड़े पाप में भी गिर कर इसने उस महापातक को धर्म रूप में परिणत कर दिया ।

---



# विनोद-वैचित्र्य

चतुर्थ भाग ।

हमारे फुटकर लेख ।



## १—सफलता के लिये दो ज़रूरी बातें ।\*

इले पहल यह जान लेना बहुत आवश्यक है कि सफलता क्या चीज़ है। प्राय यही देखने में आता है कि किसी काम या किसी बात के अपनी आशा और मन के अनुकूल हो जाने ही को मनुष्य मात्र सफलता मानता है। इस दशा में नीच और अविवेकी मनुष्यों की सफलता प्रेरणा के लिये हानिकारक होती है। ऐसे ही उदार और विवार-शील लोगों की सफलता इनका हित करने के साथ ही यदि प्रेरणा का उपकार नहीं करती है, तो उन्हें हानि भी नहीं पहुँचती है। सफलता पाने से मनुष्य का उत्साह दूना प्रेर चित्त आनन्द से प्रफुल्लित होजाता है। आशा के अपूर्ण होने से या अभीष्ट के असिद्ध रहने से उसका हृदय टूट जाता है नथा उसके हाथ और पैर मानों फूल से जाते हैं। जब तक अनिष्टकारी सफलता अपूर्ण रहती है, तब तक सब की भलाई होती है। इससे यह भी सम्मव है कि दुष्ट मनुष्य बारम्बार

\* पृथ्वी ११०६। अमुदित। मुनिर्लिपित पञ्च विस्तृत। म्यतन्त्र, सामी रामतीर्थ थैर सेमुण्ड स्माइक्स के कुछ भावों को लेकर।

असफल होकर और अपना चरित्र ठीक करके सचमुच सज्जन बनने का यत्न आरम्भ करदे । अब यह अनायास ही समझ में आ जायगा कि विवेक-पूर्ण और हितकर सफलता ही सभी सफलता है । वास्तव में मनुष्य को इस प्रकार की सफलता के लिये चेष्टा करना चाहिए जिसमें अपना और यथा सम्भव दूसरों का भी अवश्यमेव उपकार हो । यदि य दोनों बातें न सम्भव हों, तो अपना ही उपकार हो, परन्तु यह अवश्य सदा ध्यान में रहे कि उससे दूसरों का अहित या आनिष्ट किसी दशा में कभी न हो । इसी लक्ष्य को अपने सामने रख कर हमें सर्वदा अपनी सफलता के लिये प्रयत्न करना चाहिए । इस सम्बन्ध में (१) “समय का सदुपयोग” और (२) “जीवनोंहेश्य का सामयिक निश्चय” ये दो अत्यावश्यक बातें हैं, इससे अब हम इन पर विचार करेंगे ।

### १—समय का सदुपयोग ।

हम अभी तक यह सुनते आये हैं कि ससार में मनुष्य खाली हाथ आता है और खाली हाथ जायगा, परन्तु वास्तव में इसका पहिला अश सच नहीं है । यह समझ में कभी नहीं आता है कि प्रकृति देवी प्राणी-मात्र को यिना किसी प्रकार की पूजो दिये हुए इस ससार में डाल देती है । यदि ध्यान से देखिए, तो शात होगा कि यह हम सब को ऐसा अमूल्य धन

देकर यहाँ उत्पन्न करती है जिसका सदृश्य करके हम विद्या, शिल्प, अनुभव, रूपया पैसा, मान, गैरव इत्यादि सभी कुछ पा सकते हैं—इतना ही नहीं, वरन् अपना समस्त जीवन सफल बना सकते हैं । यदि प्राकृतिक धन में कोई दोष है, तो केवल इतना ही है कि एकबार उसके किसी अश या उसकी कुल पूँजी को छोकर हम चाहे कुछ करें, परन्तु वह लौटकर फिर हमारे हाथ आने का नहीं है । इसी बात को सदा स्मरण—नहीं, नहीं, सदा नेत्रों के सामने—रखकर हमें इस प्राकृतिक धन के छोटे से भी छाटे अश का पूर्णतया अपने उपयोग में लाना चाहिए । कितने बड़े शोक का विषय है कि फिर लौट कर न मिलनेवाले इसी धन को लालो मनुष्य पानी की नरह बहाते रहते हैं और क्षण भर भी यह नहीं सोचते हैं कि रूपया और पैसा खो जाने से परिव्रम करने पर फिर मिल सकता है, परन्तु यह प्राकृतिक सम्पत्ति हाथ से निकल कर सदा के लिये चली जाती है । अपने हृदय पट पर स्वर्णक्षरों में लिय लीजिए कि यह धन प्रकृति का दिया हुआ समय है और इसकी अमूल्यता के विषय में जो कुछ कहा जाय वही थोड़ा है ।

इस समय में इस दोष के सिवा कि यह बीत जाने पर फिर हमें नहीं मिल सकता है, दूसरा दोष यह भी है कि हम लोग कोई भी निश्चय के साथ नहीं कह सकते हैं कि इसकी कितनी मात्रा हमें दी गयी है । कोई नहीं जानता है कि अमुक मनुष्य १०

वर्ष जियेगा या १०० वर्ष, अथवा आज ही दो घटे के बाद मर जायगा । पलक मारते ही भले-चमे आदमी काल के गाल में चले जाते हैं, और महारोगी मनुष्य, जिनके शरीर में सिवा हह्ही और चमड़े के कुछ भी नहीं रह गया है, बरसों तक चार पाई पर पड़े रहते हैं । इस विचित्रता को देख कर स्वस्थ से भी स्वस्थ मनुष्य यह निश्चय के साथ नहीं कह सकता है कि मैं इनने वर्ष और इस समय का उपयोग कर सकूँगा—जीवित रह सकूँगा । ऐसी दशा में किसी को भी अपने समय की सम्पत्ति की मात्रा का ठीक ठीक पता नहीं लग सकता है, अनुमान से एक बान का कह देना विश्वासयोग्य नहीं है । हमें इसको विशेष-दायित्व पूर्ण और अत्यन्त कोमल धन समझना चाहिए, क्योंकि यह लौट कर कभी नहीं आता है और कोई नहीं जानता है कि यह किस समय समाप्त हो जायगा ।

हमें समय का अपन्नय देख कर बड़ा दुःख होता है । इसी अमूल्य सम्पत्ति के विषय में लोग कह उठते हैं कि “भाई, समय काटे नहीं कटता, आओ, इसकी हत्या करे ।”\* राम ! राम ! ऐसे धन की हत्या जिसका मूल्य असख्यों रूपयों से भी न जाते कितना ज्यादा है । इसको निरुपयोगी कामों में लगाना इसका दुरुपयोग करना है, इसे बुधा नष्ट करना इसकी अवहेलना करनी है, और इसका दुर्व्यस्त में अपन्नय करना निस्सन्देश

\* “Time is hanging heavily on our heads Come, let us kill it

इसकी हत्या करना है । जो मनुष्य इसका आदर नहीं करते हैं उन्हीं के नेत्रों में नैराश्य और सन्ताप के बरचे छेदते हुए यह खुला छलाकर उनके प्राण निकालना है और उनसे अपने दुरुपयोग, उपेक्षा, या हत्या का बदला लेने हुए उनका दूसरा जन्म भी विगड़ देता है । समझ में नहीं आता है कि जब हम एक एक पेसे का हिसाब लियते रहने में हजारों सफा कागज रँग ढालते हैं, तब इस अमूल्य समय के लेखे के लिये क्या एक मिनट भर विचार कर लेना भी हमारे लिये पाप है ? जो मनुष्य अपने समय के पूर्ण सदुपयोग पर निरन्तर ध्यान खेलेगा वही अपना, अपनी जाति और अपने देश का सच्चा जिल्याण कर सकेगा । दूसरे में यह शक्ति नक न होगी कि वह उसके सामने अपनी आर्थिक उठा सक । जिस प्रकार से जो मनुष्य अपना रूपया और पैमा दुर्योग में फूँक देता है उसका उँह काला हा जाता है, येसे ही जो कोई बुरे विचारों में, बुरे व्यवायों में घैर बुरे कामों में अपने मूल्यवान् समय को नष्ट करता है उसका सारा जीवन काला हो जाता है ।

अशिक्षित लोग तो गये ही बीते ह, कभी कभी, ऐसे शिक्षित मनुष्य हमारे देखने में आये ह जो सरगर्मी के साथ इस बात पर बहस करने को तैयार हो जाते हैं कि यदि हम जीवन भर प्रिमाना लेकर समय को नापने लगे और उसके सदुपयोग का लेखा दीक रखने का यन्त्र करे, तो जीना तक कठिन हो जायगा, हमारा स्थान्य विगड़ जायगा और बिना विनोद की

सामग्री के चौर हँसी-खेल में कुछ समय बिताये हुए उपयोगी कार्मों के करने में चित्त ही न लगेगा । यह तर्क सर्वमान्य है परन्तु इसके प्रयोग में भूल करने से रग में भग हो जाना है । जब हम इन्होंने मनुष्यों में से अनेक को विनोद में समय बिताने हुए देखते हैं, तब हम किसी को नाच और रंग में, किसी को अदलील हँसी और खेल में, किसी को प्रमदा-प्रमोद और सुरा पान में, किसी को जुआ और ताश के पत्तों में, तथा किसी को जनद्रा आर विलासिता में निमग्न पाने हैं । कहिए ! क्या विनोद और कार्य का यही विभाग है ? क्या यही स्वास्थ्य को ठीक रखने का उपाय है ? क्या यही चित्त को हृद करेगा ? क्या यही जीवन को सफल बनायेगा ? कभी नहीं, यह निरी भूल है ।

हम हर समय काम में लगे रहने के एकदम विरुद्ध हैं, परन्तु शरीर को स्वस्थ, चित्त को सच्चल, हृदय को पुष्ट, और मन को प्रसन्न 'बनाने के लिये जा विनोद या व्यायाम हो वह परिष्कृत हो, पवित्र हो, शिष्ट हो, स्वास्थ्यपर्धक हो, मुख्कारक हो, उष्णत हो और सर्वथा लाभदायी हो, जब परिश्रम के साथ उपयोगी कार्य यथासमय किये जायेंगे, तभी विनोद भला मालूम होगा । क्या चित्त को बहलाने के लिये और तकान को दूर करने के लिये प्रकृति निरीक्षण, वायु सेवन, पवित्र सर्गीत, पैदल टहलना, घोड़े की सवारी, तेरना, नाव देना, घाटिका में शारीरिक परिश्रम, अन्य उत्तम खेल आर कूद—जैसे किफेट, फुटबाल, हाकी, और टेनिस, मित्रों के साथ शिए हास्य, अपने

बच्चों और अपनी पढ़ी के साथ प्रेमपरिवर्ण कोतुक और चागियनोद इत्यादि हमारे पास बहुत पर्याप्त सामग्री नहीं हैं जो काम करने के बाद सब तरह से हमारे समय क सदुपयोग ही का कारण बनेंगे ।

पूरे तौर से समय का सदुपयोग करने के लिये हमें उसका उचित प्रिभाग अवश्यमेव कर लेना चाहिए । यिन निष्ठित रूप संठीक समय पर काम किये हुए सभी प्रकार से गडबड रहेगा और प्राय जीवन भर में मनुष्य कुउ न कर सकेगा । हम यह स्पष्टतया बतला देना चाहते हैं कि अपने अपने कुछुम्ब, अपनी जाति और अपने देश के सच्चे कल्याण के लिये जीतोड यज्ञ करने में, परिश्रम के बाद उचित समय के लिये पवित्र और स्वास्थ्यकर प्रिनोद में, तथा रात्रि के समय ९ बजे से प्रात काल ५ बजे—पूरे ८ घण्टों—तक अडडी तरह से सोने में समय का उत्तमतया व्यतीत करना इमका वास्तविक सदुपयोग है । यदि मनुष्य दिन और रात में अपने सुभीति के अनुकूल ८ घण्टे उचित और उपयोगी परिश्रम में, ८ घण्टे अन्य ऐनिक कृत्य और प्रिनोद में, तथा शेष ८ घण्टे सोने में विनाश रहे, तो यह एक प्रकार का धंडिया समय-विभाग होगा ।

जो समय जिस काम के लिये रखा जाय उसमें चही काम पूर्णतया और उत्तमतया किया जावे, जिससे उसके करने में, तथा अन्त में उससे लाभ और सफलता के पाने में

किसी प्रकार की चुटि या अभाव न रहे । काम के समय सोलहों आना काम, विनोद के समय सोलहों आना विनोद और निद्रा के समय सोलहों आना निद्रा यही समय का भला चगा सदृश्य है । “प्रत्येक पदार्थ के लिये एक निर्दिष्ट स्थान रखिए, और प्रत्येक पदार्थ अपने आप ही अपने स्थान में मिल जायगा ।”\* यही बात समय के लिये भी ठीक वैसी ही उत्तरती है । सब कामों के लिये समय ठीक रहे और सब काम अपने आप ही नियमित रूप से हो जायगे । किसी काम को आज न करके कल के लिये टालना बड़ा भारी दोष है । कोई नहीं जानता है कि कल क्या होगा, इससे बिना किसी बहुत आवश्यक और अनिवार्य कारण के कोई काम दूसरे दिन के लिये कभी न उठा रखना चाहिए । हमारे यहाँ की इस कहावत में कि —

“कल्ह करन्ते आज कर आज करन्ते अब ।”

न जाने कितना गहरा उपदेश भरा हुआ है ।

समय को नियमित करने से हमारा यह प्रयोजन कभी नहीं है कि हम उसके दास बन जावें । घास्तउ में हम समय के स्वामी हैं और हमें उसको अपना दास बनाना चाहिए । इसी प्रकार से अपने काम को भी अपना दास बनाना हमारे लिये सर्वथा आवश्यक है । अपने कर्तव्य को देख कर सहम

\* A place for everything and everything in its place

जाना प्यार उससे मुँह मोड़ना अत्यन्त लज्जास्पद है । कहा गया है कि “अपने कर्तव्य के पीछे पीछे न चलो, घरन उस पर सवार हो जाओ—उस पर शासन करो ।”\* जब प्रत्येक कार्य इस वुद्धि से किया जायगा कि हम इसमें परिश्रम करके अपना प्यार दूसरों का, तथा अपनी जाति प्यार अपनी जन्मभूमि का कल्याण कर रहे हैं, तभी चित्त उल्लसित होगा, वुद्धि विकसित होगी प्यार हृदय प्रफुल्लित होगा । “जो मनुष्य जितना ज्यादा काम करता है उसे उतना ही ज्यादा समय विश्राम करने के लिये मिलता है ।” †

एक बार एक धालक अपने बूढ़े बाप के पास गया प्यार थोला—“पिताजी, जब देखिए तब आप काम ही करते रहते हैं । थोड़ी देर विश्राम कर लिया कीजिए ।” इस पर उसने तमक कर कहा—“थेटा, तुम अभी बच्चे हो । तुम जीवन प्यार समय का मूल्य नहीं जानते हो । इस ससार में विश्राम कैसा ? यहाँ हम काम करने के लिये आये हैं । मरने के बाद विश्राम करने को बहुत समय मिलेगा ।” जीवनकी कार्यक्षेत्र में आकर समय का सदुपयोग करने के लिये यह उत्तर अच्छी उत्तेजना है प्यार इसे स्मरण रख कर हम बहुत लाभ उठा सकते हैं ।

\* Don't follow your duty, but ride above it !

† The busiest man has the greatest leisure

## २—जीवनोद्देश का सामयिक निश्चय ।

यह सर्वथा माननीय है कि हम समय का सदुपयोग, परिश्रम और अध्यघसाय करे और उससे हमें पूरा लाभ भी होगा, परन्तु अब यह प्रश्न उठता है कि यह सब हमें किस उद्देश्य से करना होगा । हमारी जीवन-नौका का कौन सा ध्रुव होगा ? किस जीवनोद्देश्य की सिद्धि के लिये हमें निरन्तर यत करना होगा । जब तक हमारे लिये इस बात का निश्चय न हो जाय, तब नक हमारा समय यापन और परिश्रम सभी कुछ अनिर्दिष्ट, अतएव यर्थ, है और हम प्रबल वायु में वही हुए नौका के समान या तो गहरे समुद्र में झूब जायेंगे, अथवा यदि बच गये, तो पता नहीं कि कहाँ पर किनारे लगेंगे । यिन जीवनोद्देश्य को ठीक किये हुए और सो भी उचित समय पर हम जीवन के पूर्ण उपकरण, उपयोग और उपभोग से हाथ धो बैठते हैं ।

जीवनोद्देश्य का निश्चय करने के लिये यह प्रत्येक माता-पिता का कर्तव्य है कि वे अपने पुत्र की प्रवृत्ति को छोटे-पन से ही सूखमता के साथ देखना आरम्भ कर दे । जिस समय उन्हें उस छोटी अवस्था में यह बात हो जावे कि इस बच्चे का स्वभाव विशेषतया शासन करने की शक्ति से पूर्ण है और यह अपने साथियों पर अपनी धाक बींधना जानता है, अथवा कविता करने या गम्भीरता के साथ पुस्तकावलोकन

मैं लगा रहता हूँ, या चार्टालाप करने में और नये नये तर्कों के अनुसन्धान में निषुण हूँ, अथवा चिकित्साशाख की बातों में, रोगियों को देख कर उनके कष्टों को दूर करने में और उन्हें आश्वासन देने में रज हूँ, या परिच ग्राम्य जीवन और कृषि-पिण्डान से प्रसन्न होता हूँ, अथवा रेलगाड़ी, कले, तार इत्यादि में मन रहगाना हूँ, या नहरों और पानी के कामों में रमा रहता हूँ, अथवा गाने में रुचि रखता है इत्यादि, तभी से उन्हें अपने शुग के लिये क्रमशः राज्यकार्य, मन्त्रित्व, राजनीतिशास्त्र, करित्य, साहित्य, बकालत, डाकूरी, जमांदारी, कृषिविद्या, इंजीनियरी, नहर के काम, सगीत शाख इत्यादि के उद्देश्य तै कर लेने चाहिए। हमें उस बालक-विशेष को छोटे ही पन से उसके स्वामानिक उद्देश्य के लिये उत्तेजित करना, उसे नदनुकूल प्रालियो, पदार्थों और प्रभावों से सभी समय घिरे रखना, उससे उसी प्रकार की बातें करना और शिक्षा देना, बढ़ने पर उस उसी दृग के पाठालयों और विद्यालयों में भरती कराना, और सबके घाद उसे उन्हों कार्यों, व्यवसायों और व्यापारों में लगाना चाहिए। इस यत को करके देखिए कि हमारे देश में फिर भी एक से एक तेजस्वी और यशस्वी मनुष्य होते हैं या नहीं।

रुचि के प्रतिकूल व्यापार में डाल देने का प्रयास मात्रा और पिता की निरी असावधानता और बालक के लिये घोर दुर्भाग्य है। इसी भूल के कारण आजकल प्राय अन्यायी शासक,

नीरस कवि, अदोध लेखक, निर्लज्ज वकील, अयशी वैद्य, व्यसनी जमांदार, अयोग्य इजोनियर और विलासप्रिय गायक दिखायी देते हैं। अनुकूल उद्देश्य को पाकर हमारी प्रतिभा विकसित होती है, वैसे वह दब कर या तो व्यर्थ या नष्ट हो जाती है। यदि बालक की सूचि के निश्चय करने में कुछ भूल हो गयी हो और बाद को यह जान पड़े कि वास्तव में उसकी प्रवृत्ति किसी दूसरे व्यापार की ओर है, तो माता और पिता को उसी समय उसको वहाँ से हटा लेना और दूसरे अनुकूल व्यवसाय में लगाना चाहिए। जब पहिले ही से भलीभांति जाँच कर उद्देश्य की विवेचना की जायगी, तब इस ढंग से उलटफेर की बहुत कम जरूरत पड़ेगी। इस पर भी यदि आवश्यकता ही हो, तो बहुत सोच विचार कर उद्देश्य का परिवर्तन करना चाहिए। यदि माता और पिता के अभाव में या उनके पर्याप्त-रूप से शिक्षित न होने के कारण उद्देश्य निर्वाचन का काम स्वयं करना पड़े, तो उस समय पूरे विवेक से और अनुभव शील मनुष्यों की सम्मति से अपने जीवन के ध्रुव को ठीक करना चाहिए, तथा उसके निश्चित हो जाने पर उसी की पूर्ति के लिये सब प्रकार से यत्तवान् होना चाहिए।

इस सम्बन्ध में दूसरी बात यह है कि जो जीवनोद्देश्य या व्यापार निश्चित किया जाय वह अपने स्वास्थ्य, बल, घोर दशा को देखते हुए अपने सामर्थ्य के बाहर न हो। इसमें सन्देह नहीं कि जन्म ही से प्रतिभाशाली ओर तेजस्वी मनुष्य

सहज में इस नियम का उल्लङ्घन कर सकेगा—अपने सामर्थ्य के बाहर काम करके सब को चमत्कृत कर सकेगा, परन्तु साधारणतया उक्त नियम के अनुकूल काम करना ठीक होगा। अपनी आशा की कोटि के भीतर ही अपने व्यवसाय का निश्चय बहुधा हिनकर होता है। असम्भव इच्छाओं का करना अनुचित है। यदि सामान्य भिक्षुक डैरिस्टर या डाकूर होने की आशा करे, तो यह उसकी निरी वेसमझी है। हाँ, उसके लिये यह सचमुच सम्भव है कि पहिले पहिल वह परिश्रम करके खेतिहार बने और धन इकट्ठा करे, तथा उसके बाद समय पाकर उसके पुत्र, भौत नहों तो उम्र के पेत्र, सदा उच्चाभिलाप रखते हुए, डैरिस्टर घार डाक्टर भी हो सकेंगे।

किसी भी उद्देश्य विशेष ने सफलता या निष्फलता का देका नहीं ले रखा है। उसमें सफल होकर नाम पेदा करना अथवा निष्फल होकर साहस छोड़ देना प्रत्येक मनुष्य की प्रतिभा, सामर्थ्य और परिश्रम पर निर्भर है। यदि स्वभाव के अनुकूल व्यापार को पाकर कोई मनुष्य उसमें अच्छा काम नहीं कर सका है और असफल हो गया है, तो यह उसका दोष है, न कि उसके उद्देश्य का। आलसी, जीवार, निकामा, आराम तलब, घोर वैद्यमान आदमी जिस पेशे को हाथ में लेगा उसी में यह धोखा खायेगा और घाटा उठायेगा। हमें चाहिए कि जिस व्यवसाय को हम अपने लिये अन्तिम रूप से निश्चित पायें या करें उसे फिर उत्तमता के साथ करें, तथा निद्रा,

तन्डा, भय, क्रोध, आलस्य और दीर्घसूत्रता को अपने पास तक न जाने दें ।

कोई भी व्यापार ऊँचा या नीचा नहीं है । स्वयं मनुष्य ही अपनी योग्यता या अयोग्यता से उसे भला या बुरा बनाता है । जूतों तक का गोठना अच्छा है, परन्तु पूरे दाम लेकर खोटा काम करना अवश्य निन्दनीय है । उत्तमता के साथ किये जाने से वे व्यापार, जिन्हें लोग प्राय तुच्छ दृष्टि से देखते हैं, प्रशसायोग्य हो जाते हैं, नहीं तो अनुचित और अयोग्य मनुष्य के हाथ में पड़ कर उत्तम व्यवसाय भी कौड़ी मोल के नहीं रहते हैं ।

किसी उद्देश्य को निश्चित या व्यापार को करके उसे गिरणिट के रंगों के समान जल्दी जल्दी बदलने का यत्न नहीं करना चाहिए । “ब्रिदण्डी सन्यासी, फिर एक दण्ड-धारी साधू, अनन्तर ठग, और उसके उपरान्त तपस्वी बन कर यह जटाधारी महात्मा और ठगों के राजा अब नागा बाजा बने हैं ।” \* इससे यह स्पष्ट है कि जल्दी जल्दी उद्देश्य बदलने वालों का भीतरी अभिप्राय कुछ और ही होता है । सज्जन मनुष्य भली भाँति सोच-विचार कर एक बात को निश्चित करता और उसका निर्वाह करता है । जिस मनुष्य का चित्-

\* “पुनर्भिदण्ड पुनरेकदण्ड” पुन धुनर्वचकतामुपैति ।

तपस्वितामेल्य जटासुरोथ नमोऽभवद्वचकचकवर्तो ॥”

सिर होता है वह अपने निश्चित उद्देश्य में टृट रहता है और पिना किसी अनिवार्य कारण के उसे कभी नहीं बदलता है । प्रियोक-गून्य उद्देश्य परिवर्तन से किसी भी काम में सफलता नहीं मिलती है और मनुष्य का सारा जीवन इसी उधेड बुन में समाप्त हो जाता है । जो उद्देश्य अन्तिम रूप से सिर किया जाय वह यदि सामान्यतया तुच्छ भी माना जाता हो, तो उसे वैसा कभी न समझना चाहिए । जब हमने एक व्यवसाय को निश्चित कर लिया हे, तब अपनी योग्यता से उसे भी पवित्र, उच्चत आर उत्तम बना कर दिखा देना हमारा काम है ।

---

## २—एक रहस्य ।

**श्रीराघवेन्द्र** ह रहस्य बड़ा ही विलक्षण है। यद्यपि यह आप सब को ज्ञात हे, तथापि यह रहस्य हे। इसे “खुला हुआ रहस्य” समझिए। इस बार आपकी सेवा में सक्षिप्त रीति से सफलता का रहस्य निवेदन किया जायगा। सफलता के रहस्य के वर्णन से पूर्व “साफल्य” का धात्तविक अभिव्याय जान लेना अत्यावश्यक है विशिष्ट प्रकार के मनुष्य इसके अनेक अर्थ करते हैं। विद्वत्ता, भूपतित्व, धनसम्पन्नता, नाम-सपुच्छता। इत्यादि का निर्देश इस शब्द के द्वारा हो सकता है। यह बहुत ठीक है, परन्तु ये अर्थ सर्व-स्वीकृत नहीं हो सकते हैं, क्योंकि मनुष्यों में हचिं वैचित्र्य चर्तमान है।

अब सफलता की अभिव्यास परिभाषा को जानने के लिये हम आपको चर्तमान काल की निष्फलता का उदाहरण देते हुए पहले इसकी परिभाषा की आलोचना करेंगे। आजकल

२ मार्च १९०६। “श्रीराघवेन्द्र” भाग २, संख्या ६, पृष्ठ ३२३—३२५। यथापूर्व, परन्तु सरोधित। स्वतन्त्र।

† नाम के उपरान्त श्रीगरेजी की घर्णमाला के असरों के लिखे जाने का सामान्य ग्राह होना।

एक व्यक्ति पिशेप को हम तभी निष्फल कहेंगे, जब वह इच्छित कार्य को पूर्ण न कर सके । आशय यह है कि वह उपरोक्त अथवा अन्य सफलता गिमेदें में से किसी एक को लक्ष्य मान कर बड़ा प्रयत्न करे, तथा अन्त में फल प्राप्ति से घनिष्ठत रहे । यदि हम आप से इस फल-प्राप्ति से घनिष्ठत रहने का कारण पूछते हों, तो आप यही कहिएगा कि या तो यथासमय कृत्य नहीं किया गया, अथवा अभिलाप ऐसी पराकाष्ठा को पहुँचायी गयी कि उसकी पूर्ति असम्भव हो गयी, या एक ही समय में दोन्चार उद्देश्यों के पीछे दौड़ना प्रारम्भ कर दिया गया, तभी यह परिणाम हुआ । ऊपर के घर्षण से निष्फलता की परिभाषा सरल है । समय तथा पुरुषार्थ का वृथा नष्ट होना केवल निष्फलता का कारण ही नहीं, बरन स्वयं निष्फलता है ।

हम इस प्रकार से सफलता की परिभाषा को अनायास छात कर सकते हैं । समय तथा पुरुषार्थ को नष्ट न होने देना—इनका सदृश्य करना—सफलता है । इनका सदुपयोग ही जीवन साफल्य है, चाहे वह आत्मीय, सामाजिक या देशीपकारक कामों में हो, अथवा किसी अन्य उत्तम उद्देश्य में व्यय किया जाय ।

इस समय आपको यह उत्कण्ठा अवश्यमेव होगी कि उक्त रहस्य भी हमका शोध ही शात हो जाय । सुनिप रहस्य यही है कि “अपना कर्तव्य जानते रहिए ।”\* अभिप्राय यह है कि

\* Know your duty

यदि मनुष्य यह सदा स्मरण, रक्षे कि ईश्वर, गुरु, माता, पिता, पुत्र, कल्पना, जाति, समाज, देश इत्यादि की ओर हमारा क्या कर्तव्य हे—क्या फर्ज है, तो वह प्राय सफल होगा। यदि प्रत्येक विषय में वह अपना कर्तव्य जानता रहे, तो उसके धोखा राने की कदापि आशङ्का नहीं है। अब आप रहस्य जान गये और इसके अनुकूल चलना या न चलना, सफल होना या निपटल होना आप ही पर निर्भर है। आप पूर्ण उद्योग कीजिए, अपनी विजय में पूर्ण विश्वास रखिए, प्रसन्न वित्त रहिए—यह कहना न होगा कि आप अपने धर्म को न भूलिए, और आप अवश्य सफल होगे।

---

## ३—हास्यमयोक्ति-मालिका ।

( १ )

एक विजयी सेनापति ने अपने एक सैनिक से पूछा—“हाँ, भाई, तुमने इस विजय में मेरी क्या सहायता की ?”

उसने उत्तर दिया—“महोदय, मने बड़ी धीरता से एक सैनिक का पैर अलग कर दिया ।”

सेनापति—“हाँ, हाँ, सो तो अच्छा किया, पर तुमने उसका भिर क्यों नहीं काटा ?”

सैनिक—“ओह ! उसका सिर तो पहले ही से कट चुका था ।”

( २ )

एक छैल महोदय ने एक नार्द से कहा—“क्यों वे, तूने कभी किसी गधे के बाल बनाये हैं ?”

उसने उत्तर दिया—“साहेब, अभै लग तो नाहीं, मुदा जा सरकार बैठि जाय, तो मैं अपनि किसमति खालौं ।”

\* नवेम्बर १९०६ । “धीरावरेन्द्र” भाग ३, संख्या ४, पृष्ठ १२४—१३८ । स्वतन्त्र रूप से संगृहीत थीं और अनुवादित ।

( ३ )

एक रोगी अपनी चारपाई पर पड़ा हुआ था । उसकी दवा करने के लिये दो डाकूर आये, परन्तु उनमें मतभेद होने से विवाद आरम्भ हो गया ।

अन्त में उनमें से एक ने कहा—“चाहे जितनी बक बक करो, पर मरने के बाद जब इस रोगी की लाश चीरी जायगी और उसकी जाँच होगी तब देख लेना मेरी ही सम्मति ठीक निकलेगी ।”

यह सुनते ही रोगी के होश उड़ गये और उसने इन यमराज के भाइयों से छुटकारा पाने की प्रार्थना की ।

( ४ )

एक समय किसी न्यायाधीश के सामने एक अभियोग उपस्थित था । प्रतिवादी के चकील ने कहा—“महादय, अपराध को प्रमाणित करने के लिये केवल तीन साक्षी हैं, परन्तु मैं ऐसे बारह साक्षी दूँगा जो यह शपथ खा सकते हैं कि इस मनुष्य ने अपराध नहीं किया है ।” आशा हो गयी—“वेल, जाओ, हमने अपराधी को छोड़ दिया ।”

( ५ )

एक बार एक मनुष्य ने अपने मित्र से छाता मँगनी लिया, परन्तु उसे बहुत दिनों तक वापस नहीं किया । एक दिन वही छाता लगाये हुए वह अपने मित्र के मकान के पास होकर निकला । उस समय इसने कहा —

“भाई, बहुत दिन हो गये, अब तो छाता घापस कीजिए ।”

मनुष्य—“हाँ, ठीक हे, पर मुझे अभी छुट्टी नहाँ है ।  
पर्याक्षमा कीजिए, देखा जायगा ।”

मिश्र—“आप ही कहिए हम फिर क्या करे । देखिए वर  
त का महीना है ।”

मनुष्य—“वाह, वाह, इतनी चिन्ता किस लिये । आप भी  
जसी ओर से छाता भाँग लीजिए ।”

यह कहते हुए चढ़ चला गया और यह मिश्र उसका मुँह  
काकना रह गया ।

( ६ )

एक मनुष्य—“कदाचित् मैंने आपको कहाँ देखा है ?”

दूसरा—“हाँ, हाँ, ठीक हे । मैं बहुत दिनों तक लेलधाने  
का दारोगा रह चुका हूँ ।”

## ४—महाराजा सर प्रताप नारायणसिंह बहादुर के० सी० आई० ई० ।

### वंशपरिचय ।

ह जाति के शाकद्वारीपी ब्राह्मण थे । महाराजा श्रीकृष्णचन्द्रजी के समय में इनके पूर्व पुरुष भारतवर्ष में आये और उन्होंके द्वारा इनके ७२ गाँव मिले । अनन्तर यह वश फलता और फूलता रहा । इस कुल की जिस शाखा में हमारे चरितनायक का जन्म हुआ था उसे “भख पंचार” कहते हैं । यह अब भी अपनी पेतृक सम्पत्ति का उपभोग कर रहा है ।

जन्म तथा बाल्यावस्था ।

महाराजा के पिता का नाम बाबू नरसिंहनारायण था । महाराजा सर मानसिंह की पक्कमात्र पुत्री इन्हों बाबू साहब व्याही थी । अवध के नवाब घाजिदअली शाह सर मानसिंह इतना अधिक मानते थे कि उक्त विवाह के समय उन्होंने पक्क गाँव बाबू नरसिंहनारायणजी को दहेज में दिया था ।

---

\* दिसम्बर १६०६ । अमुद्रित । पुनर्लिपित और सहित । स्वतन्त्र ।

महाराजा सर प्रताप नारायणसिंह बहादुर के सी आई है १५९

महाराजा सर प्रताप नारायणसिंह का जन्म अपने नाना के यहाँ १३ जूलाई १८५५ को हुआ। उस समय वही धूम धाम के साथ आनन्द मनाया गया। इन पर सर मानसिंह का अतिशय प्रेम था और वह इनको अपने पुत्र से भी अधिक स्लेह की हृषि से देखते थे। इनका पहला पिंडाह अपने नाना ही के समय में हुआ। उसके बाद इन्होंने अपना दूसरा व्याह अपने आप किया।

### शिक्षा ।

इन्होंने सातवें वर्ष में पढ़ने का आरम्भ किया। इनको सस्तृत और फारसी भाषाओं की शिक्षा अच्छी तरह से दी गयी। तेरहवें वर्ष में इन्होंने अंगरेजी पढ़ना शुरू किया। इसी समय इनको भयकर शीतला रोग से बड़ा कष्ट हुआ, परन्तु ऐश्वरकृपा से यह शीघ्र नीरोग हो गये। उक्त भाषाओं में योग्यता सम्पादन करने के साथ ही यह बन्दूक दागने, भाला चलाने और घोड़े की सवारी का पूरा अभ्यास करते जाते थे। इनको शासन नियम, राज्य-प्रबन्ध और प्रजा-पालन के मूल सिद्धान्त भी उचित रीति से भिजाये गये।

नाना का परलोकवास और उत्तराधिकार का झगड़ा ।

यह महाराजा सर मानसिंह की बड़ी महारानी के नाती थे, तथापि छोटी महारानी और सर प्रताप नारायणसिंह में घटुत

बड़ा सौहार्द था । इस कारण से भविष्य में किसी प्रकार के भगडे की शका न करके महाराजा मानसिंह मरते समय अपनो छोटी महारानी को सम्पत्ति की उत्तराधिकारिणी बना गये, बड़ी महारानी का देहान्त उनके समय में ही हो चुका था । कुछ कारणों से बाबू नरसिंहनारायण और छोटी महारानी में घोर वैमनस्य हो गया, इसीसे महाराजा प्रताप नारायण से भी उनके विषम वैर की जड़ जमी । परिणाम यह हुआ कि छोटी महारानी ने अपने घश के एक बालक को गोद ले लिया और अपने नाती को उत्तराधिकार से विचित करने के लिये फेजाबाद के कलेक्टर के यहाँ मुकदमा दायर कर दिया । यहाँ और लखनऊ में जुड़ीशल कमिश्नर के न्यायालय से इन की जीत हुई, परन्तु १९ फरवरी १८७७ को प्रिवी कौसिल ने छोटी महारानी के बाद हमारे चरित्रनायक ही को उत्तराधिकारी निर्णीत किया । दोहरा के फिर यही मुकदमा दूसरे रूप में प्रिवी कौसिल तक पहुँचाया गया । इस बार भी महाराजा प्रताप नारायणसिंह ने विजय प्राप्त की । इस समय इनके शत्रु परास्त हो गये थे और मित्रदल के हर्ष का ठिकाना न था ।

### राज्याभिषेक और राज्यप्रबन्ध ।

१८८५ में भारत सरकार ने इनके हाथ में राज्य का भार सौंपा । उस समय बड़ा आनन्द मनाया गया । शत्रु दल अब भी इनके पीछे पड़ा हुआ था पौर कोई न कोई मुकदमा दायर

महाराजा सर प्रताप नारायणसिंह ख्हादुर के सी आई ई १६१  
करना रहता था। अन्त में प्राय उन सभी में हार कर इनके  
सब बैरी ठढ़े हो गये और इनको निश्चिन्त होकर राज्य कार्य  
करने का समय मिला।

यह प्राय सभी काम अपनी आदीों से देख कर करते थे।  
काम को नौकरों पर ही छोड़ देना और स्वयमेव कुछ न  
देखना इनके स्वभाव के विरुद्ध था। इनका प्रबन्ध नवीन शैली  
के अनुकूल था और यह उसमें आवश्यक सुधार करते  
जाते थे। प्रजा के दुखों को नियारण करने की ओर इनका  
पूरा ध्यान रहता था। यह अपनी रियासत में दैरा भी करते  
थे। इनके हजारों नौकर थे, उन सब पर इनका पूरा आधि-  
त्य रहता था।

## ओल और गुण ।

यह पिनयी, मधुरभाषी और बहुत सीधे थे। इनकी  
शाक सादी और देशी ढंग की रहती थी। इनकी अभिमान  
ई तक न गया था। साधारण कोटि के, परन्तु विद्वान्, मनुष्यों  
पर्याय छोटे छोटे रईमों के साथ इनका पूरा सौदार्द रहता था।  
उनकी सारण शक्ति अच्छी थी। एक बार परिचय हो जाने पर  
हद अपने इष्ट मित्रों को कभी न भूलते थे। यह पिद्वानों का मान  
गेर आदर करते थे। यह सामान्य मनुष्य से भी बातचीत  
पर्ने में कुछ सकोच न करते थे। यह धीर, शान्त, क्षमा-  
ग्रेल और निर्भय मनुष्य थे।

## उदारता ।

यह धर्म के कामों में भला-चगा रूपया लगाते थे । अपनी रियासत के पुराने और अपने बनवाये हुए नये मन्दिरों, में इन्होंने कई हजार सालाना की जिकासी के गाँव लगा दिये हैं । समय समय पर अपनी प्रजा के घोभ को हलका करने के लिये यह उनसे प्राप्य वाकी लगान में लाखों रुपये छोड़ देते थे । विद्या प्रचार की ओर इनकी स्वाभाविक प्रवृत्ति थी । यह आरम्भ ही से लखनऊ के कैनिंग कालेज और काल्यन तम्बलुकदास स्कूल को यथेष्ट सहायता देते चले आये थे । इनके हजारों गुप्त दानों के द्वारा दीन-दुर्गियों का भरण-पोषण होता था ।

## धार्मिक सिद्धान्त ।

यह कहुर सनातनधर्मी हिन्दू थे, परन्तु इनको किसी भी मत से छेप न था । इन्होंने अपनी रियासत में विरुद्ध मत के भी मनुष्य ऊचे ऊचे पढ़ो पर नौकर रखे थे । यह बड़े कर्मठी थे । सभी देवताओं पर इनकी समान श्रद्धा थी । अयोध्या में श्रीराधाकृष्णजी का कोई भी मन्दिर न था, इसलिये इन्होंने एक उत्तम सगर्मर का मन्दिर बनवा कर उसमें युगलमूर्ति की स्थापना की । यह पार्थिवेश्वर महादेव का पूजन बड़े प्रेम के साथ करते थे, प्रतिदिन इनके पूजन के समय वेद पाठी ब्राह्मण वेद ध्वनि किया करते थे ।

महाराजा सर प्रताप नारायणसिंह बहादुर के सी आई १६३

## विद्या-प्रेम ।

इन्होंने एक विशद पुस्तकालय की प्राप्ति की थी । यह उसमें कभी कभी बैठ कर पुस्तकावलोकन करते थे । इनका प्रियोग अनुराग हिन्दी भाषा ही पर था । यह अपने जीवन भर इसी भाषा की उन्नति और प्रचार के लिये यत्नशील रहे । अदालतों में नागराक्षरों के प्रचार के लिये जो प्रतिनिधि दल प्राय १९०० में लाट साहब की सेधा में उपस्थित हुआ था उसके यही प्रधान थे । उस उद्योग में इनको धोड़ी बहुत सफलता भी हुई थी ।

हिन्दी भाषा के कवियों और लेखकों को उत्तेजना आर्थिक सहायता देना, उनका आदर और मान करना, तथा उनसे उपयोगी ग्रन्थों का लियायाना इनका प्रशासनीय कर्तव्य था । यह स्वयमेव करिता करते थे । इनका बनाया हुआ “रस कुसुमाकर” नामक ग्रन्थ इनकी पिद्या-रसिकता का फल है । इन्होंने अपने नामा की बनायी हुई “शृङ्खारलतिका” नामक पुस्तक पर श्रीका भी की है ।

## सरकार की गुणग्राहकता ।

भारत सरकार ने इनकी योग्यता से प्रसन्न होकर १८८७ में इनको महाराजा की ओर उसके तीन वर्ष बाद के ० सौ ० आई ० ३० की उपाधि से भूषित किया । १८९१ में इनका ‘अध्यायानरेश’ की पदवी मिली । यह १८९७ में अदालत

दीवानों की हाजिरी से और उसके तीन वर्ष बाद “एकट अस्लहा” से मुक्त किये गये । १९०६ में इनकी विद्यारसिकता का आदर करके सरकार ने इनको महामहोपाध्याय की पदवी दी । यह एक बार बड़े लाट साहब की राजकीय व्यवस्थापक सभा तथा अनेक बार प्रान्तीय व्यवस्थापक सभा के सदस्य रहे थे ।

### राजभवन, वाटिका इत्यादि ।

इनके अयोध्या के राजभवन और उपवन को देख कर इनकी उम्म और परिष्ठृत रुचि का पता लगता है । इनको बहिर्या मकान और फुलवाड़ी बनवाने का बड़ा चाव था । इनके राजभवन और उपवन उच्चम, सुन्दर और सुसज्जित दशा में रहते थे । यह प्रत्येक पदार्थ और काम के लिये अलग अलग स्थान रखते थे । इनके भवन में हर एक मकान के मुख्य द्वार पर उसका नाम सग-मर्मर की पाठी पर लिखा हुआ लगा है । बहाँ पर काष्ठागार, आयुधागार, रक्षागार वस्त्रागार इत्यादि की समुचित आयोजना है । चन्द्रभवन की निराली ही छटा है, मुक्ताभास अपनी रमणीयता से ग्रासाद की शोभा को चौमुनी करता है । हरियाली से लहलहाती हुई, रङ्ग विरङ्गे पुष्पों से चित्रित और भरकत विभास इत्यादि जलाशयों से सुशोभित राजवाटिका की सौन्दर्य सम्पत्ति अनुपम है । इनका भवन बिजुली की रोशनी और टेलीफोन से संयुक्त है । इनके जीवनकाल में इनके प्रबन्ध के प्रभाव से अयोध्या का झूलनोत्सव निराले ही ढँग का होता था ।

महाराजा सर प्रताप नारायणसिंह बहादुर के स्मृति आई है १६५

## परलोकवास ।

१ नवेंबर १९०६ को केवल ५० वर्ष की अवधि में इनका स्वर्गगमन हो गया । कुछ दिनों की बीमारी के बाद इन्होंने ९ तारीख को सरयू के तट पर घलने की इच्छा प्रकट की । उस समय इनका चित्त कुछ अच्छाजान पड़ता था । प्रात काल ९ बजे सरयू के तट पर पहुँच कर इन्होंने अपना धोड़ा और बहुत सा रुपया दान किया । अनन्तर इन्होंने दान देने के लिये हाथी के मीलाये जाने की आशा की, परन्तु उसके आने के पहिले ही इन्होंने अपने पाञ्चभौतिक शरीर को त्याग कर स्वर्ग के लिये प्रवान किया ।

## अवाशिष्ट ।

इनके स्वर्गगमन से मानो अयोध्यामगरी पर बज्ज दूट पड़ा । उस समय सभी व्यानों में शोक छा गया था । बड़े लाट, छोटे लाट, अनेक महाराजा, राजा इत्यादि ने इनकी मृत्यु पर शोक प्रकट किया और भारतवर्ष के प्राय सभी समाचारपत्रों ने इस विपर्ति के समय में अपनी समवेदना का प्रदर्शन किया । १९०१ के दानपत्र के अनुकूल यह अपनी छोटी महारानी को अपनी उत्तराधिकारिणी बना गये हैं और बड़ी महारानी की नमुनित आजीविका की पूर्ण आयोजना कर गये हैं ।

## ५—जातीय शिक्षा ।

स्तविक शिक्षा वह है जो हमें जीवन के संग्राम में सफलता के साथ लड़ने को तैयार कर सके। †  
वही शिक्षा पूर्ण होगी जिसके द्वारा हमारी सब दशाएँ—भानसिक, शारीरिक, सामाजिक और जातीय—उन्नति को प्राप्त हों।

यदि इस प्रकार की शिक्षा के यदि हमारा एक अङ्ग सञ्चल होता है तो दूसरा नैर्वत्य को प्राप्त होना रहता है। ऐसी शिक्षा से कुछ भी लाभ नहीं है। जैसे एक व्यक्ति-विशेष अपनी जाति का, वैसे ही एक जाति विशेष ससार के जाति-समुदाय का, एक अङ्ग है। जिस प्रकार से एक व्यक्ति विशेष को अपनी जाति में उन्नति करने के लिये अत्यन्त अपेक्षा रहती है, उसी प्रकार से यदि एक जाति अपने सुधार के लिये यत्नयानन होकर चुपचाप बैठ रहे, तो उसकी अवनति अवश्य-भावी है।

\* मार्च १९०८। मार्च १९०८ के “भारतवासी” की एक संख्या में सुनित। लाला लाजपतराय के एक व्याख्यान के आधार पर।

† Education is the preparation for the battle of life.

जातीय और व्यक्तिगत शिक्षाओं में दोनों की कामनाएँ, देशों और उच्चाभिलापों का समान होना अत्यापश्यक हे ही तो य दोनों टकराकर एक दूसर को नष्ट कर देती है। किसी जाति प्रिदेश की शिक्षा में उसकी प्रवृत्ति पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। पिना उसकी हचि के अनुकूल शिक्षा दियें हुए लिखाई और पढ़ाई का कुछ भी प्रभाव न होगा। शिक्षा को पूर्ण करने के लिये धर्मसम्बन्धी पढ़ाई की भी घड़ी आवश्यकता है। विना धर्म का ज्ञान प्राप्त किये मनुष्य की यात्रा अपूर्ण रहती है। इसके साथ ही भारतपरे के सच्चे इतिहास का यहाँ के बालकों के चित्त पर अङ्गूत करना अत्यन्त अपेक्षित है। दूषित इतिहासों के छारा हम लोग सिवा इस बात के कि हमारे पूर्व-पुरुष अत्यन्त नीच, निर्वल विश्वास बाल और 'नीमगेहशी' थे और कुछ भी भहों जान सकते हैं। पूर्व पुरुषों का आदर करना और उनकी प्रतिष्ठा करनी दूर रही, हम लोग उन्हें धृणा की हृषि से देखना आरम्भ कर देते हैं। हमारी उच्छति तभी सम्भव है, जब हम लोग अपनी प्राचीन उत्कृष्टता को समझेंगे और अपने पहले के घड़-पथ के साथ अपनी भविष्य की उच्छति ऊं मिलाये रहने का यत्न करेंगे। तभी हम सब तरफ़ी करेंगे, जब हमें यह मालूम हो जायेगा कि पहले हम समस्त ससार के शिरो-मणि थे और हमी लोगों से और जातियों ने ज्योति प्राप्त की है।

पूर्व समय में हिन्दुओं और मुसलमानों में भले ही झगड़े हुए हों, परन्तु हम इस प्रकार से भी उनका वर्णन कर सकते हैं कि इन दो समुदायों में विश्रह शान्त हो और मेल बढ़े । कुछ इतिहासों में ये विषय एक ऐसी ज्योति में लिखे गये हैं जिसके कारण यह झगड़े की ज्वाला जलती रहती है, अतएव हिन्दू मुसलमान विश्रह भी उत्तम इतिहास तेयार करने से शान्त किया जा सकता है । जातीय शिक्षा में हमें यह भी सिखाना चाहिए कि स्वाधीन रहकर ईमानदारी के साथ हम लोग किस प्रकार से अपना जीवन निर्वाह कर सकते हैं, और बिना कषट किये हुप, ठोकरें याये हुप, और सों सौ “फशों सलामें” किये हुप हम किस भाँति सुख से रह सकते हैं ।

क्या बनस्पति क्या मनुष्य और क्या जाति इन सब पर जल, वायु का प्रभाव पूरे तौर से पड़ता है, इससे हमको अपने “चारों ओर के हालात” या प्रतिवेश\* को इस भाँति का बनाना चाहिए जिससे हमारी जातीय शिक्षा, उसकी वृद्धि और उन्नति को सहायता मिले । वर्तमान शिक्षा प्रणाली में यह सबसे बड़ा दोष है कि यह हमें “स्वतंत्रजीवी” और “पुरुषार्थी” नहीं बनाती है । इसने मिथा खेती, बकालत, अथवा सरकारी नोकरी के ओर कोई भी जीविका का साधन नहीं छोड़ा है ।

\* Environment (वे सब प्राणी, पदार्थ आर प्रभाव जिनके बीच में मनुष्य अपना समस्त जीवन व्यतीत करता है ।)

एक अंगरेज विद्वान् इस दोष को समझते हैं, परन्तु इसके उधार के लिये उनका मुँह न ताक कर हमें स्वयं यत्न करना चाहिए। अपनी आवश्यकताओं की तम ही उत्तमता के साथ बान सकते हैं, अतएव स्वयमेव आदर्श विद्यालय स्थापित करके निहृ उनके प्रिविद्यालयों के लिये उदाहरण बनाना चाहिए। तब न हमारे कालेजों की उत्तमता को देंगे, प्यार यह जाने गे कि सब प्रियार्थी उनके विद्यालयों का छोड़ छोड़कर हमारे विद्यालयों में आ रहे हैं, तब लजित होकर उन्हें भी वही गाली अपने यहाँ जारी करनो पड़ेगी। यह स्मरण रखिए कि शिक्षा वही है जो हमारे मस्तिष्क और हृदय को विस्तृत करे।

अपने यहाँ हिन्दुओं में प्रत्येक मनुष्य कुछ प्रश्न लेकर उपश्म होता है। यह प्रश्न उसे अवश्यमेव मरने के पूर्व दे गालना चाहिए। अपने युवकों को शिक्षित करने का भी प्रश्न भार ऊपर है। इसी प्रथा के अनुकूल पूर्व समय में अपनी शाति के लोगों से भिक्षाटन करके ब्रह्मचारी विद्योपार्जन करता ग। आशय यही था कि हर एक बालक को शिक्षा, विज्ञानि लिये हुए, मुफ्फ दी जावे। जब तक जातीय शिक्षा शुल्क द्वित और अनियार्थ न होगी तब तक उसका प्रचार होना अस भर है।

हमारी गङ्गा भाता वही है, वही हिमालय पर्वत है, और ऐसी तरों भूमि यह भारतवर्ष है, परन्तु क्या कारण है कि पहले ऐसे शिरोमणि होते हुए भी अब हम उन्नति नहीं कर सकते

है ? दोप हमी लोगो का है । पहले हम लोगो की आत्मा विस्तृत थी और सबको अपना जानती थी । यह अपनी जाति की उन्नति में लग कर अपने भार को समझती थी, परन्तु अब इसी आत्मा को मट्कुचित कर देने से सब विपर्तिया आ रही हैं । हम आजकल की पाठशालाओं में विद्यार्थियों के साथ माता पिता के समान व्यवहार न करके जेलरों की भाँति उनकी नाड़ना करते हैं । हम उन्हें यह नहीं बतलाते हैं कि तुम लोग देवताओं और देवियों की सन्तान हो, तथा जब ससार में और सब उन्नति कर सकते हैं, तब तुम भी उन्नति कर सकते हो ।

इन्ह सब बातों को चिचारते हुए हम लोगों को जातीय शिक्षा पर ध्यान देना चाहिए । हमें सोचना चाहिए कि यह प्रश्न ही हमारे लिये जीवन या मरण हो सकता है, तथा यही शिक्षा हमें स्वाधीन होकर रहना और सर्वसाधारण की गिरि दशा की उन्नति करना सिखायेगी ।

---

## ६—सीतापुर में लाजपति । ६



ज हम लोगों के सम्मुख देश क प्रेम का बड़ा  
भारी अटिल प्रश्न उपस्थित है। उस पर  
ध्यान देने या न देने ही से हम लोगों का  
उद्धार अथवा सर्वनाश हो सकता है।  
यह समय हमार लिय बड़े मार्क का है।

बत्तेश्वान काल में देश प्रेम की समस्या पर भारत की उच्चति  
या अवनति सर्वथा निर्भर है। देश प्रेम होने से हमें जन्म भूमि  
के दित के लिये उत्तेजना मिल सकती है योर हमारे उत्साहित  
होने ही से भारत के कल्याण की प्रत्याशा की जा सकेगी।  
योते यार मन्मिथर्याँ मारते रहने से किसी के पास जो कुछ  
थोड़ा बहुत शेष रहता है वह भी इत्तसपुर का प्रयाग कर जाता  
है। अब यह स्पष्ट है कि स्वदेश प्रेम की जड़ को पुष्ट करना  
इस सब का परम कर्त्तय है।

देश प्रेम का भावाभाव उसके अनेक विकासों के द्वारा जाना  
जाता है। यदि मनुष्य जाति हित की कुछ भी कामना नहीं कर-

---

\* अप्रिल १९०८। मई १९०८ के "भारतवार्षी" की एक मेल्या  
में सुनित। न्यतन्त्र।

रहे हैं और चुपचाप बेठे हुए ऊँध रहे हैं, तो इससे यह प्रमाणित होता है कि उन लोगों में नाम मात्र को भी देशानुराग नहीं है। यदि हम लोग शित्प का व्यापार, वाणिज्य का प्रसार और शिक्षा का प्रचार करने में तत्पर है, तो यह अवश्य स्पष्ट होगा कि हम सबमें भारत माता की ओर प्रीति वर्तमान है। देशानुराग का एक अङ्ग या विकास यह भी है कि हम भारत के रक्तस्वरूप बड़े बड़े अग्रण्य विद्वानों का समुचित आदर करना सीखें। यदि इस काम में हमारा पेर कुछ भी पीछे पड़ता है, तो हम अवश्यमेव अपने कर्तव्य से पराड़्मुख हो रहे हैं, अपने यशस्वी भाई—अपनी जाति—का अपमान कर रहे हैं, भारत की उन्नति में लात मार रहे हैं और इससे भी महाभयङ्कर पाप, स्वदेश-प्रेमरूप हृदिस्थित कोमलाङ्ग शिशु का खून, कर रहे हैं।

एक कहावत है कि ‘यदि लक्ष्मी महारानी स्वयं किसी अभागे का कर पकड़े हो, तो भी मस्तक पर दर्दि का छप्प होने से उसके ऊपर ‘कचन नीर’ का एक विन्दु भी नहीं गिरता है।’ एक तो छाटे नगरों में बड़े महानुभाव जाते ही नहीं, और यदि गये भी, तो कभी कभी उन्हें इस सरल हृदयता के लिये पश्चात्ताप करना पड़ता है। बात भी सच है कि बड़े नगरों का बड़ा भाग और शुद्ध नगरों की शुद्ध ही ग्रहदशा होती है। यदि कभी किसी सुयोग के पड़ जाने से कोई महानुभाव दयालु होकर छाटे नगरों में पधारते हैं, तो वहाँ के निवासी “अदरख का स्वाद जानने” में बड़ी कोताही करते हैं।

ऐसे लोगों में देशोत्साह की गन्धि तक नहीं होती है । यदि कुछ हुई भी, तो करारे आदेशी के डर से वह रसातलगत हो जाती है । अनेक लोग यह भी नहीं जानते हैं कि नगर में कोई आया था या नहीं, अनेक जानते हुए भी अपने घर के कपाट बन्द करके सो रहते हैं, और कोई कोई चौरा के घरों में उिप कर निद्राड़ुगत हो जाते हैं, तथा घर के स्वामी से यह कह देते हैं कि यदि हमें कोई पूछने आये, तो कह देना कि बाबूजी यहाँ नहीं है । जहाँ ऐसे पिछान् मूर्द चौर भी ए पुरुष हों उस नगर से कुछ भी आशा करना दुराशा मात्र है । अनेक उत्साही जनों को, जो देशहितेषी महानुभावों की सेवा के लिये तेपर रहते हैं, या तो सूचना ही नहीं मिलती है, और यदि मिली भी, तो उन्हें सखेद यह जानने का दुर्भाग्य प्राप्त होता है कि “यहाँ आपके आने के पूर्व ही अमुक महोदय नगर से प्रक्षान कर गये ।”

जब उपेक्षा करने के लिये मनुष्य कटिबद्ध है चौर एक न एक काम के बहाने से दूर भाग रहे हैं, तब उनसे कौन आशा और सकना है कि वे नगर में आये हुए एक पिछान् का यथोचित आदर करेंगे ? इस छोटे से नगर सीतापुर में आकर लाला लाजपतिरायजी ने अपनी सहानुभूति चौर महानुभावता का परिचय दिया । बड़ा मनुष्य छोटे पर रुपा करता ही है, परन्तु यह छोटे लोगों के हाथ है कि वे चाहे उचित व्यवहार करके सभ्यमण्डली में यश लूटे, चौर चाहे तुच्छ उदाहरण

दिखा कर अपने मस्तकों को अपयश के तिलक से कलहूत करें। यहाँवालों को पिछली बात पसन्द आयी। इन्होंने लालाजी का उचित स्वागत न किया, उनके आने पर कुछ भी हृषि और उत्साह न दिखाया, तथा कुछ लोग दबकी लगाये हुए श्वास रोक कर बेठ गये और सोचने लगे कि देखे यह पाप यहाँ से कब टलता है। वास्तव में इस नगर में रईसों की सख्ति बहुत कम है। प्राय वे बाहर अपने अपने डलाकों में रहा करते हैं। ऐचारे “राजसेवक” दो तलवारों के बीच में हैं, वे “न इधर ही के और न उधर ही के” हैं। यहाँ पिशेष सख्ति बकीलों की है, जिन्हें कुछ भी भय न होना चाहिए, कारण कि वे सर्वथा स्वतन्त्र-जीवी हैं। जो कानून नहीं जानता है वह “राजद्रोह” से डरता है, परन्तु बकील लोग राजनियतों में उत्तीर्ण हैं और ये प्रत्येक फाम को निर्भय होकर कर सकते हैं, क्योंकि ये जानते हैं कि कौन विषय राजद्रोह को पहुँचता है और कौन नहीं।

येद है कि इस अवसर पर यहाँ के बकील-समुदाय ने कुछ उत्साह न दिखाया। लालाजी के आते ही आते अनेक बकीलों के तौ पेसे पेसे बड़े मुकद्दमे पेश हो गये कि उन्हें सायकाल तक छुट्टी न मिल सकी। वे लालाजी के दर्शन भी न कर सके। यहाँवालों ने इतनी बड़ी भूल की है जो, हमें भय है, सदा उनके हृदयों को दृग्ध किया करेगी। यदि सब के हृदयों को नहीं, तो यह चिन्ता कम से कम देश प्रेमियों के

नित्य को अवश्य जलायेगी । शोक है कि नगरवासियों ने सुन्दर देश-सेवक के साथ उचित व्यवहार न किया । इस उपेक्षा से लालाजी का महत्त्व और भी घटेगा, परन्तु यहाँ-घाला के हाथ अपयश ही रहा । भवभूति ने नच कहा है —

“सुगन्धित पुष्प का निर पर रक्खा जाना, न कि उसका पेरो से कुचला जाना, प्राणितिक रीति से शोभा देना है ।”\*

चैत्र शुक्ल १२ शी को १० बजे दिन के लालाजी स्टेशन पर उत्तरे ओर यहाँ नगर में एक घकील महोदय के स्थान पर उहरे । इन्होंने प्राय १ बजे स्थानीय गोशाला का निरीक्षण किया । तदनन्तर कुछ समय तक अनाथालय सम्बन्धी प्रस्ताव होता रहा आर यह उसी दिन सायकाल को ३ बजे फिर पिछले पेरो वापस कर दिये गये । शोक ! जब स्थानीय घकील महोदयों के यहाँ वेश्याएँ आती हैं, तब उनका जितना सत्कार किया जाता है उसका शताश भी लालाजी का आदर न हुआ । यदि व्याख्यान दिलाने में डर था, तो उन्हें एक-आध दिन रोक कर उनका आतिथ्य सत्कार करना सर्वथा उचित था । यह प्रश्न उपस्थित करना वर्थ है कि उन्हें समय ही न था, म्योकि यदि उन्हें समय न होता, तो यहाँ पर उनके पांच घण्टे के लिये आने ही की क्या आपद्यकता थी ? यहाँ के निवासियों का

\* “नैसर्गिकी सुभिण्य कुसुमस्य सिद्धा  
मूर्धि न्यन्ति चरणेत्वतादनानि ।”  
(भवभूति)

यह कर्तव्य था कि वे उनको कम से कम एक दिन तो अवश्य रोकते ।

जो होना या सो अच्छा हुआ । अब यदि इस पाप के करने पर भी भविष्य में उत्तम उदाहरण दिखा कर सीतापुर नगरधासी इसका प्रायश्चित्त कर डाले, तो भी कुशल है । हम नहीं कह सकते हैं कि समस्त भारत को जागते हुए देख कर यहाँ के लोग किस कारण से अब भी गाढ़ निद्रा में पड़े हैं ? अब चैतन्य होने का समय है । भीरता को छोड़ कर सच्चे मनुष्य बनने का अवसर है । देखे यहाँ के लोग कब सचेत होकर इस अपयश के तिलक को हटाने के लिये यत्नगान होते हैं ।

## ७-हरिद्वार और हृषीकेश की यात्रा ।



ज कल जहाँ देखिए वहाँ गम्भीर की अधिकता है और सूर्यनारायण अपनी उष्ण किरण माला से प्रत्येक मनुष्य को प्रतास कर रहे हैं । भारतवर्ष के “स्थूल-स्तम्भ”-स्वरूप अपने यहाँ के मोटे मोटे रईस घस की टट्टी से आच्छादित ठण्डे कमरों में पेंडो के नोचे “जीवन का आनन्द” भोग रहे हैं, उधर साहब लोग अपनो बड़ो तनायाहो से एक छोटी मोटी पुर्जी इकट्ठा करके मसूरी और नैनीताल की हथा के लिये हथा हो रहे हैं । आरत भारत की दरिंदी प्रज्ञा वैसे ही दुर्घात थी, इस साल दर्भिंश ने उसे और भी अधिक ढीला कर दिया है । कहिए उसके लिये पहाड़ों की सुपकर और आनन्दप्रद वायु कहाँ प्राप्त है ? अंग रेज लोग जिनना द्रव्य मसूरी में केघल एक सप्ताह रहने के लिये और रेल के अबल दर्जे के किराये में व्यय कर देते हैं उतने में एक दुखी भारतवासी कई ब्रसो तक चैन से समय काट

---

- जून १९०८ । ‘अभ्युदय’ की एक संख्या, जून १९०८ । मतन्त्र । हमने हृषीकेश से लाट कर खास हरिद्वार ही में इय लेस को लिया था ।

सकता है। देश के दरिद्री मनुष्यों की दशा अवदयमेव शोचनीय है।

अपने यहाँ के साते पीते लोग विलकुल चुप साधे नहीं बढ़ते हैं। ये भी स्वास्थ्यकर जलवायु के इच्छुक हैं, परन्तु इन्हें अकेली रुखी वायु नहीं माती है। ये इस आनन्द के साथ ही कुछ और भी लाभ उठाना चाहते हैं। यथापि ये भाग्यहीन हैं, तथापि ये “एक पन्थ दो काज” के सार को भली भांति समझते हैं। ये मसूरी और नेतोताल को न जा कर हरिद्वार में आते और ऐहिक तथा पारलैकिक आनन्द को प्राप्त करते हैं। जिन सज्जनों ने एक बार भी इस परमानन्ददायक तीर्थराज में आने का सोभाग्य प्राप्त किया है वे, हमें पूरा विश्वास है, यह कहने में कदापि सकोच न करेंगे कि यह स्थान अपने गुणों—स्वास्थ्य-वर्द्धन और आहादकरत्व—में अपनी समता नहीं रखता है। इस स्थान की मनोमेहिनी शक्ति वर्णन के बाहर है।

हम १३ जून को लखनऊ से पजाब मेल के द्वारा चल कर ग्रात काल १३ तारों को हरिद्वार पहुँचे। मार्ग में कोई विशेष घटना नहीं हुई, परन्तु एक दो रेलसम्बन्धी बातों का उल्लेख कर देना यहाँ आवश्यक है। अवध रुहेलखड़ रेल पर हरिद्वार के समीप लुकसर नामक एक स्टेशन है। हम सब अपना डेरा डाले हुए देहरा इलाहाबादवाली गाड़ी में निश्चिन्त बैठे हुए थे कि उक्स्टेशन पर एक किरानी साहब ने आकर यह सुचना दी कि आप

लोगों को यह डिल्ला जम्बर साली कर देना होगा । कारण यही था कि फुट साहब लोगों को भस्तुती जाना था । साहबों के डिल्ले न्यारे ही निर्दिष्ट थे, परन्तु “ नेटिव ” लोगों के दर्जे पर गिना दौत लगाये उस नाइट कैपचारी कल्पनाएँ साहब से न रहा गया । दो-एक बार हम लोगों ने उसकी बात को सुन लिया, परन्तु फिर हम नव ने पूर्ण प्रिरोध करने की ढानी । इस पर रेल कर्मचारी भी गृहा करके शान्त हो गये ।

कुछ दिन हुए पैदल साहब के समय में इस कंपनी का प्रबन्ध शुरू हो गया था । अब न जाने क्यों इसके प्रबन्ध में अनेकानेक घुटियां शुभी आती हैं । छोटी छोटी बातें जाने दीजिए । इस लाइन में, बहुत दिन नहीं हुए, बड़ी हृदय प्रिदारक दुर्घटनाएँ हो चुकी हैं । हम लोग गाजियावाद डस्नावाली भयद्वार रेल दुर्घटना को भूलने लगे थे, परन्तु हृषीकेश में इसी दुर्घटना प्रदर्श एक यात्री-समूह का साथ हो जाने से हम सबका शोक पूर्व के समान ही नहीं, प्रत्युत दूना हो गया । उन प्रेचारों के साथ एक शोक-प्रिहल प्रिरातीनी खीं थी । उसे देख कर हम सबको विराग होने लगा और नेत्रों में अश्रु न रक सके । हाय ! इसी खीं का एक बारह वर्ष का प्राणप्रिय पुत्र इस दुर्घटना की आग में बलि हो चुका था । ये प्रात काल से सायकाल तक अपने हृदय के दाह से पीड़ित रहते थे । यद्यपि उस भयानक हत्याकाण्ड को हुए प्राय डेढ़ महीना हो गया है, तथापि इनका शोकावेग “बहुत ही तीव्र, धारा के समान बहुनेवाला, और पुराना हो जाने पर भी

नये ही के समान था । वह आरे के सहश मर्म स्थानों की चीरता हुआ किसी समय भी न रुकना था”\* । कपनी की उपेक्षा के कारण एक नहीं, दो नहीं, सैकड़ों घर ऐसे ही उजाड़ हो गये हैं । कोई पतिवियोगिनी खी अपने प्राणव्यारे के लिये उण्ठो सांसे ले रही है और कोई शोकदग्ध जननी अपने जीवनावलम्ब प्रिय पुत्र के अर्थे अपना हृदय विदीर्ण कर रही है । आशा है कि उक्त रेलवे कम्पनी इन सब उठियों को दूर करके यात्रियों के ग्रुभाशीर्वाद को ग्रहण करेगी—अस्तु ।

गत वर्ष की अपेक्षा इस साल हरिहार में बहुत कम मेला हुआ । भयड़र दुर्भिक्ष और उससे उत्पन्न घोर दुख ही इस न्यूनता के कारण हो सकते हैं । यहाँ पर अनेक देव-मन्दिर और धर्मशालाएँ हैं, इससे यात्री को रहने का दुख होने की समझना नहीं है । हम पार्वत हृश्य और गाङ्ग सान्दर्य का वर्णन आगे करेंगे । यहाँ माया देवी, चण्डी महारानी, विट्वकेश्वर महादेव, सूर्यकुण्ड और कनखल में दक्ष प्रजापति का मन्दिर दर्शनोय है ।

प्राय दो वर्ष हुए हरिहार और त्वालापुर स्टेशन के मध्य में ऋषिकुल ग्रहाचर्याथ्रम की स्थापना की गयी थी । ईश्वर की कृपा से वह अब तक जीवित है । हम उसकी दीर्घायु के लिये

\* “पटुधारावाही नप इव चिरेणापि हि न मे,  
निष्टुतमर्माणि व्रक्त्व इव मन्तुविर्मति ॥”

भगवान् से प्रार्थना करते हैं । सहानुभूति की न्यूनता और मनोमलिनता के हो जाने से अपने यहाँ की अनेक सम्पादे गडबड़ा चुकी हैं । उसी वैमनस्य के बीज को, सुना जाता है, किसी 'महात्मा' ने इस पुण्यस्थली में भी डालने का साहस किया है । यह आथ्रम सब प्रकार से पोषणीय है । हमें आदा है कि प्रत्येक हिन्दू कुछ न कुछ देकर इस पवित्र मध्यिकुल की सहायता करेगा । इस आथ्रम के अधिकारियों से निवेदन है कि वे वैमनस्य को हटा कर इसका प्रबन्ध एक सुशिक्षित तथा सुयोग्य सभा को दें और इसे चिरस्थायी तथा उपयोगी बनावें ।

१५ जून को ग्रात काल हृषीकेश के लिये तेयारी हुई । घैलगाड़ी के सिना वहाँ तक घोर कोई सवारी नहाँ जाती है । मार्ग में दो एक स्थानों में पहाड़ पर चढ़ कर उतरना पड़ता है । यहाँ के लोग कोसा का 'मील' कहते हैं । पहले सुनते थे कि हरिद्वार से हृषीकेश १० 'मील' है । हमने सोचा था कि अपने हिसाब से केघल ५ कोस चलना होगा, परन्तु उनके सान में हमें १० कोस का मार्ग नापना पड़ा । रास्ते के पथरीले होने के कारण घैलगाड़ी को बहुत हिलना और 'लडखडाना' पड़ता है । हृषीकेश यात्रा में गाड़ी के आन्दोलित होने के कारण घोर रूप से उदरमन्थन हो जाता है । लेटते समय एक अति स्थूलाङ्क सेठजी का घोर हमारा साथ हुआ । जिस समय पथरी के ऊपर चढ़ कर गाड़ी छट से नीचे गिरती थी, तब घह

वेचारे सेठ अधमरे हो जाते थे । रास्ते में ग्राधी दूर पर सत्य-नारायणजी का मन्दिर पड़ता है । हृपीकेश में भरतजी के दर्शन और गगा स्नान मुख्य हैं । यहाँ पर बाबा कालीकमलीबाले की धर्मशाला में यात्रियों को बड़ा सुख मिलता है । इसके कर्म चारी योग्य आर नम्र है ।

हम १६ जून को प्रात काल हृपीकेश से आगे बढ़े । यहाँ सघारी नहीं जाती है आर अपने पैरों ही से काम लेना पड़ता है । उक्त स्थान से प्रायः पैने दो कोस लक्ष्मणझूला है । रास्ते में पहले पहल कैलास-विद्या-मन्दिर, तदनन्तर शब्दुज्जी का देवालय, फिर ब्रह्मलीन स्वामी रामतीर्थजी एम० ए० का सारकरूप 'श्रीरामाश्रम,' और लक्ष्मणझूला अत्यन्त रमणीय स्थान है । इस स्थान में गगाजी का पुल नीचे से कोठियों पर नहीं, बरन ऊपर स्प्रगदार लोहे के पुष्ट रस्तों पर अवलम्बित है । बीच पुल पर प्राप्त होते ही वह बड़ा निराधार हि डोला झूलने लगता है । लक्ष्मणझूला तथा हृपीकेश के आनन्द का अनुभव करके १६ तारीख की रात्रि में हम सब हरिद्वार वापस आये और अब १९ की रात्रि में मकान के लिये प्रस्थान करने का विचार है ।

उक्त तीनों स्थानों के घर्णन के साथ श्री गङ्गाजी की अलै किक छटा का निरूपण करना अत्यन्त आवश्यक है । हरिद्वार

के आगे जितना पूर्व को बढ़िए उतना ही गङ्गाजी के साथ अनेक प्रकार के अन्यायों के होने के कारण इस पनितपावनी नदी की दशा दूषित होती गयी है । हरिद्वार में भागीरथी के देव घार तेज को देख कर कोई नहीं अनुमान कर सकता है कि प्रगाम आदि स्थानों में यह अत्यन्त उथली और मन्द हो जावेगी । यहाँ पर ध्यावन से भरी हुई कोमलाङ्गी, परन्तु प्रबल, और सुन्दरी, परन्तु विशाल मूर्तिमती, गङ्गा देख पड़ती है । अपनी रमणीयता और सरसना से तटवासियों को निरन्तर मोहिन करना इसका मन्त्र है । इसके ऊपर हृषीकेश और लक्ष्मणङ्गला में आप गङ्गा-बालिका को झूलते हुए पाइएगा । वहाँ यह हठोली लड़की के सहश कहीं हँसती, कहीं खेलती, कहीं चिल्हाती, और कहीं पर गाती हुई हृषिगोचर होती है । उस सान पर इस विशाल तेजस्वी बालिका का रूप अद्भुत है । वहाँ पर इसे अपने मित्र पर्वत और वन की गोद में, तथा अपने पथरीले झूले पर खिलगिला कर ढैड़ते हुए देख कर देखनेवाले के चित्त में असीम आनन्द होता है । लक्ष्मणङ्गला के समीप वन्य और पार्वत हृष्य गङ्गाजी की ओर स्वयं भागीरथी उनकी शोभा बढ़ाती है । यहाँ पर गङ्गा का अदूषित रूप, अप्रतिहत तेज, और चढ़ती हुई यौवना वस्त्र का बल दिखायी देता है । जिन्हें गङ्गाजी की स्वाभाविक मधुरता, शीतलता और सुस्वादुता का आनन्द चखना हो उन्हें उक्त सान अपदय देखने चाहिए । इसमें सन्देह नहीं कि वहाँ वे भागीरथी के अनुष्म सोन्दर्य, अलैकिक प्रकाश, अनु-

लनोय लावण्य, अप्रतिम रूप, अपरिमेय तेज और अकथनीय प्रभाव से अवदय मोहित होकर यहाँ के आनन्द और सुख को सदा स्मरण रखेंगे ।

## ८—श्लोक-पुष्पाञ्जलि का आशय ।\*

यह कैनिंग कालेज अवध में शोभा दे रहा है  
और अपने गौरव से सबके आनन्द को  
बढ़ाता है ।

२—इसके प्रभाव से चाल्लव में शिक्षा का  
बहुत कुछ प्रचार होगया है और इसमें पढ़े  
हुए अनेक प्रिद्वान् दिखायी देते हैं ।

\* मार्च १९०६ । स्वतन्त्र । जय बादशाह थाग, लखनऊ, में कैनिंग  
कालेज के नवीन भग्न की नीव दी गयी थी, उस समय पढ़े जान के  
लिये प्रधानाध्यापक श्रीयुत पू० एच० पीरी महादय की आज्ञा से  
हमने नीचे लिये हुए श्लोक यनाये थे । उन्होंका आशय हम उपर दे  
रहे हैं । ऑटो के लिये हमारे प्रधानाध्यापक महोदय न हनको छुपवा भी  
लिया था । उस समय की सभा में हमने स्वयं इन्हें पढ़ा था —

आत्मे-रथदेशेऽय कैनिंग पठनालय ।

प्रतिपन्थादि सर्वेषामां छादजनको महान् ॥१॥

नूनमस्य प्रभावेण गिर्वा वै प्रचुरीहृता ।

श्यन्ते यद्य ग्रामा अश्राप्ययनशीता ॥२॥

लनोय लावण्य, अप्रतिम रूप, अपरिमेय तेज और अकथनीय प्रभाव से अवश्य मोहित होकर यहाँ के आनन्द और सुख का सदा स्मरण रखेंगे ।

## ८—श्लोक-पुष्पाञ्जलि का आशय ।

१—यह केनिंग कालेज अवध में शोभा दे रहा है और अपने गौरव से सबके आनन्द को बढ़ाता है ।

२—इसके प्रभाव से वास्तव में शिक्षा का बहुत कुछ प्रचार होगया है और इसमें पढ़े ए अनेक विद्यान् दिखायी देते हैं ।

\* मार्च १९०६ । स्वतन्त्र । जग गादगाह थाग, खटलड, में केनिंग कालेज के नवीन भवन की नींव दी गयी थी, उस समय पढ़े जाने के लिये प्रधानाध्यापक श्रीयुत ए० एच० पीरी महोदय की आज्ञा से मने नीचे लिये हुए श्लोक बनाये थे । उन्हीं का आशय हम ऊपर दे हे है । वट्टने के लिये हमारे प्रधानाध्यापक महोदय ने इनको छुपवा भी जाया था । उस समय की सभा में हमने स्वयं हन्दे पढ़ा था —

आजतेऽपथदेशेऽय केनिंग पठनाक्षय ।

प्रतिपत्त्याहि सर्वेषामाल्हादजनको महान् ॥१॥

नूनमस्य प्रभावेण शिक्षा वै प्रसुरीकृता ।

दर्शनते वहू भाना अग्राध्ययनदीक्षिता ॥२॥

३—वे हर्ष के साथ इस ज्ञान के देनेवाले, बड़े उपकार के करनेवाले और चरित्र के सुधारनेवाले केनिंग कालेज को बारम्बार सरण करते हैं ।

४—सर जान हेवेट (तत्कालीन छोटे लाट) के द्वारा म्यापित यह केनिंग कालेज का नवीन और विशाल मन्दिर बहुत समय तक सुशोभित रहे ।

५—पहिले पहिल विद्या पढ़ाने की इच्छा से अवध के अनेक उद्दिष्टमान् और विचारशील सज्जनों ने लोकोपकार के लिय इसका स्थापन किया । आज इस बादशाह बाग में इसी का नवीन भवन बन रहा है ईश्वर करे कि श्रीयुत पीरा, कैमरन और चाड नामक अध्यापकों से युक्त यह विद्यालय (सदा) शोभा दे ।

त एत ज्ञानदातार महान्तमुपकारिणम् ।

निर्मातार मुदृतस्य मंस्मरन्ति सुरान्विता ॥३॥

सरेत्युपाधियुक्तेन जानहेत्वेन म्यापितम् ।

चिरं शोभेत सुनव विशालन्वस्य मन्दिरम् ॥४॥

पूर्वे उद्दिविचारसारपरमेविद्याप्रदानेष्वुभि

स्वस्य स्थापनमावधीय सुजनेलोकोपकृत्ये कृतम् ॥

मोऽथ सम्प्रति बादशाहरमणोद्यान नवो रच्यते ।

श्रीमन्तीरियबाँडक्रन्युतो विद्यालयशोभताम् ॥५॥

६-सूर्य के समान उज्ज्वल और स्मिथ इत्यादि अध्यापकों से भी सयुत इस कल्याणकारी तथा प्रियात विद्यालय की दिनो-दिन उन्नति हो ।

७-यह उत्तम गुणों से अलकृत और सजानो के द्वारा बोया हुआ बीज बढ़े । यह श्रीयुत डाकूर हाइट के द्वारा पला हुआ पुष्प शोभा को प्राप्त हो । इस प्रकार से इस समय कल्यानक के समान यह उत्तम विद्यालय सुशोभित हो और यह कैनिंग कालेज (मध्यको) उत्तमता के साथ विद्या का सुख दे ।

अय प्रख्यातनामा हि शुभो जुष्टस्मियादिभि ।

वर्धता वर्धतात्रिय मार्तण्डकिरणोज्ज्वल ॥६॥

उप दिव्यगुणरल्हृतनरेवंजि त्विद वर्धताम् ।

श्रीमद्वडायटरह्नाहटेन सुधत पुष्प विद भ्रान्ताम् ॥

एव मम्प्रति कल्पपादपनिभो वृद्धोत्तमो राजताम् ।

कैनिंग कालेज-नामकेन सुतरा विद्यासुख धीयताम् ॥७॥

## ६—पण्डित हरिदत्तजी शास्त्री ।

नम पव मरण इस असार मृत्युलोक का एक साधारण दैनिक नियम है। यह निश्चय है कि जिसने जन्म लिया है वह एक न एक दिन अचूक्य इस ससार को छोड़ेगा, परन्तु जिस मनुष्य ने अपनी असाधारण प्रतिभा तथा अलौकिक निष्पत्तिता से देश के अधिकाश पर अपने विशाल अस्तित्व का प्रतिपादन करके बहुत मनुष्यों की दृष्टियों में अपनी देदीप्यमान प्रभा का प्रभाव उत्पन्न कर लिया हो उसके विषय में इस साधारण पव लाकिक घटना—इस शारीरिक पर्य घसान-सम्बन्धी अनिष्ट समाचार—को सुन कर अधाक ही रह जाना पड़ता है। यही नहों, बरन अन्त में उस हृदय विदीर्घ-कारी बृत्त की सत्यता के प्रमाणित होने पर यह आश्वर्य शीघ्र ही हार्दिक दुर्ख तथा प्रबुर अथुपात को स्थान देता है।

हम लोगों की ढीक यही दशा नैनीताल ज़िला के अन्तर्गत शिलोटी-भीमताल निवासी पूज्यपाद श्री पण्डित हरिदत्तजी शास्त्री के दु सजनक परलोकधास से हुई। आज ज्योतिप शास्त्र का

\* फरवरी १९११। “मर्वादा” भाग २, संख्या ४, पृष्ठ १६६—१६८। न्यतन्त्र।

एक प्रकाशमान रक्ष ससार से उठ गया और एक कर्मनिष्ठ, शास्त्रोय विद्या-निपुण तथा पवित्र महात्मा का अभाव हो गया । परलोकवासी शास्त्रीजी को कमाऊँ के रहनेवाले विद्वान् भलीभाँति जानते थे, और अपने देश में भी विद्वन्मण्डली में इनके पवित्र एवं विधुत नाम से बहुत कम लोग अपरिचित हैं । वही प्रख्यातनामा और स्वनामधन्य पण्डित हरिदत्तजी शास्त्री अब इस ससार में नहीं हैं और इनका पूर्ण परिचित-जन मण्डल इनके चिर वियोगजन्य असहा सन्ताप से दुखित हो रहा है ।

सन्वत् १९०० में पण्डित हरिदत्तजी शास्त्री का जन्म, कमाऊँ प्रदेशान्तर्गत शिलाई “छलाता” ग्राम में, हुआ था । इनके पिता, पितामह एवं प्रपितामह बडे बडे विद्वान् होते चले आये हैं । यह वश कमाऊँ के राजाओं का राजज्योतिषी रहा । शास्त्रीजी के पूज्य पिता का नाम प० गङ्गादत्तजी था । वाल्य चक्षा ही से प० हरिदत्तजी प्रतिभाशाली और कुशाग्रुद्धि थे । आरम्भ से इनके पितामह प० नारायणगृणजी ने इनको विद्याध्ययन कराया और अपने हाथों से इनका उपनयन एवं प्रियाह-स्सकार किया । अनन्तर इनके पिता प० गङ्गादत्तजी ने इनको ज्योतिष के बडे बडे ग्रन्थ एवं पढ़ा कर इस शास्त्र में भली भाँति निष्पन्न किया तथा तन्त्र-शास्त्र का भी अभ्यास कराया । अट्मोडा-“कज्ञोन” जिवासी पड़िन लक्ष्मीदत्त जौशी ने प० हरिदत्तजी को शिरोमणिसिद्धात, गोलाध्याय, लीलाघती इत्यादि पढ़ाया ।

१८ वें वर्ष ही से प० हरिदत्तजी अपनी विद्या एवं बुद्धि का अद्भुत चमत्कार दिखाने लगे । इनमें वैलक्षण्य एवं तेजस्विता के लक्षण स्पष्ट रूप से दिखायी देते थे । ज्योतिष-विषयक प्रश्न तथा कुण्डली के चामत्कारिक यागो के बतलाने में यह अपने पिताजी की अपेक्षा भी अधिक नैपुण्य को प्रकट करने लगे । इनकी सरणशक्ति अद्भुत थी यहाँ तक कि यदि किसी समय पहिले की देखी हुई कुण्डली को यह दश वर्ष बाद भी देखते थे, तो यह झट से कह देते थे कि अमुक समय पर इतने वर्ष पूर्व हमने यह जन्मचक्र देखा था । यीरे धीरे अनुभव के बढ़ने के साथ यह ज्योतिष-विद्या में इतने प्रबोच हो गये—इनमें इतना असाधारण बल आ गया—कि यह प्रश्नों के अत्यन्त आश्चर्य जनक उत्तर देते थे । लोग बहुधा यह कह बैठते थे कि ‘जान पड़ता है कि पण्डितजी को यक्षिणी आदि सिद्ध है,’ परन्तु था यह कुछ भी नहीं, इनकी वही असाधारण निपुणता इनका चमत्कार उत्पन्न करने में समर्थ बनाती थी ।

एक समय बरेली के प्रसिद्ध रईस राय साहब पीतमराय ने इन से अपन किसी बीमार प्रिय जन के बारे में यह प्रश्न पूछा कि रोगी कब अच्छा हो जायगा । प० हरिदत्तजी के विचार में आया और वही कहना पड़ा कि आज से १५ वें दिन उसका शरीर-पात हो जायगा । राय साहब ने अन्य २०—२५ पण्डितों की सम्मति से आरोग्यलाभ के लिये शनचण्डो का प्रारम्भ किया । पहिले तो रोगी का चित्त अच्छा होने लगा, परन्तु ईक १५ घं

दिन उसे प्रबल मुर्छा आयी और दिन में भ बजे वास्तव में उसके प्राण छूट गये । इस अद्भुत विचार का हाल बरेली के अनेक बड़े बूढ़े लोग जानते हैं । यह इसी तरह की सैकड़ों प्रसिद्धजनक घाते अनायास घतलाया करते थे ।

यह २४ घर्ष की अवस्था में हरिदार में महाराजा बहादुर काश्मीर से मिले । महाराजा साहब इनकी विलक्षण प्रतिमा पर अत्यन्त मुग्ध हुए । भूतपूर्व टिहरी-नरेश महाराजा प्रताप शाह बहादुर भी इसी तरह से इनसे अत्यधिक प्रसन्न हुए । चर्तमान टिहरी-नरेश महाराजा कीर्तिशाह बहादुर पण्डित हरिदत्तजी शास्त्री की बड़ी प्रतिष्ठा करते थे और सदा सत्कार करते रहे । अयोध्यानरेश न्यर्गवासी महाराजा प्रताप नारायण सिंह एवं अवध ग्रान्त के अनेक बहुत बड़े बड़े तब्लुकदार इनको बड़ मान की हृषि से देखते थे और इनकी चमत्कारजनक ज्योतिष प्रिचार-सम्बन्धी प्रीताना पर बहुत मोहित थे । ताजपुर-दल्दौर के राजा इनकी बहुत श्रद्धा करते थे । यह पहिले ही से वहां पर गुरुवत् माने जाते थे । यह कुल परम्परा से काशीपुर-राज (कमाऊ) के छारा सम्मानित रहा है । अब तक भी महाराजा काशीपुर शास्त्रीजी की अत्यन्त अधिक प्रतिष्ठा करते रहे हैं । इसी तरह से समीपवर्ती समस्त राजमण्डल, अल्मोड़े के राजा एवं बरली के अनेकानेक बड़े बड़े प्रसिद्ध सज्जन इनमें बड़ी भक्ति रखते थे और दृढ़ विश्वास करते थे । यहीं नहीं कि केवल हिन्दू महानुभावों ने इनका सम्मान किया हो, बरन रियासत

गमपुर के भूतपूर्व नदाब, नदाब छतारी प्रभृति अनेक मुसल्मान महापुरुष, बडे बडे अफ़्सर और बहुत से सुशिक्षित सज्जन लोग अपने हृदय से इनकी प्रतिष्ठा करते थे और सब तरह से इनका सम्मान करते थे । आज भी सैकड़ों पूर्णविद्या सम्पन्न पर बडे बडे आहदेदार लोग इनके दृढ़ शिष्यों में परिगणित हैं । प० हरिदत्तजी ने अपने ज्योतिष शास्त्र नेपुण्य से कितने ही जैनी, आर्यसमाजी और कट्टर नात्तिकों को भी सनातनधर्मानुयायी बनाया ।

केवल कमाऊँ ही नहीं, बरन युक्तप्रदेश भर में प० हरिदत्तजी शास्त्री के समान फलित ज्योतिष का गम्भीर और प्रबल ज्ञाता कदाचित् ही कोई दूसरा हुआ होगा । यह इस प्रिय—फलित ज्योतिष—में प्राय अद्वितीय थे । ज्योतिष शास्त्र की अनेक व्यवस्थाएँ तथा कुण्डली काशी के पण्डितों को दिखा कर लोग इनके पास भेजते थे । मूक प्रश्नों के बतलाने में इनके समान पिरला ही कोई दूसरा विद्वान् था । एक मनुष्य मात्र की कुण्डली को देख कर समस्त कुटुम्बियों और सम्बन्धियों का हाल कहने तथा उसी से सारे जीवन की भूत और संप्रिय घटनाओं के वर्णन करने की अद्भुत क्षक्ति इन्हीं में थी । मृत मनुष्य की कुण्डली को देख कर यह तुरन्त कह देते थे कि यह व्यक्ति अमुक वर्ष मर गया, इसका जन्मचक्र हमारे पास किस प्रयोजन से लाये हो ? यह सभी र्भाति के विचार स्पष्ट शब्दों में निश्चय के साथ बनला दिया करते थे ।

उधर इनमें विद्या का असाधारण बल घर्तमान था, इधर उपासना और सदाचार की विलक्षण शक्ति भी इनमें पूर्ण रूप से विद्यमान थी । यह बड़े सदाचारी, धर्मनिष्ठ, कर्मनिष्ठ तथा सच्चै भगवदुपासक थे । यह प्रतिदिन प्राय डेढ़ पहर भगव दुपासना में व्यतीत करते थे । यह रात्रि में भी ८ बजे से प्राय १२ बजे तक विविध ग्रनुष्ठान तथा पूजा पाठ किया करते थे । इन्होंने गायत्री, सावित्री और सरस्वती के सवा सवा लक्ष के पुरश्चरण १८ घर्ष की अवस्था से मरण पर्यन्त किये । यह नवरात्रियों में दुर्गापूजा तथा ब्रत पूरी भक्ति और बड़े विधान से किया करते थे । इनका परिवर्त तथा विशाल शरीर ग्रहतोज से देवीपूजान देय पड़ता था ।

यह बहुत ही सुशोल और सीधे साद स्वभाव के पुरुष थे । इनका स्वप्न में भी अपनी प्रतिष्ठा का अभिमान नहीं होता था । यह बड़ी प्रीति के साथ छोटे और बड़े सभी से मिए भाग्य करते थे । इनको क्रोध आते देखा ही नहीं गया । हार्दिक प्रसन्ननासूचक आहादकारी मुखकान से इनका मुख-कमल सदा प्रफु हित रहता था । यह एक दरिद्री किसान तक से बड़े आदर खोर स्तेह से वार्तालाप करते थे । इन्होंने विना किसी स्वार्थ के गरीबों की बहुत कुछ चिकित्सा की ओर विना मूल्य भंकड़े रूपयों की पौष्टि दी । इनमें ज्योतिष शास्त्र के अलैक्षिक परिज्ञान के साथ साथ विद्यक शास्त्र के भी गुणों का घर्तमान होना वास्तव में सोने में सुगन्ध था । इनके घर पर बड़े

बड़े शिक्षित तथा प्रतिष्ठित लोगों की भीड़ लगी रहा करती थी ।

सन् १९३५ में प० हरिदत्तजी का पितृ-वियोग का शोक हुआ । इसी वर्ष इनके द्वितीय पुत्र पण्डित मुकुन्दरामजी का जन्म हुआ । सन् १९४० में तृतीय पुत्र पण्डित रामदत्तजी का जन्म हुआ । पण्डितजी को अपने सामने ही अपने ज्येष्ठ पुत्र श्रीकृष्णलुदत्त जी के कैलास-वास का असहा दु ब्र उठाना पड़ा । यद्यपि इनकी अवस्था ६७ वर्ष की थी, तथापि इनका शरीर हृष्पुष्ट एवं नीरोग था, इनकी हृष्टि वैमी ही शक्ति-सम्पन्न थी, और इनको चक्रमे की विलकुल जरूरत नहीं पड़ती थी । इधर दो घर्षों से इनको एक प्रकार का मूर्छा रोग हो गया था । समय समय पर इसका दौरा हुआ करता था, इसीके कारण इनमें कुछ मानसिक नेर्वल्य आने लगा था, और सिर में कभी कभी चक्रर सा आजाता था । चहुत कुछ ओपरियाँ की गयीं, परन्तु सब निपक्ष दुर्बुद्धि । दैव की इच्छा बड़ी प्रबल है, माघ शुक्ल ८ को इन पर मूर्छा का एक प्रबल आक्रमण हुआ । इससे यह सप्ताह पर्यन्त अचेत रहे । सात दिन निरशन घत करके तथा गायत्री का जप और भगवद्गीता का पाठ अवल करते हुए, माघ शुक्ल १५ स० १९६७ को, यह अपना पाइचभोतिक शरीर छोड़ कर परम धाम को सिधारे । इनकी मृत्यु के साथ ज्योतिषशाखा का एक वृहत् तथा देवीप्यमान नक्षत्र अस्त होगया, तन्त्रशाखा एक अपने निपुण पुद्य से

विवित हो गया, और भारतवर्ष का एक उद्घट पिद्वान्—एक जगमगाता हुआ रजा—हम लोगों के हाथ से उन गया। आज कमाऊँ प्रदेश के हजारों और भारतवर्ष के अनेक ज्योतिष-प्रेमी इनके असहा वियोग से अश्रुपात करते हुए दुखित हो रहे ह। भगवान् इनकी पवित्र आत्मा के शान्ति और अक्षय सुख दें।

पण्डित हरिदत्तजी अपने पीछे चार भाई दो पुत्र और एक पात्र नाड गये हैं। हर्ष का विषय है कि इनके छोटे पुत्र पण्डिन रामदत्तजी ज्योतिर्विद् अपनी कुल परम्परा पर पूर्णतया सित हैं। यह भी कर्मनिष्ठ, दधोतिष्ठशास्त्र में निषुण तथा स्वभाव में ठीक अपने पिताजी के समान हैं, और कुछ समय बाद ही बहुत उन्नत होने के लक्षण दिखा रहे हैं।

## १०—मसूरी पहाड़ ।

ऊंचे पर्वत भगवान् की विचित्र रचना-शक्ति  
के बढ़िया आदर्श हैं। विकट गर्मी के दिनों  
में अपने यहाँ देश की ओर उसी समय  
इन ऊंचे पहाड़ों की दशा का मिलान करने  
से इस बात का पूरा पूरा परिचय मिलता है। जब वहाँ  
जलते हुए सूर्य की तेज किरणे वनस्पति ससार के सौन्दर्य  
को जला कर भस्म कर डालती हैं, उन दिनों में यहाँ हरे हरे  
चमकदार पत्तों से युक्त लहलहाते हुए बृक्ष और मुसकराती  
हुई कुञ्जे इस ऊंची-नीची पहाड़ों भूमि की सुन्दरता को  
चौगुनी कर देती हैं। जिस समय देश में भयङ्कर लू अपने  
प्रचण्ड वेग से नगरों को ओर गाविए को जड़ से हिला देती  
है, तब पर्वतों की सुगन्धित और चन्दन के समान शीतल

\* दिसम्बर १६११। मर्यादा भाग ३, संख्या ४, पृष्ठ १६२—१७२।  
म्यतन्त्र। हमने इस लेख को इस पहाड़ पर प्राय नौ महीना रहने के  
चाद वहाँ से चलते समय खास मसूरी ही में लिखा था।

वायु सभी प्राणधारियों और वृक्षों के शरीर में एक अद्भुत शक्ति का सञ्चार करती है। इसी तरह से जब वहाँ का जल घेठब गर्मी के कारण अपने स्वाभाविक गुण—शैत्य—को भी छोड़ घेठता है, उस समय पहाड़ी भरनों का साफ, ठण्डा और मीठा पानी वास्तव में एक अलाकिक आनन्द का कारण होता है। अपने देश की दशा से ऊँचे पहाड़ों की परिधि इतनी ज्यादा विलक्षण है कि वहाँ से ज्येष्ठ की दहकती हुई गर्मी से यहाँ आते ही नीचे के सब कष्ट भूल जाते हैं और सब और आनन्द ही आनन्द की बाटिका हरी भरी दिखलायी पड़ती है। पर्वतों के इन्होंने प्रिचिन्त्र गुणों के कारण, और देश की प्रबल गर्मी से बचने के लिये भारतवर्ष भर में धीरे धीरे कई एक पहाड़ी शहर बस गये हैं। यह “मसूरी पहाड़” भी, नैनीताल और अलमोड़ा के सिवा, अपने युक्त प्रदेश में एक रमणीय और पहाड़ी नगर है।

मेरठ की कमिश्नरी में देहरादून मिलकुल उत्तर का ज़िला है। इसके उत्तर में हिमालय पर्वत की कुछ नीची थेणी पर और समुद्र के तल से प्राय ७००० फीट की ऊँचाई पर यह मसूरी नगर बसा हुआ है। ज़िला देहरादून में नियत ऑगरेजी फोज के एक बड़े अफसर ने पहले पहल सन् १८२८ई० में वर्तमान ‘केमेल्स थेक’ पहाड़ी पर एक स्थान में अपने शिकार खेलने के लिये एक मचान और छोटा-मोटा मकान बनाया। यहाँ के स्वास्थ्यकर जल-चायु पर मोहित होकर

और अंगरेज़ लोग भी उसके बाद आने लगे और सन् १८२७ में गवर्नर्मैण्ट ने “लैंडोर पहाड़” पर रोमी गोरों के रहने के लिये कुछ मकान तैयार कराये । अनन्तर यहाँ अंगरेजों का आना-जाना बढ़ता ही गया और इसी तरह से धीरे धीरे यह हरा-भरा मसूरी नगर आज अपने पर्वतमान रूप को पहुँचा हे । अब यह कोई ५ ६ मील के घेरे में बसा हुआ है और गर्मी की छत्र में इसकी जन-साक्ष्या प्राय १६००० तक पहुँच जाती है—पैसे साधारणतया इसकी आबादी करीब करीब ६००० के है । जाड़ों को छोड़ कर देहरादून के कलेक्टर और मेरठ के कमिश्नर अधिकतर यहाँ रहते हैं । उस समय देहरादून के जजखफीफ़ा और पुलिस सुपरिन्टेंडेन्ट प्राय मसूरी ही में वास करते हैं । यहाँ एक डेप्युटी मैजिस्ट्रेट वारहा महीना रहता है और इस स्थान का एक सिविल सर्जन भी देहरादून से न्यारा ही है । स्थानीय म्यूनीसिपेलिटी अपना काम भलीभांति चला रही है । कदाचित् इसके केवल दो सभासद हिन्दुस्तानी हैं और बाकी सब अंगरेज हैं । सड़कों की मरम्मत और सफाई पर पूरा ध्यान दिया जाता है । गत गर्मी की छत्र में पानी बहुत कम बरसा था और इस कारण से पहाड़ के स्वभाव को देखते हुए यहाँ कुछ गर्मी सी पड़ने लगी थी । उन दिनों में सड़कों के छिड़काव का बड़ा अच्छा बन्दोबस्त था । म्यूनीसिपेलिटी ने प्रयत्न करके भट्टार्गाँव के नीचे एक बड़े पानी के गिराव से कल ढारा विजली की शक्ति के सम्बन्ध का प्रबन्ध कर लिया है और इसकी सहायता

से अभी लैंडोर पहाड़ को छोड़कर कुल शहर में विजुली की रोशनी की जाती और पानी ऊपर को पम्पों में पहुँचाया जाता है। इन बातों से मसूरीवासियों को बड़ा सुभीता रहता है, परन्तु यदि कहाँ दुर्भाग्यवश पिजुली का पिज्जुन कुछ विगड़ गया, जैसा कि गत प्रिल में यहाँ हमारे आने के कुछ ही समय बाद हुआ था, तो फिर रोशनी से एकदम हाथ धोना पड़ता है और साथ ही पानी के लिये नीचे भरनों को भीलो जाना पड़ता है। यह हर्ष की बात है कि प्रबन्धक लोग दो ही चार दिनों में अपनी कल ठीक कर लेते हैं और पहिले की तरह फिर काम चलने लगता है—अस्तु ।

मसूरी आने के लिये अवध रहेलयड रेलवे के लुकसर स्टेशन पर पहिले उत्तरना होता है। यहाँ से फिर हरिडार-देहरा रेलवे में बैठ कर देहरादून स्टेशन तक यात्रा करनी पड़ती है। यही इस लाइन का अन्तिम स्टेशन है। रेल पर से कुछ पहिले ही से बहुत दूर ऊचे पर सामने मसूरी का हृश्य बड़ा मनोरम दिखायी देता है, और यदि उस समय रात हुई, जैसा कि मार्च, प्रिल अथवा आकूबर में ग्रात काल ५ बजेवाली गाड़ी में आने से होता है, तो आकाश में मानो लटकी हुई इस नगर की दीपमालिका हृदय पर विचित्र भावों को उपजाती है। देहरा-दून से पहाड़ के नीचे राजपुर तक तींगा, घण्ठी या टमटम पर जाना होता है। यह ७ भील का सफर प्रायः एक घटे में न हो जाता है। यहाँ पर से मसूरी की चढाई शुरू होती है। यह

बाकी ७ मील की यात्रा डाढ़ी या घोड़े पर करनी होती है। राजपुर स्वयमेव समुद्रतल से प्राय ३००० हजार फीट ऊँचा है। यहाँ से चल कर आधी दूर पर भड़ी पानी नामक स्थान है। यह ५२०० फीट की ऊँचाई पर है। यहाँ पर “जलपान” करने का अच्छा सुभीता है। इसके कुछ ही ऊपर नेपाल के भूतपूर्व महामन्त्री महाराजा देवशमशेरजग बहादुर का बढ़िया और सुन्दर “फेयरलान” नामक निवास स्थान है। इसकी सजावट देखने के योग्य है। इसके आगे प्राय २ मील चल के बारेंगज पड़ना है। यहाँ से थोड़ी बहुत मसूरी की बस्ती शुरू हो जाती है। इस जगह से एक रास्ता नीचे “किताब घर” की ओर का चला आता है और दूसरा बायें हाथ की ओर कुछ और चढ़ाई के बाद “लैंडोर पहाड़” को जाता है। डाढ़ी पर प्रायः दो ढाई घटे और घोड़े पर अधिक से अधिक डेढ़ घंटा मात्र मसूरी तक आने में लगता है। पहाड़ी लोग असबाब लेकर प्राय ३४ घटा में आते हैं। ये इतने ईमान्दार होते हैं कि इनके पास से किसी चीज़ के चोरी जाने का खटका नहीं रहता है।

वर्तमान समय में मसूरी की बस्ती उत्तर से लेकर कुछ दूर तक दक्षिण की ओर फिर वहाँ से सीधे पश्चिम की ओर फैली हुई है। साधारणतया यहाँ की मुख्य सड़कें समुद्र-तल से प्राय ६५०० फीट की ऊँचाई पर हों। इन पर चलते हुए कहाँ पर दाहिनी ओर कहाँ घायों ओर भी अधिक सैकड़ों फीट ऊँची

पहाड़ियाँ और पहाड़ हैं। इन सब पर और सड़कों के नीचे की ओर पत्थरों का घारूद से उड़ाया काट कर उत्तम उत्तम स्थानों में सैकड़ों कोठियाँ तैयार कर ली गयी हैं। इनमें से अधिकाश किराये पर उठा करती हैं और कुछ भलेमानसों और ज़र्गरेज दूकानदारों की निज की भी है। इस शहर की आवादी अब भी दिनों-दिन बढ़ती जाती है। यदि यह पेसे ही ज्यादा होती गयो, तो इस बात में वह सन्देह है कि इसका जल घायु इतना ही अधिक अच्छा बना रहेगा। मसूरी की वस्ती के नीचे लिखे हुए मुख्य अङ्ग हैं—

१—“लड़ोर पहाड़ ।” यह इस नगर की पूर्वोत्तर कोण की सीमा पर है और इसकी सबसे अधिक ऊँचाई ७५३३ फीट है। यह मसूरी भर में सबसे ऊँचा स्थान, इसी पहाड़ पर रोमन कैथोलिक गिरजाघर के समीप ही, ऊपर का कुछ पूर्व की ओर है। इससे कुछ दूर और पूर्व को हट कर “लाल डिबा” नामक चौटी है और यह समुद्रतल से ७४६४ फीट ऊँची है। इस पर्वत से कुछ उत्तर को हटा हुआ प्राय दो मील पर “जबर खेत” है। यहाँ पर कई एक बगले भी हैं, परन्तु यह स्थान वास्तव में मसूरी से बाहर समझा जाता है। लड़ोर पहाड़ इस जगह का कैन्टोनमेंट है। यहाँ पर नीचे से समय समय पर गोरा की फौजे आकर गर्मियों में रह जाया करती हैं। जाड़ों में भी इसमें कुछ फौजी अफसर बने रहते हैं। शेष सब हर साल आकृबर में नीचे उतर जाते हैं। इस पहाड़ पर अन्य भले-

मानसी के भी ७८ घर हैं और उनमें २३० से अधिक अंगरेज लोग रहते हैं। इसकी हद भर में फौजी कानून प्रचलित है। लैडेर ही में दक्षिण की ओर नीचे बहुत बढ़िया पानी का भरना है। इसे “कम्पनी खढ़” कहते हैं और इसका जल मसूरी भर में सबसे उत्तम समझा जाता है। इस पहाड़ पर पर्व के लिये इसीसे पानी जाता है। यहाँ अब तक पानी के पम्प और बिजुली की रोशनी दोनों ही नहीं हैं।

इस पर्वत को एक रीढ़ दक्षिण-पूर्व की ओर “हिमालय कुब” पहाड़ी से मिलाती है। इसी रीढ़ के दोनों ओर “लैंडार बाजार” बसा हुआ है। इसमें भाँति भाँति के सौदों की प्राय ३०० टूकानें हैं। दैनिक आवश्यकता की सब चीज़ें इस बाजार में मिलती हैं और यह भारतवर्ष के परिपूर्ण बाजारों में से एक माना जाता है। इस बाजार से मिली हुई दक्षिण की ओर एक छोटी सी “कासेल पहाड़ी” है। इसमें कुछ समय पहले पञ्चाब के राजा दिलीपसिंह को गवर्नरमेंट ने रखा था। इन दिनों में इसके कई एक मकानों में हिन्दुस्तान के मुहकमा नाप या “सर्व आफ इ डिया” का दफ्तर है।

२—“हिमालय कुब पहाड़ी !” हिमालय कुब नामक सत्या सन १८४१ में स्थापित हुई थी। इसके सभी सदस्य अंगरेज हैं। इस पहाड़ी र इस समिति का लग्जा चैडा मकान बना हुआ है, इसलिये इस पर्वत का यही नाम पड़ा। उपर्युक्त मकान में इस हृष्ट के मेम्ब्रो के रहने के लिये विशेष सुभीता रखा

गया है। हिमालय हृत के समीप ही खानीय म्यूनीसिपेलिडी का दफ्तर और टाउनहाल हैं। इस पर बहुत सी कोटियाँ हैं। बड़े बड़े ४-६ हेटलों के सिवा यहाँ पर बहुत से छोटे छोटे होटल हैं। इन्हें "वोर्डिङ्हाउस" कहते हैं। इनका प्रबन्ध अच्छा है और इनमें ठहरनेवालों को पूरा आराम मिलता है। इनमें बड़े होटलों की अपेक्षा चर्च कम पड़ता है, इसलिये गर्मियों में ये गूब भरे रहते हैं। इस ढांड के कई एक वोर्डिङ्हाउस इस हिमालय हृत पहाड़ी पर हैं।

३— 'कुलडी पहाड़ ।' ऊपर लिखी हुई पहाड़ी से प्राय मिला हुआ, दक्षिण की ओर, यह पहाड़ है। कुलडी पर्वत यहाँ की सड़कों की सतह से बहुत ऊँचा नहीं है, परन्तु विस्तार में कुछ ज्यादा है। इस पहाड़ पर बहुत ज्यादा घनी वस्ती है। यह यहाँ के अंगरेजी कारोबार का केन्द्र समझा जाता है। इसके ऊपर "कनाट कासेल", "जेफर हाल" आदि तीन-चार अच्छे वोर्डिङ्हाउस हैं, कई एक चैरिस्टर और चकील रहते हैं, और कुछ किराये की भी कोटियाँ हैं।

इस पर्वत के पूर्ववाले किनारे पर अंगरेजी दूकानों का दबा-चौड़ा बाजार है, जिसे "कुलडी बाजार" कहते हैं। यहाँ सड़क के दोनों ओर बहुत बड़ी बड़ी सुन्दर दूकानें हैं, जिनमें लाखों रुपयों का अंगरेजी माल भरा हुआ है। ये सब मिला कर छोटी-बड़ी दस बारह दूकानें होंगी। इस बाजार में दिल्ली लण्डन बैंक और अपर इण्डिया बैंक के दफ्तर भी हैं। इसी पहाड़ पर

दक्षिण की ओर अलाप्स बैंक आफू शिमला का कार्यालय है। कुलडी बाजार को देख कर लखनऊ के एक छोटे-मोटे “हजरत गज” की याद आ जाती है।

४—“कैमेटस वैक पहाड़।” कुलडी पर्वत से मिला हुआ ठीक पश्चिम की ओर यह ऊचा पहाड़ है। इसे “तौप दग्ने-वाला पहाड़” भी कहते हैं, कारण कि इस पर पहाड़ की फसल भर, १ प्रिल से लगा कर ३१ अक्टोबर तक, दिन में १२ बजे तौप दागी जाती है। इसकी ऊचाई ७०२२ फीट है। इसकी चोटी पर पानी का एक बड़ा तालाब बना हुआ है। पहिले नीचे से ऊपर को उठ कर पम्पों के ढारा पानी इसमें आता है और फिर मसूरी के एक अश पिशेप में नीचे जा कर बटता है। इसी तरह के दो और बड़े तालाब “विसेंट पहाड़” पर भी हैं। ये ही तीनों तालाब मसूरी भर में पानी पहुँचाते हैं। “कैमेल्स वैक” पहाड़ के उत्तर की ओर जरा नीचे अभी कुछ कम आवादी है, परन्तु दक्षिण की ओर, उसकी अपेक्षा, अधिक घनी बस्तों है। इसी में यहाँ का थाना और कचहरी भी हैं। कई एक जनाने और मर्दाने अन्पताल और किराये की कोठियाँ इस पहाड़ की पश्चिमवाली चोटी चोटी तक फेली हुई हैं।

५—“किताब घर।” यह यहाँ का हरा भरा अंगरेजी पुस्तका लय है। सन् १८४३ में यह स्थापित हुआ था और अब भी बड़ी अच्छी दशा में है। अंगरेज और थाड़े-बहुत हिन्दुस्तानी लोग इस के सदस्य हैं। १ प्रिल से १५ अक्टोबर तक, इसी

“लाइब्रेरी” के सामने प्रत्येक सप्ताह में तीन बार बैंड बजता है। यहाँ की “बैंडसमिति” इसी प्रयोगन से हर साल नीचे बड़े शहरों की फोर्जों के किसी बढ़िया बैंड को बुलाती है और धिदा करते समय उसे अच्छा पुरस्कार देती है। इन लोगों के रहने और ग्राने पीने का प्रबन्ध उक्त बैंड-फर्मटी के हाथों में है। इस काम के लिये कुछ दृप्या व्यूनीसिपेलिटी से ‘मिलता’ और कुछ साधारणतया चन्दे से इकट्ठा किया जाता है। यह निमन्त्रित बैंड बाजा यहाँ के नाच तमाशों और मेलों में पूरी सहायता देता रहता है। किताब घर की दूसरी मजिल पर सवाय होटल की “चाय पानी” की दूकान है, और इसकी बायीं और पास ही शालेंवील होटल की इसी ढङ्ग की “क्राइटी-रियन” नामक दुमजिली दूकान है। बैंड बजते समय इन दोनों में ग्रारेजों की बड़ी भीड़ होती है। किताब घर के सामने, पानी घरसते समय बैंड के बजने के लिये, एक छोटा सा टीन का घर बना हुआ है।

सड़क की बायों और “क्राइटीरियन” की सीध में पूर्व को धनियों की छोटी छोटी दूकानें हैं और उनसे मिली हुई दो बढ़िया ग्रारेजी दूकानें भी हैं। इसी छोटे से दूकान-समूह का नाम “लाइब्रेरी घाजार” या “किताब घर का घाजार” है। किताब घर के पीछे ही ठीक पदिच्चम में ऊँचे पर सवाय होटल की लम्बी चौड़ी और बढ़िया इमारतें हैं। इसके मालिक लघनठ के नामी वैटस्टर श्रीयुत लिकन सादव

हैं । शालेंवील होटल के बाद मसूरी में फिर इसी का नम्बर है ।

सबाय होटल से पीछे समीप ही कुछ ऊचे पर महाराजा कपूरथला का ग्रीष्म निवास है । यह बहुत सुन्दर बना हुआ है । चारों कोनों के चार गुम्बद, लाल रग से पुते हुए, दूर से देखने में बड़े अच्छे मालूम होते हैं । इस महल के सामने टेनिस खेलने के लिये एक छोटा मोटा मैदान निकाल लिया गया है । यह सुन्दर भवन एक रमणीय वाटिका से घिरा हुआ है, तथा इसके चारों ओर कई एक ग्रैंड बगले और मकान हैं । उनमें से दो महाराजा साहब के राजकुमारों तथा रियासत के बड़े अफसरों के लिये और अन्य सामाज्य नौकरों के लिये हैं । यह कपूरथला-भवन भीतर से बहुत अच्छा सजा हुआ है ।

६—“कान्वेंट पहाड़ ।” कपूरथला महलवाले पहाड़ से जुड़ा हुआ उत्तर की ओर “कान्वेंट पहाड़” है । इसकी ऊंचाई ६९८५ फीट है । इसकी बाटी पर “कान्वेंट आफ जीसस ऐड मेरी” नामक लड़कियों के स्कूल की इमारत बनी हुई है । दूर से देखने पर यह बड़ी सुन्दर दिखायी पड़ती है । इस पर्वत के पूर्व और पश्चिम की ओर कई एक किराये के मकान हैं ।

इस पर्वत के समीप दक्षिण पश्चिम में “ब्लूचर पहाड़ी” है । यह वास्तव में “विसेंट पहाड़” का उत्तरीय अंश माना जाता है । इस पर भी कई एक किराये की कोठियाँ हैं । ब्लूचर पहाड़ से मिला हुआ ठीक दक्षिण में “विसेंट पहाड़” है ।

७—“विसेट पहाड़ ।” यह भीमकाय पर्वत उत्तर से दक्षिण को दूर तक कैला हुआ है। यह ७००६ फीट ऊँचा है। इस पर कई एक कोठियाँ हैं। इनमें से कुछ किराये पर भी उठती हैं। इसकी सब से ऊँचों छाटी पर एक बड़ी कोठी है, उसमें मेरठ के कमिशनर रहते हैं। इसके पूर्व में तथा पश्चिम ओर दक्षिण के किनारे प्रकृति एक बँगले हैं। पश्चिम की ओर “डम्बानी” नामक एक अंगरेजी अनाधालय है।

इसी पहाड़ पर मुख्य छाटी से कुछ दक्षिण को हट कर “घेलव्यू” नामक एक पीले रंग का भवन है। इसे बोग-रेज सरकार ने अफगानिस्तान के राज्यव्युत अमीर को गर्भिया में रहने के लिये दिया है। इसका भी हृश्य छड़ा मनोहर है।

८—“अब्बी पहाड़ी ।” यह विसेट पहाड़ से ठीक पश्चिम में है। इसकी ऊँचाई ७०२२ फीट है। इस पर सवेरा मिला कर कुल छ किराये के बँगले हैं। इन्होंने में से “ग्रौट कासेल” नामक कोठी में देहरादून के कलेक्टर साहब रहा करते हैं। यह वास्तव में मसूरी की घस्तों की दक्षिण पश्चिम की सीमा पर है। “अब्बी पहाड़ी” से कुछ दक्षिण सदा भील पर “स्नो-डन” नामक बँगला है जोर यहाँ से प्राय छाई भील पश्चिम कुछ ओर भी कोठियाँ हैं, परन्तु ये सब मसूरी से बाहर समझी जाती हैं। इस पर्वत से कुछ पूर्व, “प्रिसेट पहाड़” के नीचे उत्तर की ओर, यहाँ का कम्पनी थाग है। यह छाटी सी अच्छी

धाटिका है। इसमें देवदार के बृक्षों की अधिकता है और विक्री के लिये पौधे तैयार रखे जाते हैं। मसूरी आकर इसे भी देखना चाहिए।

२—“हैपी बैली !” यह रमणीय “प्रमोद उपत्यका” “विसेंट पहाड़” से ठीक उत्तर में प्रायः पोन मील पर और “कान्वेंट पहाड़” के पश्चिमोत्तर कोण में समीप ही है। यह उत्तर में “शालेंबील होटल के पहाड़” से, दक्षिण में “डीनरी पहाड़ी” से और पश्चिम में धोड़ा बहुत “हर्न पहाड़ी” से प्रिय हुई है। इसके बीच में पश्चिम की ओर “हैपी बैली हूब” का छोटा सा मकान बना हुआ है। यह हूब सन् १९०४ में स्थापित हुआ था। इसके भी मेम्बर प्राय अंगरेज ही लोग हैं। यहाँ पर ट्रेनिस के १४—१५ जाल लगाने को काफी मैदान निकाल लिया गया है और गर्मियों में प्रायः ये सब खेलनेवालों से भरे रहते हैं। यह हूब अन्य अंगरेजी खेलों के लिये भी सामान रखता है और इसमें कुछ समाचारपत्र पढ़ने के लिये रखे रहते हैं।

शालेंबील होटल की बहुत बड़ी इमारत इस उपत्यका से उत्तर की ओर ऊचे पर बनी हुई है। यह होटल बहुत बड़ा है और मसूरी में इसका नम्बर सब से ऊपर समझा जाता है। इसमें रहने का गर्व भी ज्यादा है, परन्तु इसका प्रबन्ध बहुत अच्छा है। “हैपी बैली” में कई एक बोर्डिंग हाउस फेले हुए हैं। उनमें से “डीनरी”, “मालाकाफ” आदि मुख्य हैं।

हर्ने पद्माडों पर इसी नाम का भर्फांद के महाराजा का भवन है। येर यह मस्तुरी की पश्चिमोत्तर सीमा पर है। इसके बाद फिर कुछ भी आबादी नहों है। यहाँ से आगे चल कर कोई डेढ़ मील पर घुड़दौड़ का मैदान पड़ता है। इसमें मई येर जून के महीनों में कुछ दिनों तक घुड़दौड़ होती हैं और इस खेल के शैक्षीन लोगों की अच्छी भीड़ रहती है। उक्त उपत्यका में किराये की भी व्युत सी कोठियाँ हैं।

दो होटलों का नामोह्लेख ऊपर हो चुका है। उनके सिवा शिमला रोड पर “अलेक्ज़न्ड्रा होटल”, कचहरी के नीचे “ग्रांड सेन्ट्रल होटल” आदि ४—५ येर भी होटल हैं। अंग रेजा ने यहाँ पर अपने बच्चों को पढ़ाने के लिये बहुत अच्छा प्रबन्ध किया है। यह सुन कर आश्वर्य होगा कि इस छोटे से स्थान में अंगरेज लड़कों और लड़कियों के लिये सब मिला कर दो कालेज और कोई दस ग्यारह स्कूल हैं। यहाँ पर आमोद प्रमोद के लिये भी सब प्रकार से पूरा प्रबन्ध रहता है। कदाचित् एकी कोई सप्ताह ऐसा हो जिसमें कहों न कहों पर किसी भौति का नाच तमाशा, गाना बजाना, या खेल-कूद न हो। यहाँ पर प्राय सभी लोग अपनी चिन्ताओं को दूर भगा कर सब समय उत्सव और आनन्द में रिताते हैं। नमाशों का केन्द्र मुरयतया “रिङ्गूघर” रहना है। यह थियेटर कुलड़ी पद्माड के उत्तर पश्चिम के किनारे पर बना हुआ है। इसमें आयस्कोप का नमाशा, नाच और सङ्गोर्त्तमा पहियेदार

खड़ाऊँ पहिन कर नाचना या स्केटिंग बहुधा वेसे ही होता रहता है। कभी कभी नीचे से एक-आध ऑगरेजी थियेट्रिकल कम्पनी यहाँ आकर खेल जाती है। देनों बड़े होटलों में भी ऑगरेजी नाच या “बाल्स” बहुतायत से होते रहते हैं। समय समय पर कुछ ऑगरेज लियाँ और पुरुष अपने आपस में किसी नामी नाटक को रट कर उसे सर्वसाधारण को दिखाने के लिये रिड्यूयर में खेलते हैं। “मसूरी टाइर्स” इस स्थान का प्रतिष्ठित समाचारपत्र है। यह साप्ताहिक है और इसमें अन्य बातों के सिया उस सप्ताह में मसूरी में होनेवाली समस्त घटनाओं का उद्देश रहता है।

यहाँ के हिन्दुस्तानी सज्जन अपने भाइयों के सुख के लिये निरपेक्ष नहाँ हैं। स्थानीय - आर्यसमाज ने लैंडोर पहाड़ के दक्षिण की ओर नीचे एक बड़े और अच्छे बँगले में धर्मशाला खोल रखी है। इन लोगों ने जगह की कभी का अनुभव करके इसमें अड्डोंस पड़ोस के कुछ और भी मकान संयुक्त करने का प्रबन्ध किया है। आर्यसमाज धर्मशाला से कुछ ऊपर की जगह “सिखधर्मशाला” है। यह एक अच्छा सा घगला है। कुछ और कंचे लैंडोर बाजार के पश्चिमोत्तर कोण पर “शिव-मन्दिर” है। यह भी एक छोटी-मोटी धर्मशाला है, पात्तु अब तक इसकी सफाई पर ध्येान नहाँ दिया जाता है। इन तीनों धर्मशालाओं में हिन्दू मात्र तीन-चार दिन तक आनन्द के साथ ठहर सकते हैं। इससे अधिक दिनों तक ठहरते

के लिये प्रत्येक स्थान के मेनेजर से आशा लेनी पड़ती है। शिव मन्दिर के पडोस ही कुछ समय से एक छोटे से मकान में “इंडियन रेडिग फ़ॉब” खोला गया है, इसमें कई एक अंगरेजी चौर हिन्दी के समाचारपत्र आते हैं।

पहाड़ी जलवायु इतना अच्छा है कि नीचे से आते ही यहाँ पर मनुष्य की भूख ज्यादा होने लगती है। बीरे धीरे उसके शरीर में एक शक्ति प्रिशेष का सा सचार होते जान पड़ता है। उसका मन प्रफुल्लित होने योर हृदय कमल प्रस्फुटित होने लगता है। इन सब बातों के साथ ही कुछ न कुछ शारीरिक परिथ्रम करना बहुत जरूरी है, वेसे यहाँ आकर बैठे बैठे बिना कुछ देखे भाले एक नये रमणीय नगर में आना केवल निष्पयोजन ही नहीं होता है, बरन मनुष्य के ज्यादातर स्वस्थ होने के स्थान में उसके जल्दी ही रोगी हो जाने का खटका रहता है। यही कारण है कि जिन लोगों को चलने का अभ्यास बहुत कम है वे पहाड़ से उतर कर इसकी निष्का फरते सुने गये हैं। परंतों पर आकर पूरा पूरा लाभ पाने के लिये चार मील से आठ या दस मील तक सवेरे और शाम को टहलना सर्वथा उचित है, क्योंकि तभी पहाड़ पर आने का पूरा आनन्द मिलता है और तभी यहाँ की अलोकिक शोभा को देख कर नेत्रों के बन्द करने की इच्छा नहीं होती है।

सैर करने के लिये यहाँ कई एक बहुत अच्छी सड़कें हैं। किताब घर भ सामने पूर्ण को कैमेटसवैक पहाड़ के नीचे

दक्षिण की ओर कुलडी बाजार से होती हुई, तथा फिर आगे बढ़ कर हिमालय पहाड़ी के पश्चिम की ओर जो सड़क लंडोर बाजार तक जाती है वह यहाँ की “माल” या ठढ़ी सड़क है। कुलडी बाजार से कुछ पश्चिम को हट कर इस पर से दक्षिण की ओर नीचे देहरादून की घस्ती छोटे छोटे विन्दुओं के समूह के समान दिखायी देती है। उससे भी दूर हरिद्वार के पर्वतों का और पूर्व से पश्चिम को लम्बी शिवालिक पर्वत-श्रेणी की कुछ पहाड़ियाँ का, और जब दिन खूब साफ होता और धुन्ध नहीं होती है, तब श्रीगगाजी और श्रीयमुनाजी की धाराओं का, सुन्दर हृश्य बड़ा मनोहर जान पड़ता है। किताब घर से कुछ ही आगे बायों ओर को इसी “माल” से “कैमेल्स वैक” सड़क फूट जाती है और यह “कैमेल्स वैक” पहाड़ के उत्तर की ओर नीचे खूब टैंडी-बैंडी धूमती-घामती कुलडी बाजार के उत्तरी सिरे पर फिर उसी ठढ़ी सड़क से मिल जाती है। इस पर दो विशेष खानाँ से, यहाँ से प्राय ६०—७० मील दूर, हिमालय पहाड़ की बहुत ऊँची स्फटिक मणि के समान सफेद चाटियाँ साफ तौर से देख पड़ती हैं। ये अपनी अनुपम सुन्दरता के कारण हृदय को हर लेती हैं। यह इच्छा होती है कि इन्हों की ओर देखता रहे। कभी कभी ये बादलों से भी ढकी रहती हैं, परन्तु जब ये मेघों से रहित होती हैं, तब इनकी शोभा ओर प्रभा वास्तव में वर्णन से बाहर होती है। इस “कैमेल्स वैक” सड़क से ओर भी जड़े ही

प्यार प्यार धन्य तथा पहाड़ी हृश्य निरन्तर दिखायी देते हैं । किताब घर से पश्चिम की ओर दाढ़िने पैर बाये दो सड़के गयी हैं । इनमें से "शिमला सड़क" कान्वेंट पहाड़ के उत्तर की ओर नीचे कुछ दूर जाकर फिर सीधी शिमला को चली जाती है, जो यहाँ से इस रास्ते से १४४ मील की दूरी पर है । इसी से मिली हुई "रेकूरी सड़क" शालेवील होटल के फाटक पैर हैपी वैली के पूर्ववाले ऊपरी सिरे तक दौड़ती है । यहाँ से एक रास्ता कान्वेंट पहाड़ के पश्चिम की ओर कम्मनी बाग को जाता है और दूसरा नीचे हैपी वैली को । शिमला सड़क पर से भी एक स्थान से बर्फबाली चाटिया का मनोरम हृश्य दिखायी पड़ता है । दूसरा रास्ता किताब घर से बायों ओर सवाय होटल ओर कपूरथला महल को कुछ ऊँचे पर उत्तर की ओर छोड़ता हुआ गिन्सेंट पहाड़ को चला जाता है । इस रास्ते पर बहुत ऊँचे पहुँच कर सामने पूर्व की ओर मसूरी की बस्ती पूर तौर से देख पड़ती है और वही सुदावनी मालूम होती है । एक रास्ता गिन्सेंट पहाड़ी के चारों ओर गया है । इस पर से दूर दक्षिण में शिवालिक पर्वत ध्वेणी, झहारनपुर और रुड़की के मैदान ओर देहरादून के उत्तम हृश्य दिखायी देते हैं । इसके सिवा लैडोर, कैमेल्स वैक और कान्वेंट पहाड़ पर कई एक अच्छे रास्ते हैं, जिन पर कुछ सावधानता के साथ चारे ओर देखने से बड़े बढ़िया हृश्य सामने आते हैं ।

मसूरी से ८—१० मील के भीतर कई एसे बहुत उत्तम स्थान हैं जहाँ को मनुष्य सवेरे जाकर सायकाल में फिर अपने घर पर चापस आ सकता है। यदि प्राकृतिक सोन्दर्य देखना हो, यदि ऊँचे ऊँचे पहाड़ों पर ऐटे हुए अपने निराले ठाटबाट में वनदेवी के दर्शन करके अपने भाग्य को सफल करना हो, और यदि इतने ऊँचे पर बहुत ही हरे-भरे और फलते फूलते हुए मगवान् के लम्बे चौडे घास को निरस कर अपने नेत्रों को असीम आनन्द देना हो, तो मसूरी आने पर कुछ कष्ट उठाने के बाद बाहर जाकर प्राकृतिक हृशियों को जरूर देखना चाहिए। नीचे लिये हुए कुछ ऐसे स्थान हैं जो अपनी अकथनीय शोभा और प्राकृतिक सुन्दरता से थोड़ी देर के लिये मनुष्य को यह विलकुल भुला देते हैं कि वह भी एक सासारिक जीव है। इन स्थानों में जाकर मनुष्य अपने हृदय को—यदि वास्तव में उसके हृदय हो—पारलैकिक और अनिर्वचनीय आनन्द के रस को पान करते हुए देख कर, स्वयमेव प्रस ध्रता के कारण, उभड़ते हुए प्रमोदसागर में निमग्न हो जाता है। ऐसे समयों पर साथ में एक दूरदर्शक यन्त्र या “विनाकुलर” अवश्य लेते जाना चाहिए। देखने के योग्य मुख्य मुख्य स्थान नीचे लिये हुए हैं।

१—टापटिबा। यह खाटी मसूरी से पूर्व में, प्रायः ८ मील दूर, ८५६९ फीट की ऊँचाई पर है। यहाँ से उत्तर की ओर बढ़ोनाथ, केदारनाथ, नन्दादेवी इत्यादि, बुफ्फ से सदा ढकी

हुई, ऊंची चेटियाँ साफ साफ देख पड़ती हैं। इस स्थान से चारों ओर प्रायः १०० मील तक के दृश्य दृष्टि के नीचे आ जाते हैं।

२—भद्राज पहाड़ । यह मसूरी से पश्चिम की ओर ८ मील से कुछ ज्यादा दूर है। इसका मार्ग कुछ कठिन है। इसके ऊपर पश्चिमवाली चेटी पर एक छोटा सा मन्दिर है। उसमें दो गोद्धकालीन मूर्तियाँ हैं। एक कुछ दूरी पूर्णी और दूसरी ठीक है। इस चेटी पर से चकरीते के पहाड़ों का, नीचे मीठे मीठे गीत गाती हुई अत्यन्त टेही मेदी बहती हुई दुबली पतली श्रीयमुनाजी का ओर पास ही पूर्ववाली चेटी के सामने मसूरी की घस्ती का दृश्य बहुत ही दृश्य ग्राही है।

३—अग्नार उपत्यका । यह ३—४ मील की दूरी पर केमेल्स घेक सड़क के नीचे है। इस सड़क पर सैर करते हुए इस रमणीय उपत्यका का दृश्य सब समय नेहों के सामने रहता है। इसमें नीचे उतर कर ऊपर बहुत ही ऊंचे भीमकाय पहाड़ों की देखने से ईश्वर की ईश्वरता का पता लगता है। यहाँ पर दो गाँव जिन्सी चोर दुनीटी हैं। इनमें पहाड़ियों के ऊपर देहाती दैनिक जीजन को देख कर बड़ा कोतूहल होता है।

४—केम्पटी फाल्स । यह गिशाल ओर अत्यन्त सुन्दर जल प्रपान मसूरी से ४—५ मील है। इस जगह को शिमला वाली सड़क से जाना होता है। सड़क के ऊपर से भी इस

प्रपात का मनोहर हृश्य दिखलायी देता है, परन्तु पूरा पूरा आनन्द पाने के लिये नीचे एक या सवा मील चल कर जल-प्रपात तक जाना चाहिए। मसूरी से इतना समीप कोई भी दूसरा इतना बड़ा और मनोहर जल प्रपात नहीं है। यहाँ ६०० फ़ीट की ऊँचाई से यथाक्रम पांच जगहों में ठहरता और गिरता हुआ अत्यन्त विशालकाय और बड़े गम्भीर शब्दयाला जलप्रवाह देखने में आता है।

५—बनोग पहाड़। यह भी मसूरी से पश्चिम ओर मील है और भद्राज जाते समय रास्ते में दाहिनी ओर छूट जाता है। इसकी ऊँचाई ७४०० फ़ीट है। इस पर एक पुरानी बेघशाला सरकारी मुहकमा नाप का एक पुराना स्थान है। इसके ऊपर से भी दूर दूर के हृश्य और श्रीयमुनाजी की उपत्यका बड़ी सुन्दर मालूम होती है।

६—भट्टाजलप्रपात। मसूरी से दक्षिण पूर्व कोण में भट्टा एक पहाड़ी गाँव है। उसी के नीचे कुछ दूर पर ये प्रपात हैं। इनमें कोई कोई स्थान बास्तव में बड़े मनोरम हैं। इन्हों प्रपातों से मसूरी में रोशनी के लिये विजुली की शक्ति का सम्रह किया गया है।

७—मासी फालस। ये और “हर्सी फालस” नामक जल-प्रपात बालोंगाज के पास हैं। इनसे समीप ही आर्नीगाढ़ में “न्यू वैट्रिनिकल गार्डेन्स” या एक नया सरकारी बाग है जो सर्वेत्था देखने के योग्य है।

उपर्युक्त स्थानों के सिवा यदि अवकाश हो, तो मसूरी से चकरैता और टेहरी (गढवाल) तक भी जरूर यात्रा करनो चाहिए । ये दोनों स्थान यहाँ से प्रायः ३८—३९ मील हैं । इनके रास्तों पर बहुत सुन्दर पहाड़ी दृश्य देखने में आते हैं और पर्वत-सम्बन्धी अनेक नदी जाते मालूम होती हैं ।

यदि पर्वतों के ऊपर भी आकर मनुष्य अपनी वे ही ठेठ सासारिक जाते घसीटना चाहे, तो समझिए कि उसके लिये पर्वत की यात्रा या यहाँ का नियास व्यर्थ है । जो पर्वतों की निशाद महात्मा को समझ कर स्वयं अपनी आत्मा के गौरव को जान सकता हो, जो सुदूरवर्तीनी छोटी छोटी विकराल शब्द करती हुई बहुत ज्यादा टेढ़ी मेढ़ी पहाड़ी नदियों के शक्तिपूर्ण धेंग को देख कर यह अनुभव कर ले कि निरन्तर प्रबल उद्योग करत रहने से ये तुच्छ और थोड़े जलधाली नदियाँ भी आगे बढ़ कर देश में कितना बड़ा आदर्श्यजनक रूप धारण कर लेती हैं, जो कठोर चहानों से धिरी हुई प्राय पत्थर के समान भूमि पर पहाड़ी वृक्षों की असीम हृदना और उनके हरे भरेपन को देख कर यह स्पष्ट परिणाम निकाल सके कि कठिन से भी कठिन स्थान और समय में मनुष्य अपनी पूरी हृदता को स्थिर रखने से सब समय हरा-भरा रहना है, और जो चिन्ताओं से एकदम मुक्त, इधर से उधर फुदकती हुई और अपने भीठे सुरीले रागों से सधन बनों को परिपूर्ण करके परम सुन्दर चमदेवी की सेवा करती हुई, यहाँ की सब भाति की छोटी-

इस साल उक्त महीने की ११वीं तारीख को बर्फ़ का एक छोटा-मोटा गिराव हुआ। कोई एक सप्ताह से अधिक पहिले से आकाश प्रायः मेघों से ढका रहता था। कभी कभी पानी भी गिर जाया करता था। इस प्रकार से भूमि और वायुमण्डल दोनों ही भली भाँति ठण्डे हो गये। उपर्युक्त तारीख को ११ बजे दिन से फिर जोर-शोर से पानी गिरने लगा। कुछ समय के बाद वेग के साथ ओले या “बजरी” गिरी। प्रायः ४ बजे एकदम पानी और बजरी रुक गयी और आकाश से फेने की छोटी छोटी असर्व बूँदें गिरने लगीं। ये हल्की थीं और इनमें जम जाने की शक्ति भी बहुत कम थी। फिर जोर के साथ पानी गिरा और तुरन्त ही, उसके यकायक रुकते ही, ये फेन की बूँदें पहिले के समान बड़ी प्रचुरता के साथ गिरीं। इसी प्रकार से चार या छ. बार हुआ और चाद को कुछ बड़े फेन-विन्दु भी गिरे, परन्तु ये अपने समय से बहुत पहिले आगये थे इसलिये इनमें रुकने की कम शक्ति थी और ये प्रायः सभी क्षणिक थे। बर्फ़ गिरते समय यह सुन्दर हृष्ण पेसा बढ़िया जान पड़ता था कि मानों ऊपर मे कोई चमेली के लाखों फूल बरसा रहा हो।

---

## ११—सदाचार-नीति और नवीन दार्शनिक दृष्टि ।

मारा भारतपर्प बहुत पुराने समय से ही प्रिया  
की प्राय समस्त शास्त्राओं एव प्रशास्त्राओं  
का और दर्शन एव विज्ञान की जटिल से  
भी जटिल समस्याओं का अगाध समुद्र  
है। वर्तमान समय के बहुत से दार्शनिक  
विचार और वैज्ञानिक आविष्कार, जिनको एक नये रूप में  
दिखला कर आजकल कुछ विद्वान् लोग कभी कभी चाहवाही  
लूटते हैं, हमारे पुराने शास्त्रों में, शिला लेपों में, तथा भोज-  
पञ्चों पर और ताष्ठखण्डों पर लिखी हुई लिपियों में अधिकना  
के साथ पाये जाते हैं। इस बात से यह स्पष्टनया ज्ञान होता है  
कि हमारे पूर्वजों की प्रिया सम्बन्धों प्रतिमा यार मानसिक  
शक्ति बहुत ऊँचे दर्जे को पहुँच गयी थी। इस दशा में मानव  
धर्म शास्त्र के समान मणि का, विदुरनीति के तुल्य हीरे का,

८ दिसम्बर १९१२। अमुक्ति। डाक्टर म्यूरहैड की “एथिस्स” के  
विचारों के आधार पर।

चाण्यनोति के सहशा मेंती का तथा इसी प्रकार से और भी अनेक नीति-सम्बन्धी रत्नों का अपने साहित्य में पाना हमारे लिये स्वाभाविक मात्र हे। इन पुस्तकों को पढ़ने से इनके अनुभवशील रचयिताओं की विलक्षण बुद्धि, गम्भीर पर्यवेक्षण और नेतृत्व का चानुर्य<sup>१</sup> का पूरा पता लगता हे। प्राय कोई भी ऐसा अवसर मनुष्य के जीवन में न होगा, कोई भी ऐसा चरित्र प्रिशेप न होगा और काई भी ऐसा सांसारिक वैचित्र्य न होगा, जिसके लिये अपने यहाँ के उत्तम नेतृत्व ग्रन्थों में सफलता के देनेवाले, दुर्घट के घटानेवाले और सुख के बढ़ानेवाले निश्चित उपाय न बतलाये गये हे। जब हमारा नीनि-शास्त्र इनना सारामित और प्रबल है, तब हमारे लिये इसी विषय पर अत्यन्त अर्द्धचीन पादचाल्य विचारों का जानना, उनका भलीभांति समझना और उनका कार्य परिणाम करना सहज ही में हमारे सदाचार-नेतृत्व क्षान को विस्तृत करेगा तथा हमारी व्यक्ति गत और सामाजिक समूद्धि का सर्वधंक होगा, कारण कि प्राय ये विचार हमें नये सिरे से धोड़े ही सीखने हे, समझी-बूझी बातों के नये रूपों का धोध प्राप्त करना कुछ भी कठिन काम नहाँ है।

प्रत्येक उन्नतिशील व्यक्ति-समुदाय, समाज या “सोसाइटी” की तीन अप्रस्थाप्त होती है। उसकी प्रारम्भिक दशा में उस समाज के मनुष्यों के नेतृत्व या सदाचार-सम्बन्धी स्वभाव बनते हैं—उनकी सदाचारिता एक रूप धारण करती है। इसके बाद उनको कार्य में परिणत करने का समय आता है। इस

अवस्था में किसी प्रकार का गड़बड़ नहीं होता है, कारण कि समाज के प्राय सब व्यक्तियों के स्वभाव तत्कालीन आचरण-नीति तथा धर्मनीति के अनुकूल होते हैं और सगठन में तथा अभिलाषों में परस्पर विरोध नहीं होता है। इस समय सब काम उत्तमता के साथ चलता है।

इसके उपरान्त तीसरी अवस्था पर्यालोचना की है। इसमें नयी शक्तियों का और नये भावों का विकास आरम्भ होता है, पुराना सगठन मन से उत्तर जाता और अँखें बन्द किये हुए पुरानी लकीर को पीटते रहना अनुचित जान पड़ता है। यिद्या आर तुद्धि की उम्रति के साथ ही मनुष्यों में नयी आवश्यकताओं और नयी इच्छाओं का प्रादुर्भाव होता है। कुछ समय पाकर यह प्रतीत होते लगता है कि पुराने नियम वर्तमान सगठन के लिये पर्याप्त नहीं हैं और उनमें उचित परिवर्तनों की आवश्यकता है। सब और से असन्तोष और आन्दोलन के चिह्न दिखायी पड़ते हैं। एक प्रकार से “सोसाइटी” भर में यालबर्ली सी मच जाती है। इस समय विचारशील मनुष्यों के लिये दो रास्ते खुले रहते हैं—एक तो नये समय की नयी आवश्यकताओं की उपेक्षा करके पुरानी प्रथाओं को मानते रहना, तथा दूसरे पुराने बन्धनों को तोड़ कर नयी रीतियों का स्वीकार करना। समाज की इस तीसरी अवस्था में आचारनीति के मनन और उसके मुख्य नियमों को कार्य परिणत करने की आवश्यकता होती है। इस दशा में यह शाख हमें उपरोक्त दोनों ही मार्गों का अवलम्बन

करने का उपदेश नहीं देता है । यह एक और तीसरा वीच का रास्ता हमारे लिये सोलता है । यह न तो सब पुरानी बातों को मानने की और न उन्हें पक्कदम छोड़ देने ही की सम्मति देता है । आचरण-शास्त्र पुरानी रीति और पुरानी नीति को भली भाँति समझने का यत्न करता है । इसके अनुकूल यह जानना चाहिए कि वे कैसे उत्पन्न हुए, किस प्रकार से सर्वमान्य बनीं, और उनका धात्तविक प्रयोगन पूरा है । यह किसी भी अडचन को छोड़ देठने या उससे हाथ हटाने के विरुद्ध है । यह लोक-कथा और पुरानी रीतियों के स्वत्व को स्वीकार करता है । इस दृश्या में आचरण-शास्त्र का यह काम है कि यह प्राचीन धर्म एवं नैतिक नियमों की उत्तमता को और नयी आवश्यकताओं एवं अपेक्षाओं की प्रबलता को पूरे तौर से समझ कर उनमें ऐसे ऐसे उचित परिवर्तन करे जिनसे “सोसाइटी” का काम फिर भली-भाँति चलने लगे और सच्ची उन्नति में कोई भी बाधा न हो ।

अब हमें यह देखना है कि रीतियाँ और प्रथाएँ क्या हैं । ये वास्तव में हमारे आचरण की समष्टि मात्र हैं । समाज की किसी विशेष अवस्था में जो आचरण उसकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये लाभदायक समझे जाकर काम में लाये गये हैं वे ही धीरे धीरे उस समय के और उसके बाद भी कुछ समय तक उस समाज के आचरण-शास्त्र या सदाचार-नीति के नियम कहे जाते हैं । साधारणतया “मानुषिक कार्य” आचरण कहा जा सकता है, परन्तु यद्यपि श्वास लेना भी

उसका काम है, तथापि यह आचरण नहीं है । यदि हम यह कहें कि आचरण वह काम है जो मनुष्य जान-बूझ कर करे तो इससे भी हमारा प्रयोजन नहीं सिद्ध होता है, क्योंकि जब हम अपनी पलक बम्ब करते हैं, तब यद्यपि हमें इस बात का ज्ञान रहता है, तथापि यह आचरण नहीं है ।

उपरोक्त परिभाषाओं में अभी उस अश की कमी है जो मनुष्य को मनुष्यत्व का पद देती है । यह अश उसका काम करने का सङ्कूल्य या इच्छा है, इसलिये ऐच्छिक कार्य या इच्छन मानुषिक कार्य आचरण है । जब किसी मनुष्य का कार्य-कलाप समय पाकर स्वभाव सिद्ध हो जाता है, तब वही उसका शील-गुण या प्रकृति कही जाती है । एक नामी पाश्चात्य विज्ञानप्रेता जान स्टुअर्ट मिल का कथन है कि शील-गुण “पूर्णतया ढली हुई सङ्कृत्य-शक्तिमात्र” है । सङ्कूल्य शक्ति में “इच्छा” का अधिक अश होता है । इससे मनुष्य की आत्मा का घनिष्ठ सम्बन्ध है । यदि मनुष्य पाप करे तो उसकी आत्मा कलुपित कही जाती है । इसके साथ ही यह निश्चित है कि मनुष्य की इच्छा की लहरे न तो मनमाने तोर से बहती और न मनुष्य ही को इधर उधर बहाती रहती ह । ने एक क्रम से धीरे धीरे स्वभाव सिद्ध होकर उसकी आत्मा का आदर्श बन जाती है । इसी कारण से उसके कामों को देख कर लोग उसे भला या बुरा कहते हैं । साधारणतया पुण्यात्मा मनुष्यों की इच्छा पाप की ओर बहुत कम झुकेगी । इसी प्रकार \*

से अधर्मी मनुष्यों के लिये सत्कर्मों का करना प्रायः कठिन होता है। किसी की इच्छा उसके अभिलिपित पदार्थों पर निर्भर है और इस अभिलाप का पूरा सम्बन्ध उसकी आत्मा तथा स्वभावों से है, इसलिये मनुष्य का, इच्छा करके, किसी अभिलिपित पदार्थ की प्राप्ति का उपाय सोचना आचरण का पहला और भीतरी अश है, और उसका कार्य परिणत करना उसका दूसरा और बाहरी अश है।

प्रत्येक आचरण किसी न किसी उहेश्य को लक्ष्य मान कर किया जाता है और उसका कुछ परिणाम होता है। हम भलीभांति जानते हैं कि आचरण ही सदाचार-नैतिक हृषि से भला या बुरा कहा जाना है। अब यह प्रश्न उठता है कि हम उसका निर्णय हेतु पर अथवा परिणाम पर हृषि डाल कर करें। इस कारण से यह जानना आवश्यक है कि लक्ष्य और परिणाम इन दोनों अशों में से अधिक आवश्यक या सार्थक भाग कौन सा है। इस विषय पर पादचार्य विद्वानों में बहुत मतभेद है। इनमें से कोई हेतु को और कोई परिणाम को गौरव देता है। हेतु सङ्कल्प शक्ति के अनेक अशों से मिल कर बनता है। यह अनुभव करनेवाली आत्मा के किसी अप्राप्त चस्तु या उहेश्य की ओर उस झुकाव या लिप्सा का नाम है जो इच्छा करने के लिये आवश्यक है। दूसरे शब्दों में हेतु “अभिलिपित पदार्थ या उहेश्य की उस चासना को कहते हैं जो एक मनुष्य-विशेष की आत्मा के स्वभाव के अनुरूप हो।

चौर उसकी सङ्कुल्य शक्ति को सञ्चालित करे ।” इस प्रकार से यह स्पष्ट है कि हेतु चौर परिणाम एक दूसरे से विकद्ध नहीं हैं—हेतु ही का अन्तिम रूप परिणाम है जो पहले से समझ लिया गया था और जो सङ्कुल्य करके सिद्ध किया गया है ।

किसी आचरण का निर्णय करते के लिये हमें यह सोचना चाहिए कि उसके सब परिणाम पूरे तोर से भले हैं या बुरे हैं और वे ही परिणाम पहले से उद्दिष्ट थे या नहीं । यिन इस बात की पूरी जांच किये हुए हम किसी आचरण पर अपनी सम्मति को प्रकट करने के अधिकारी नहीं हैं । यह आचरण ही सदाचार-नेतृत्विक निर्णय की घस्तु है । आचरण और सङ्कुल्य शक्ति में बहुत धना सम्बन्ध है, इस कारण से जो निर्णय एक के लिये होगा वही दूसरे के लिये भी पर्याप्त होगा । इसी प्रकार से मनुष्य की प्रकृति और हेतु भी आचरण के साथ ही सदाचार नेतृत्विक हृषि से भले या बुरे कहे जा सकते हैं । इस प्रयोजन से किसी के आचरण पर अपनी सम्मति को प्रकट करने के लिये दो क्रमों का अपलम्बन किया जा सकता है । पहले तो बाहरी व्यवस्थाओं या शास्त्रीय नियमों के अनुकूल उसके सत् या असत् होने का, और दूसरे इस हृषि से उसकी भलाई या बुराई का कि कहाँ तक वह एक चांडिन उचित चौर उपयोगी उद्देश्य को पूर्ण करता है ।

इनमें से पहला क्रम समाज की प्रारम्भिक अवस्था में काम देता है । उस समय समाज के आचार और विचार स्थिरता

को नहीं प्राप्त होते हैं, इससे कुछ ऐसे नियम बना लिये जाते हैं जिनके अनुकूल प्रत्येक मनुष्य को चलना होता है। यदि किसी का आचरण इनके अनुसार न हुआ, तो वह निन्दा कहा जाता है। इस समय में धार्मिक, सामाजिक, नैतिक और राजनेतिक नियम सभी एक में विचित्र रूप से सम्मिश्रित होते हैं। इस कारण से उनके पारस्परिक गैरव का निर्णय करने में बहुधा बड़ा गडबड होता है। दूसरे उन नियमों में कभी कभी एक का दूसरे से विरोध भी हो जाता है। इस दशा में मनुष्य के लिये इस बात का निश्चय करना बड़ा कठिन होता है कि उनमें से यह किस नियम की आशा माने और किसकी आशा न माने। तीसरे इन नियमों को मनुष्य साधारणतया परलोक के विगड़ने के द्वार से ही मानते हैं।

ये अड्डचने सोसाइटी या समाज की पहली अवस्था में नहीं उठती है। ये उसकी दूसरी अवस्था में उठती जहर है परन्तु बड़े-बूढ़े लोग थोड़े बहुत परिवर्तन करके इन्हीं नियमों से काम निकालते रहते हैं। तीसरी अवस्था के आते ही इनकी निस्सारना बहुत कुछ प्रकट हो जाती है। इसी समय यह आवश्यकता होती है कि इस प्रकार की व्यवस्थाओं और शास्त्रों के आदर्शों को छोड़ कर “परिणामगत उद्देश्य”, का आदर्श माना जाय, ज्योंकि वैसे ठीक तौर से काम चलाना असम्भव है। इस समय में केवल बाहरी व्यवस्थाओं और प्रचलित प्रथाओं के अनुकूल किसी की प्रशस्ता या निन्दा करना अनुचित है।

जब किसी समाज की उन्नत अवस्था में अनेक व्यक्तियों की प्रतिभा और बुद्धि बड़े ऊंचे दर्जे को पहुँच जाती है और उस समय के नियमों का पुराना सगाठन उसकी आवश्यकताओं के लिये नहीं पर्याप्त रहता है, तब इस बात की जरूरत होती है कि सदाचार-नीतिक आचरण के उत्तम या निश्चिए होने का निर्णय उसके अन्तिम परिणाम से और समस्त समाज पर उस परिणाम के भले या बुरे प्रभाव से किया जाय। समाज की उपमा एक वृक्ष से दी जा सकती है। उसका ग्रत्येक व्यक्ति अपने समुदायरूपी वृक्ष के पत्तों के समान है। यदि पत्ते हरे भरे हैं, तो वृक्ष भी हरा भरा दिखायी देता है। उसकी दशा को सुधारते रहने के लिये सभी पत्ते अपना अपना काम करते हैं और वह वृक्ष अपने पत्तों के लिये अपना कर्तव्य करता है। वह भी उन्हें हरा-भरा बने रहने में पूरी सहायता देता है। इसी प्रकार से मनुष्यों की शक्ति और उनके उत्तम आचरण पर समाज की पुष्टा निर्भर है और समाज के उत्तम दशा में होने से मनुष्यों की शक्ति और स्वत्वा की पूरी बुद्धि होती है। ये सदा एक दूसरे पर अपना प्रभाव डालते रहते हैं। एक के हित से दूसरे का हित होता है और उसके अहित से दूसरे का अहित। समाज अनेक व्यक्तियों की समष्टि है। इन दोनों में कुछ भी विरोध नहीं हो सकता है। इन कारणों से इन तीसरी दशा में पुराने, और इससे बर्तमान समय में अपर्याप्त, नियमों से बहुत कम काम चलता है, कारण कि कोई मनुष्य

जो कुछ नैतिक आचरण करेगा उसे वह अपनी पुरानी प्रथाओं के अनुकूल सदा उन बाहरी नियमों के गौरव ही को मान कर करेगा । यदि किसी ने सच्ची बात कही, तो उसके चित्त में यह विचार तुरन्त दैड जायगा कि मैंने यह काम शाखा की आशा में किया है और इससे मुझको स्वर्ग या पुण्य मिलेगा । यह वह कदाचित् ही सोचेगा कि सच बालने से मेरी आत्मा की पवित्रता और समाज की सच्चित्रता पर बहुत अच्छा परिणाम होगा और मेरा यह कार्य मेरे समाज को उन्नत बनाने में समर्थ होगा ।

समाज के व्यक्तियों की आत्माओं पर शाखीय नियमों का प्रभाव वर्धे नहीं होता है, कारण कि वे पहले पहल अपने समाज के उपकार के ही लिये ज्ञाये गये थे, परन्तु उचित रीति यह है कि उन्नति करने पर उन्हों शाखीय नियमों से परिपुष्ट और परिष्कृत होकर अपनी बुद्धि अपने और अपनी जाति के कल्याण के लिये नये नये नियम बनाना प्रारम्भ करे । हम इसी को सदसद्विवेचनी बुद्धि कहते हैं । यही हमारी आत्मा का वैतन्य और विचार शील अंश है । यही अपने विचारों और कामों की उत्तमता या निरुष्टता का निर्णय करती है । इसी की आशा अपनी सच्ची अन्तरात्मा की आशा है और इसी का शब्द उसका शब्द है । यही बुद्धि उसका वास्तविक स्वरूप है । यह व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन पर और इसकी नाना प्रकार की अवस्थाओं, इच्छाओं तथा आवश्यकताओं पर पूरी हाई डाल

कर अपने लिये उन सप्रमाण और निश्चित नियमों को तेयार कर लेती है जिन्हें शास्त्र या सदाचार-नीति कहते हैं।

इस प्रकार से सब पर समुचित अन्तरात्मा ही का प्रभुत्व होता है। उसोंको सब दशाओं, सब समयों, सब कामों प्रेरणा सब स्थानों में सर्वोत्तम रूप से सम्पादित करना हमारा आदर्श है। हमें चाहिए कि हम जो कोई काम करें उसे सदा अपने सामर्थ्य को देखते हुए अत्यन्त उत्तमता के साथ करें, परन्तु इस बात पर अवश्य दृष्टि रखें कि वह कार्य और हमारे सभी आचरण परिणाम में व्यक्तिगत और सामाजिक हित के समर्थक हो। यदि हम पिता हैं, तो पुत्रों के साथ उत्तम वर्ताव करना उनका पालन पोषण करना और उनके उचित शिक्षण की देखभाल करना हमारा सदाचरणा है। यदि इस कर्तव्य के उत्तमता के साथ पालन करने में हम कुछ भी घुट्ठ करते हैं तो हमें पाप करते हैं—प्रयोजन यह है कि हम अपनी आत्मा के सर्वोत्तम रूप को प्राप्त करने के लिये पूरा प्रयत्न नहीं कर रहे हैं और यह निस्सन्देह अधर्म है। हमारे लिये सदाचार-नीति का यही सर्वधेष्ठ नियम है कि हम सदा अपनी उत्कृष्ट आत्मा की पूरी शक्ति के अनुसार काम करें और उसे सदा उत्तम बनाने की चेष्टा करते रहें।

अन्तरात्मा की वास्तविक उत्तमता के साथ ही हमें यह भी देखना है कि किस अन्तिम उद्देश्य से मनुष्य का आचरण उत्तम कहा जा सकता है और क्या उसका लक्ष्य होना चाहिए।

प्रत्येक उद्देश्य को (१) स्वयं प्रत्येक मनुष्य के लिये कल्याण-कारक (२) स्वभाव ही से कल्याणमय और (३) वास्तव में (अन्त में भी) कल्याण-कारक होना चाहिए । इसको न तो अन्तरात्मा से विरोध और न उस पर क्रूरता करनी चाहिए । उत्तम उद्देश्य वही है जो व्यक्तिगत कल्याण के साथ ही सामाजिक कल्याण को भी पूरे तोर से करे ।

समाज एक सजीव सगठन है और मनुष्य इसके अङ्ग है । इन दोनों के कल्याणों में भेद मानना अनुचित है । एक अकेला मनुष्य न कुछ कर सकता और न कोई बल्कु समझा जा सकता है । उसका समाज के साथ का सम्बन्ध ही उसे व्यक्ति-विशेष की पदवी देकर एक जन-समुदाय का अङ्ग बनाता है । अपने जीव की रक्षा देखने में अत्यन्त सकुचित इच्छा जान पड़ती है, परन्तु जब किसी मनुष्य के प्राणों पर कोई विपत्ति आती है, तब साधारणतया उसका विच्छ सबसे पहले अपने पुत्र, पत्नी और कुटुम्ब की ओर दौड़ जाता है । इससे यह सिद्ध हुआ कि मनुष्य स्वभाव ही से सामाजिक जीव है और अपने स्नेहियों नथा समाज के साथ उसका प्रेम उसे अपनी आत्मा से भी प्रेम करने को प्रवृत्त करता है । कोई मनुष्य प्राय तभी आत्म हत्या करता है, जब सबसे सम्बन्ध के टूट जाने पर वह अपने जीवन को शून्य समझता है ।

इस हृषि से किसी मनुष्य की आत्मा उसकी निज की कभी नहीं कही जा सकती है । वह वास्तव में उसके कुटुम्ब, जाति

और देश की है। इसी कारण से यदि कोई मनुष्य पेसा काम करे जिससे समाज का अहित हो, तो वह पापी है। इन बातों से स्पष्ट है कि सार्वजनिक कल्याण ही अपना कल्याण है। यदि कोई मनुष्य अपने को समाज से अलग करके रखना चाहे, अथवा उसके सम्बन्धों का प्रभाव अपने ऊपर न आने दे, तो वह सामुदायिक हित कभी न कर सकेगा। अपने कुटुम्ब, व्यापार, नगर और देश के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन करने ही में उसकी आत्मा को सद्या मोक्ष मिल सकता है। इन कर्तव्यों में अपने प्राण को खो देना मानों अपने प्राण को पाना है, कारण कि वह सामाजिक संगठन जिसका वह एक अश है वास्तव में उसीके जीवन का एक विस्तृत संगठन मात्र है। मनुष्य की इच्छाएँ उसकी व्यक्तिगत आत्मीयता का रूप हैं येर उन्होंका कर्म विषयक या विषयाधित रूप यह समाज है। इस प्रकार से आत्म रक्षा की व्यक्तिगत इच्छा समाज में पुलिस और न्यायालय का प्रादुर्भाव करती है, तथा सन्तान उत्पन्न करने, रूपया कमाने और सत्य का अनुसन्धान करने की इच्छा सामाजिक विषयाधित रूप में कमश कुटुम्ब, व्यापार और विद्यालयों से समानता रखती है।

<sup>१</sup> जिस प्रकार से व्यक्तिगत कल्याण सार्वजनिक कल्याण है, वैसे ही व्यक्तिगत अनिष्ट सार्वजनिक अनिष्ट है। यदि कोई व्यापारी अपना परिश्रम से कमाया हुआ धन भूमि पीने में उड़ा दे येर इस प्रकार से अपने स्वास्थ्य और कुटुम्ब की उपेक्षा करे, तो

वह निष्कपट होने पर भी निष्ठा के योग्य है, कारण कि वह निश्चित आदर्श दियाकर अपने दुराचार से अपनी, अपने कुटुम्ब, और दूसरों की हानि करके अपने समाज का घोर अपकार कर रहा है। यह सदा स्मरण रखना चाहिए कि उचित समय पर उपकार या सत्कर्म का न करना उतना ही बड़ा प्रभाव है जितना कि साक्षात् अपकार या दुष्कर्म का करना है। प्रत्येक मनुष्य अपने समाज के कुछ न कुछ निर्दिष्ट कर्तव्य पालन करने के लिये उत्पन्न होता है। यदि वह उनको उत्तमता के साथ नहीं करता या उनसे अपना हाथ छोंचता है, तो वह अवश्य अधर्म कर रहा है। आत्मीय एव सार्वजनिक या सामाजिक कल्याण को उद्देश मान कर अपने सामर्थ्य भर अत्यन्त उत्तमता के साथ अपनी आत्मा की सर्वोत्कृष्टता का सम्पादन करना, अथवा दूसरे शब्दों में अपने समाज में प्राकृतिक रूप से नियर्त अपने कर्तव्यों का, जहाँ तक हो सके, अत्यन्त उत्तम रीति से परिपालन करना, आचार-नीति का प्रधान नियम और अत्यन्त आवश्यक सदाचार है।

हमें अब यह दिखाना है कि प्रत्येक मनुष्य के लिये वे कौन कौन कर्तव्यक्षेत्र हैं जिनमें उसे सर्वोत्कृष्ट रूप से काम करना चाहिए और वे कौन कौन गुण हैं जिन्हें उसे कभी न भूलना चाहिए। हमने ठीक एक मनुष्य के समान समाज के भी सजीव बतलाया है। यह स्मरण रखिए कि मनुष्यों के आवश्यक गुण और सामाजिक कर्तव्यक्षेत्रों

में, तथा इन दोनों की नाना प्रकार की शायाओं और प्रशास्त्राचारों में एक प्रकार की अद्भुत समानता वर्तमान है, जिससे यह प्रतीत होता है कि ये एक दूसरे की पूर्ति के लिये बनाये गये हैं, इस कारण से इस विषय के मुख्य विभाग वास्तव में एक दूसरे का सक्रमण फर्तेंगे,—यदि एक कर्तव्यक्षेत्र में एक गुण आवश्यक बतलाया गया है, तो वह दूसरे कर्तव्यक्षेत्रों और दूसरे गुणों में भी उसी प्रकार से काम में लाया जा सकता है। ये सभी गुण और कर्तव्यक्षेत्र आपस में एक दूसरे से भली भांति मिले हुए हैं। मनुष्यों के गुण नीचे लियी हुई रीति से बढ़ि जा सकते हैं। यह विभाग दूसरे प्रकार से भी किया जा सकता है। यहाँ पर हमने उसका दिग्दर्शन मात्र किया है।

### प्रस्तावित विभाग ।

#### (अ) सदाचार-सम्बन्धी गुण ।

१ आत्मविषयक (आत्मनिग्रह)	१ अतिशयाभाव—परिमितता ।
	२ आत्म-प्रतिष्ठा ।
	३ पराक्रम ।
	४ व्यवसाय ।
	५ मितव्यय ।

२ अन्यविषयक । (न्याय या परो- पकारिता)	(क) अनिवार्य सम्बन्धों में	१ पितृ-भक्ति आदि । (कुटुम्ब)
		२ उपकारशीलता । (अडोस-पडोस)
(ख) इच्छाजन्य सम्बन्धों में		३ स्वदेशभक्ति । (स्वदेश)
		४ लोकहितेच्छा । (समस्त समाज)
(इ) मानसिक गुण ।		५ निष्कपटता । (व्यापार)
		२ सुशोलता । (मित्रादि समागम)
		३ हृद भक्ति । (धर्म या जाति)

१ सत्यानुसरण । (निष्कपट-भाव)

२ सत्यालाप । (सत्यपरिपूर्णता)

३ जीवनव्यवहारविषयक { (क) दूरदर्शिता ।  
। { (ख) बुद्धिमत्ता ।

उपरोक्त विभाग से हम यह भलीभांति समझ सकते हैं कि हमें किस स्थान या सम्बन्ध में किन गुणों पर विशेष हृषि रखनी चाहिए । हम चाहे कोई काम करें, परन्तु हमें यह सर्वदा ध्यान में रखना चाहिए कि हम उसे अवश्यमेव उत्तमता के साथ करें, कारण कि तभी हम सदाचारी हो सकते हैं । यदि हम उसमें कुछ भी झुटि करते हैं, तो हम अवश्य पापी हैं ।

## १२—दक्षिणी अफ्रीका और वहाँ की शासन-प्रथा ।६

मारे देश भारतवर्ष से ठीक पश्चिम में अरब से मिला हुआ अफ्रीका नामक महाद्वीप है। इसका दक्षिणी भाग इंगलैण्ड के महाराज्य के अधिकार में है और उसका अधिकाश “दक्षिणी अफ्रीका की सहित या सयोग” के नाम से प्रख्यात है। इसमें केप आफ्रिका गुड हैप, ज़्लूलैण्ड सहित नेटाल, आरेंज फ्री स्टेट और ट्रासवाल नामक चार सूत्र हैं। ये अपनी बाहरी सीमाओं पर प्राय पहाड़ियों से घिरे हुए हैं जो इनके भीतरी भूमियों को पूरे तोर से सुरक्षित रखती हैं। यहाँ की अधिकतर पृथ्वी समयर है। जलवायु कुछ ऊँचा होने पर भी अच्छा और स्वास्थकर है। यहाँ की खानों

\* नवेम्बर १९१३। भवाग भाग ७, संख्या २, पृष्ठ ६८—७०।  
स्वतन्त्र।

से कोयला, ताँबा, सोना और रत अधिकता के साथ निकलते हैं।

पहले यहाँ पर जगली आदमी रहते थे। सन् १४८८ में पुर्वगाल देशवालों ने पहले पहल गुड होप के अन्तरीप को हूँढ़ा। उसी समय से यहाँ पर योरोपवासियों का आगमन आरम्भ हुआ। इसके बाद यहाँ पर अंगरेज लोगों ने पैर रखा और फिर १६६७ में डचजातीय-पूर्वी-व्यापार-समिति से निकाले गये कुछ सैनिकों और मछाहों ने खेती के लिये योड़ी सी जमीन पाकर बसना शुरू किया। धीरे धीरे इनकी आबादी बढ़ती गयी। कुछ फ्रास देशीय लोग भी इनके साथ आ मिले। १७५४ में इस उपनिवेश की जन-सत्त्वा आठ से दस हजार तक थी। इन लोगों का कारोबार बढ़ गया था, परन्तु डचजातीय पूर्वी हिन्दुस्तान समिति इन पर कठोरता के साथ शासन करती थी। इस समिति के अफसर लोग इन्हें सभी प्रकार से दुःख देते थे। १७१५ में इन्होंने उन्हें निकाल बाहर किया और कई एक स्वाधीन राज्यों की नीव डाली। ये ही लोग “योअर” कहलाने लगे और अब इन्होंने स्वच्छन्दता के साथ इधर उधर जगली आदमियों को दबा कर अपनी बस्तियाँ बसायी। इसी समय इंगलैण्ड ने इसके केप कालोनी नामक अश को जीत लिया और अनन्तर सन्धि द्वारा तथा इसे मोल लेकर इस पर अपने स्वतंत्र को पुष्ट किया। उस समय यहाँ पर योरोपवासियों की सत्त्वा शाय २७०००

थी । ये थोड़ा लोग यहाँ के जगली मनुष्यों पर सभी नरह के अत्याचार करते थे ।

सन् १८२९ में कुछ अंगरेज लोग भी यहाँ वसने के लिये भेजे गये । उधर पादड़ी लोगों ने अपने धर्म का प्रचार करना आरम्भ कर दिया था, इन लोगों ने सबके साथ भलाई का वर्ताव किये जाने के लिये प्रयत्न किया । कुछ थोड़ा लोग अंगरेजों के शासन से पीड़ित होकर पूर्ण की ओर बढ़े भार यहाँ पर इन्होंने १८४० के लगभग नेटाल नामक प्रजा सत्ताक राज्य स्थापित किया । १८४३ में इसे इंगलैंड का उपनिवेश मान्न बनना पड़ा । अंगरेजों ने केप कालोनी में अपनी जाति के लोगों और यहाँ के साधारण निवासियों के स्वत्व प्राप्त समान कर दिये थे और थोड़ा लोग इसके एकदम पिछले थे, इस कारण से इन्होंने अलग हट कर अपना राज्य स्थापित किया । इस प्रकार से आर ज फ्री स्टेट की सृष्टि हुई । पहले पहल इंगलैंड इन्हें अपने पूर्ण अधिकार में कर लिया करता था और बाद को इन्हें यथा क्रम राजनैतिक स्वत्व देता रहता था । एक दूसरे की उन्नति को देख कर ये छोटे छोटे राज्य और अंगरेज तथा थोड़ा लोग जला करते थे और इनमें पेक्ष्य होने की आशा दुराशा मात्र थी । इंगलैंड का आधिपत्य भी इन लोगों को पूरे तौर से छटकना था । इन्होंने सब कारणों से १८९९ से १९०२ तक अंगरेजों द्वारा थोड़ा में धोर युद्ध होता रहा । अन्त में थोड़ा लोगों को समिध करनी पड़ी और इंगलैंड ही सब प्रकार से यहाँ का अधिकारी

रहा। प्रजा-सत्ताक राज्यों के टूट जाने से वर्तमान सूर्यों की प्रतिस्पर्धा कुछ कम है। यद्यी और थीरे धीरे आपस में मेल हो जाने के लक्षण दिखाया देने लगे।

केप आफ़्रिका में गुड हॉप इस सहति का दक्षिणी सूबा है। केप टाउन इसकी राजधानी है। इसका क्षेत्रफल २७६, ९१५ वर्ग मील और जन-संख्या २,५६९,०२८ है। यहाँ का दुसरा पूर्वी सूबा नेटाल है, इसका क्षेत्रफल २५,२९० वर्ग मील और आवादी १,१९१,९५८ है। पीटरमेरिज वर्ग में इसका शासक रहता है। नेटाल से उत्तर की ओर द्रासवाल और इन दोनों के बीच में आरेंज फ्री स्टेट नामक सूबा है। द्रासवाल का क्षेत्रफल ११०,४२६ वर्गमील और जन-संख्या १,६८६, २१२ है। प्रादेशिक शासक यहाँ के मुख्य नगर विटोरिया में रहता है। आरेंज फ्री स्टेट का क्षेत्रफल ५०, ३९२ वर्गमील और आवादी ५२८, १७३ है। इसका मुख्य नगर छ्लीमफाटीन है। यहाँ से इसका शासन होता है।

ये उपरोक्त चारों सूबे ३१ मई १९१० को इंगलैंड की पार्ली-मेट में निर्दित व्यवस्था के द्वारा एक में सम्मिलित कर दिये गये थे। इन्हें आपनिवेशिक स्वराज्य दिया गया। उसी समय से ये “दक्षिणी अफ्रीका की सहति” कहाते हैं। यह इनका शासन मुख्यतया यहाँ के वासियों ही के द्वारा किया जाता है। इंगलैंड के सघाट के हाथ में यहाँ के लिये गवर्नर जनरल या बड़े लाट के नियुक्त करने की शक्ति है। इसकी सहायता के

दक्षिणी अफ्रीका और वहाँ की शासन-प्रथा । २४१

लिये एक कार्य-कारिणी समिति की आयोजना की गयी है। इस समिति के सदस्यों को गवर्नर-जनरल अपनो इच्छा के अनुकूल नियत करता है। समस्त कार्य-कारिणी शक्ति बड़े लाट और उसकी समिति को प्राप्त है। रियासत के मुख्य विभाग भी ग्रवन्ध करने के लिये स्थापित किये गये हैं। उनकी देख भाल के लिये गवर्नर-जनरल प्रायः १० मुख्य कर्मचारी नियत करता है, ये भी कार्य कारिणी समिति के सदस्य होते हैं।

कानून बनाने की शक्ति यहाँ की पार्लीमेंट के हाथ में है। डैगलैंड के सप्राट्, सिनेट या सचिव सभा और प्रतिनिधि सभा ये तीनों उसके मुख्य अङ्ग हैं। गवर्नर-जनरल इस पार्लीमेंट को पक्षित कर सकता है, इसकी वेठक और तारीखों को हटा सकता है और इसको तोड़ सकता है। वह चाहे तो सचिव-सभा और प्रतिनिधि सभा को एक साथ ही अवधा अलग अलग कर सकता है, परन्तु सहति की स्थापित होने की तारीख से दस वर्ष के भीतर उसे सचिव सभा को न तोड़ना चाहिए। साल में एक बार पार्लीमेंट की वैठक जरूर होनी चाहिए।

सचिव सभा या सिनेट में ४० सदस्य हैं। इनमें से ८ को गवर्नर-जनरल नियत करता है। शेष ३२ हर एक सद्ये से आठ आठ सदस्यों के हिसाब से निर्वाचित किये जाते हैं। सन् १९२० के बाद इसके समान में आवश्यकता होने पर परिवर्तन भी किया जा सकेगा। जो लोग योरोपियासियों की सत्तान और अंगरेजी साम्राज्य की प्रजा हैं, और जिनकी अवस्था कम से

हे । न्याय-विभाग के सचालन के लिये उसकी अध्यक्षता में और भी छोटे छोटे न्यायालय प्रत्येक प्रदेश में हे । अगरेजी और डच दोनों ही भाषाएँ दफ्तरों में काम में लायी जाती हे ।

अफ्रीका और पश्चियावासी लोग भी इस सहति में रहते हैं । उनसे सम्बन्ध रखनेवाली हर एक बात का प्रबन्ध बड़े लाट और उनकी समिति के द्वारा होता हे । इन लोगों के साथ निन्टनीय व्यवहार करने का जो स्वभाव था अर जातिवालों ने प्रारम्भ ही से सोप रखया है वही आश्रय जनक धैषम्य—थोर अत्याचार—इन दिनों में दक्षिणी अफ्रीका में चरम सीमा को पहुँच गया है ।

